

पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम काव्य तथा साहित्यिक पुस्तकें

रतिरानी	१॥१, २॥१	नई धारा	१=), ॥=)
पृथ्वीराज रासो के दो		निर्वासित के गीत	११), २)
समय	२१)	चकल्लस	॥१), १॥१)
बिहारी-सुधा	॥=), ॥३=)	पंछी	.
मान-भयंक	११), २)	ब्रज-भारती	१), १॥१)
रत्नावली	२), २॥१)	भारत-गीत	११), २)
जीवन-रेखाएँ	११), २)	मकरंद	११), २)
आत्मार्पण	१), १॥१)	मधुवन	१), ११)
उषा	॥=), ॥३=)	मन की मौज	११), १११)
कल्पलता		मेघमाला	१), १॥१)
दुलारे-दोहावली	१), १॥१)	रेलदूत	१), =)
देव सुधा	१॥१), २१)	लतिका	११), २)
आँगन	२)	अपने गीत	१॥१)
विप्लव और बिहार	२)	धधकती ज्वाला	१=)
मन के गीत	१)	प्रांगण	२)

हिंदुस्थान-भर की हिंदी-पुस्तकें मिलाने का पता—
गंगा-ग्रंथागार, ३६, लाटूश रोड, लखनऊ

गंगा-पुस्तकमाला का सौवाँ पुष्प

परिमल ४०७

(सरस कविताओं का संग्रह)

लेखक

पं० सूर्यकांतजी त्रिपाठी 'निराला'

(अप्सरा, अलका, तिली, महाभारत, कुलीभाट आदि

२६, लाट्टी २।७

लखनऊ

चतुर्धावृत्ति]

सं० २००५ वि०

[मूल्य ४]

अन्य प्राप्ति-स्थान—

१. दिल्ली-ग्रंथागार, चखैवाजाँ, दिल्ली
२. प्रयाग-ग्रंथागार, ४०, कास्थवेट रोड, प्रयाग
३. राष्ट्रीय प्रकाशन-मंडल, मछुआ-टोली, पटना

नोट—इनके अलावा हमारी सब पुस्तकें हिंदुस्थान-भर के सब प्रधान बुकसेलरों के यहाँ मिलती हैं। जिन बुकसेलरों के यहाँ न मिलें, उनका नाम-पता हमें लिखें।

मुद्रक

श्रीदुजारेलाल

अध्यक्ष गंगा-फाइनआर्ट-प्रेस

लखनऊ





खण्ड

{ १ }

भूमिका

हिन्दी की वाटिका में खड़ीबोली की कविता की क्यारियाँ, जो कुछ समय पहले दूरदर्शी वाग्दानों के परिश्रम से जग चुकी थीं, आज धीरे-धीरे कलियाँ लेने लगी हैं। कहीं-कहीं, किसी-किसी पेड़ के दो-चार सुमन पङ्कडियाँ भी खोलने लगे हैं। उनकी अमन्द सौरभ लोगों को खूब पसन्द आई है। परन्तु यह हिन्दी के उद्यान में अभी प्रभात-काल ही की स्वर्णच्छटा फैली है। उसमें सोने के तारों का घुना कल्पना का जाल ही अभी है, जिससे किशोर कवियों ने अनन्त-विरतृत नील प्रकृति को प्रतिमा में बाँधने की चेष्टा की है, उसे प्रभात के विविध वणों से चमकती हुई अनेक रूपों में सुन्दर देखकर। वे हिन्दी के इस काल के शुष्क साहित्य-हृदयों में उन मनोहर प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने का विचार कर रहे हैं। इसी-लिये, अभी जागरण के मनोहर चित्र, आह्लाद-परिचय आदि जीवन के प्राथमिक चिह्न ही देख पड़ते हैं, विहङ्गों का मधुर-कल-कृजन, स्वास्थ्य-प्रद स्पर्श-सुलभ शीतल वायु, दूर तक फैली हुई प्रकृति के हृदय की हरियाली, अनन्तवाहिन नदियों का प्रणय चञ्चल वक्षः-स्थल, लहरों पर कामनाओं की उज्ज्वल किरणें, चारों ओर बाल-प्रकृति की सुकुमार चपल दृष्टि। इसके सिवा अभी कर्म की अविश्राम धारा बहती हुई नहीं देख पड़ती। इस युग के कुछ प्रतिभाशाली अल्प-वयस्क साहित्यिक प्राचीन गुरुदम के एकच्छत्र साम्राज्य में बशावत के लिये शासन-दण्ड ही पा रहे हैं, अभी उन्हें साहित्य के राजपथों पर साधिकार स्वतन्त्र-रूप से चलने का सौभाग्य नहीं मिला। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इस नवीन जीवन के भीतर

उसका जितना भी प्रभाव हो, वह कभी भारत की सर्वमान्य राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती। और, जब तक लोग इस वाद-विवाद में पड़े हैं, नेतागण अंगरेजी के प्रवाह में आत्मविस्मृत हुए वह रहे हैं, तब तक खड़ीबोली अपने साहित्य के उत्कर्ष में श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेगी, इसमें मुझे विलकुल ही सन्देह नहीं। मैं यह भी जानता हूँ कि जो राष्ट्र-भाषा होगी, उसे अपने साहित्यिक पौरुष से ही वह पद प्राप्त करना होगा, और उसके सेवक इस विचार से विलकुल निश्चेष्ट और परमुखापेक्षी भी नहीं रह गए, कारण, आलोक और प्रतिभा सबके लिये समान रूप से मुक्त हैं।

मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से अलग हो जाना। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह भी दूसरे के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम काँ औरों को प्रसन्न करने के लिये होते हैं—फिर भी स्वतन्त्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिये अनर्थकारी नहीं होता, किन्तु उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। जैसे वाग की बँधी और वन की खुली हुई प्रकृति। दोनों ही सुन्दर हैं, पर दोनों के आनन्द तथा दृश्य दूसरे-दूसरे हैं। जैसे आलाप और ताल की रागिनी। इसमें कौन अधिक आनन्द-प्रद है, यह बतलाना कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं कि आलाप, वन्य प्रकृति तथा मुक्त काव्य स्वभाव के अधिक अनुकूल हैं। मेरे मुक्त काव्य के समर्थन में परिचित जयदेव विद्यालङ्कारजी ने देहरादून-कवि-सम्मेलन में जो प्रहसन खेला था, उसमें गायत्री-मन्त्र का उदाहरण विरोधी जगन्नाथ-प्रसादजी चतुर्वेदी के सामने पेश किया था। लाखों ब्राह्मण गायत्री-मन्त्र का जप करते हैं। उसके जप के साथ-साथ भाषा की मुक्ति का प्रवाह

प्रतिदिन उनके जिह्वाग्र से होकर बसता है, पर वे उसका अर्थ उसकी सार्थकता, सब कुछ भूल गए हैं। चूँकि उस छन्द का एक नाम 'गायत्री' रख दिया गया है, इसलिये प्रायः अज्ञान उसमें स्त्री-मूर्ति ही की कल्पना कर बैठे हैं। "तत्सवितुर्वरेण्यम्" में खुलासा ब्रह्म की स्तुति है कि वह सूर्य का भी वरेण्य है। "तत्" न स्त्री है, न पुरुष। जिस तरह ब्रह्म मुक्त-स्वभाव है, वैसे ही यह छन्द भी। पर आज इस तरह कोई दृक्पात भी नहीं करना चाहता। इतनी बड़ी दासता—रुद्धियों को पाबन्दी इस मन्त्र के जपनेवालों पर भी सवार है। वेदों में काव्य की मुक्ति के ऐसे हजारों उदाहरण हैं। बल्कि ६५ क्रीसद्दी मन्त्र इसी प्रकार मुक्त-हृदय के परिचायक हो रहे हैं। इन मन्त्रों को ईश्वर-कृत समझकर अनुयायीगण विचार करने के लिये भी तैयार नहीं, न पराधीन काव्य की अपनी वेदियाँ किसी तरह छोड़ेंगे, जैसे उन वेदियों के साथ उनके जीवन और मृत्यु का सम्बन्ध हो गया हो। "ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुन तिष्ठति" यहाँ उस मुक्त-स्वभाव ईश्वर को सर्वभूतों के हृदय में ही ठहरा दिया है, और हृदय तक मन को उठा सकनेवाले जो कुछ भी करते हैं, मुक्त स्वभाव से करते हैं, इसलिये वह कृति जैसे ईश्वर की ही कृति हो जाती है। बात यह है, वेदों की अपौरुषेयता की। वे मनुष्य कृत ही हैं, पर वे मनुष्य उल्लिखित प्रकार के थे। आजकल की तरह के रुद्धियों के गुलाम या अंगरेजी पुस्तकों के नज़काल नहीं। ईश्वर के सम्बन्ध की ये बातें जो समझते हैं, उनमें एक अद्भुत शक्ति का प्रकाश होता है। वे स्वयं भी अपनी महत्ता को समझते और खुलकर कहते भी हैं। उनकी वाणी में महाकर्षण रहता। संसार उस वाणी से मन्त्र-मुग्ध हो जाता है। उस पर उस स्वर्गीय शक्ति की धाक जम जाती है। वह उस प्रभाव को मान लेता है। वैदिक काल के मुक्त-स्वभाव कवियों का एक और उदाहरण लीजिए—

तमाम विरोधी उक्तियों के खण्डन-मण्डन की जगह नहीं। मैं केवल यही कहूँगा कि प्रत्येक समाज के लिये कुछ हृदय-धर्म है, और कुछ मस्तिष्क-धर्म। अभी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने में मस्तिष्क-धर्म से ही काम लिया जाता है, जिस तरह साम्प्रतिक विचार से चर्खे और खहर के लिये। हिन्दी के प्राचीन साहित्य के साथ तुलना करने पर प्रान्तीय कोई भाषा नहीं टिकती, और उसका नवीन साहित्य भी क्रमशः पुष्ट ही होता जा रहा है, जिसे देखकर यह आशा दृढ़ हो जाती है कि शीघ्र ही हिन्दी के गर्भ से बड़े-बड़े मनस्वी साहित्यिकों का उद्भव होगा। इस समय भी साहित्य में हिन्दी अद्भुत प्रगति दिखला रही है। उधर जो लोग, खासकर बंगाल के लोग, अपनी ही भाषा की सार्वभौमिकता के प्रचार की कल्पना में लीन हैं, जिन्होंने पुस्तकें लिखकर बोलचाल की हिन्दी के तमाम विभाग करते हुए उसे आगरे के इर्द-गिर्द में बोली जानेवाली कुछ ही लोगों की भाषा ठहराया है, और इस तरह अन्यान्य भाषाओं के साथ अपनी बँगला का मुक़ाबिला करते हुए उसे ही अधिक-सङ्ख्यक मनुष्यों की भाषा सिद्ध किया है, जिन्होंने अमेरिका में रहने का रोच दिखलाते हुए बँगला को ही राष्ट्र-भाषा का आसन दे डाला है, जो लोग लिये तौर से बँगला के प्रचार के उशय सोच रहे हैं, जिन लोगों का पश्चिमोत्तर भारतवर्ष के तमाम शहरों में बंगालियों की अच्ची स्थिति के कारण उन्हीं की भाषा के प्रसार की बात मूकती है, वे राष्ट्र-भाषा के अधपर प्रश्नों की तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं देते, एक नृतीयांश सुमलमानों का विचार उनके मस्तिष्क में नहीं आता, वे नहीं जानते कि आर्य उच्चारण और बँगला के मट्गोनियन उच्चारण में क्या भेद है,—बँगला के उच्चारण-असादृश्य से पञ्जाब, सिन्ध, राजपूताना, युक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र की संस्कृति को कितना धक्का पहुँचता है, वे नहीं जानते। टम तलवार के ज़माने में सिर काटकर भी साहित्य में

छन्दों में स्वर की बराबर लड़ियाँ या सम-मात्राएँ अधिक मिलती हैं, इसमें बहुत कम—प्रायः नहीं। हस्त्र-दीर्घ-मात्रिक सङ्गीत का मुक्त रूप ऐसा ही होगा, जहाँ स्वर के स्थान तथा पतन पर ही ध्यान रहता है। और भावना प्रसरित होती चली जाती है। तीसरे खण्ड में स्वच्छन्द छन्द है, जिसके सम्बन्ध में मुझे विशेष रूप से कहने की जरूरत है, कारण, इसे ही हिन्दी में सर्वाधिक कलङ्क का भाग मिला है।

हिन्दी के हृदय में खड़ीबोली की कविता का द्वार प्रभात की उज्ज्वल किरणों से खूब ही चमक उठा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, और यह भी निश्चिन्त है कि राष्ट्र-प्राप्ति की कल्पना के काम्यवन में सविचार विचरण करनेवाले हमारे राष्ट्रपतियों के उर्वर मस्तिष्क में क्रान्ती कीर्णों के अतिरिक्त भाषा के सम्बन्ध की अब तक कोई भावना, महात्माजी, महामना मालवीयजी तथा लोकमान्य-जैसे दो-चार प्रख्यात-कीर्ति महापुरुषों की छोड़कर, उत्पन्न नहीं हुई; जो कुछ थोड़ा-सा प्रचार तथा आन्दोलन राष्ट्र-भाषा के विस्तार के लिये किया जा रहा है, उसका श्रेय हिन्दी के शुभचिन्तक साहित्यिकों को, हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं को ही प्राप्त है। बंगाल अभी तक अपनी ही भाषा के उत्कर्ष की ओर तमाम भारतवर्ष को खींच लेने के लिये उत्कण्ठित-सा देख पड़ता है। इसका प्रमाण महामना मालवीयजी के सभापतित्व में, कलकत्ता विद्यासागर कॉलेज-होस्टल में दिए हुए अँगरेजी के प्रसिद्ध विद्वान् प्रोफ़ेसर जे० प्लू० बनर्जी महाशय के भाषण से मिल चुका है। भरतपुर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में महाकवि रवीन्द्रनाथ ने भी अपने भाषण में राष्ट्र-भाषा के प्रचार पर विशेष कुछ नहीं कहा, जैसे महात्मा गान्धीजी द्वारा प्रचारित चर्खा-विषय की अनावश्यकता की तरह यह राष्ट्र-भाषा-वाद भी कोई अनावश्यक विषय हो। उन्होंने केवल यही कहा कि अपनी भाषा में वह चमत्कार दिखलाने की कोशिश कीजिए, जिससे लोग स्वयं उसकी ओर आकृष्ट हों। यहाँ

से शीघ्र ही एक ऐसा आवर्त बँधकर उठनेवाला है, जिसके साथ साहित्य के अगणित जल-कण उस एक ही चक्र की प्रदक्षिणा करते हुए उसके साथ एक ही प्रवाह में बह जायँगे, और लक्ष्य-भ्रष्ट या निदाव से शुष्क न हो एक ही जीवन के उदार महासागर में विलीन होंगे। यह नवीन साहित्य के क्रिया-काल में सम्भव होगा। अभी तो प्रत्येक नवयुवक लेखक और कवि अपनी ही प्रतिभा के प्रदर्शन में लगा हुआ है। अभी उनमें अधिकांश साहित्यिक अपने को समझ भी नहीं सके। जो कवि नहीं, वह भी अपने को कविता के क्षेत्र पर अप्रतिद्वन्द्वी समझता है। सब लोग अपनी ही कुशलता और अपनी ही रुचि-विशेषता को लेकर साहित्य के बाज़ार में गढ़े हुए देख पड़ते हैं। कहीं-कहीं तो बड़ा ही विचित्र नज़ारा है। प्रशंसा और आलोचना में भी आदान-प्रदान जारी है। दल-चन्दियों के भाव जिनमें न हों, ऐसे साहित्यिक कदाचित् ही नज़र आते हैं, और प्रतिभाशाली साहित्यिकों को निष्प्रभ तथा हेय सिद्ध करके समझान आसन ग्रहण करनेवाले महालेखक और महाकवि-गण साहित्य में अपनी प्राचीन गुलामी-प्रथा की ही पुष्टि करते जा रहे हैं।

ऐसी परिस्थिति में 'परिमल' निकल रहा है। हममें मेरी प्राथमिक अधिकांश चुनी हुई रचनाएँ हैं। इसके मैंने तीन खण्ड किए हैं। प्रथम खण्ड में सममात्रिक सान्धानुप्रास कविताएँ हैं, जिनके लिये हिन्दी के लक्षण-ग्रन्थों के द्वारपालों को "प्रवेश-निषेध" या "भीतर जाने की मनाहत सुमानियत है" कहने की ज़रूरत शायद न होगी। दूसरे खण्ड में विषम-मात्रिक सान्धानुप्रास कविताएँ हैं। इस ढंग के साथ मेरे "समवायः सत्त्वा मतः" या "एकक्रियं भवेन्मिग्रम्" सुरुमार कवि-मिग्र पन्तजी के ढंग का साम्य है; यह भी उसी तरह दम्ब-दीर्घ-मात्रिक संगीत पर चरता है। पन्तजी के

छन्दों में स्वर की बराबर लड़ियाँ या सम-मात्राएँ अधिक मिलती हैं, इसमें बहुत कम—प्रायः नहीं। ह्रस्व-दीर्घ-मात्रिक सङ्गीत का मुक्त रूप ऐसा ही होगा, जहाँ स्वर के अन्धान तथा पतन पर ही ध्यान रहता है। और भावना प्रसरित होती चली जाती है। तीसरे खण्ड में स्वच्छन्द छन्द हैं, जिसके सम्बन्ध में मुझे विशेष रूप से कहने की जरूरत है, कारण, इसे ही हिन्दी में सर्वाधिक कलङ्क का भाग मिला है।

हिन्दी के हृदय में खड़ीबोली की कविता का द्वार प्रभात की उज्ज्वल किरणों से खूब ही चमक उठा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, और यह भी निश्चिन्त है कि राष्ट्र-प्राप्ति की कल्पना के काम्यचक्र में सविचार विचरण करनेवाले हमारे राष्ट्रपतियों के उर्वर मस्तिष्क में कानूनी कोणों के अतिरिक्त भाषा के सम्बन्ध की अब तक कोई भावना, महात्माजी, महामना मालवीयजी तथा लोकमान्य-जैसे दो-चार प्रख्यात-कीर्ति महापुरुषों को छोड़कर, उत्पन्न नहीं हुई; जो कुछ थोड़ा-सा प्रचार तथा आन्दोलन राष्ट्र-भाषा के विस्तार के लिये किया जा रहा है, उसका श्रेय हिन्दी के शुभचिन्तक साहित्यिकों को, हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं को ही प्राप्त है। बंगाल अभी तक अपनी ही भाषा के उत्कर्ष की ओर तमाम भारतवर्ष को खींच लेने के लिये उत्कण्ठित-सा देख पड़ता है। इसका प्रमाण महामना मालवीयजी के सभापतित्व में, कलकत्ता विद्यासागर कॉलेज-होस्टल में दिए हुए अंगरेजी के प्रसिद्ध विद्वान् प्रोफेसर जे० एल्० बनर्जी महाशय के भाषण से मिल चुका है। भरतपुर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में महाकवि रवीन्द्रनाथ ने भी अपने भाषण में राष्ट्र-भाषा के प्रचार पर विशेष कुछ नहीं कहा, जैसे महात्मा गान्धीजी द्वारा प्रचारित चर्खा-विषय की अनावश्यकता की तरह यह राष्ट्र-भाषा-वाद भी कोई अनावश्यक विषय हो। उन्होंने केवल यही कहा कि अपनी भाषा में वह चमत्कार दिखलाने की कोशिश कीजिए, जिससे लोग स्वयं उसकी ओर आकृष्ट हों। यहाँ

तमाम विरोधी उक्तियों के खरडन-मखडन की जगह नहीं । मैं केवल यही कहूँगा कि प्रत्येक समाज के लिये कुछ हृदय-धर्म है, और कुछ मस्तिष्क-धर्म । अभी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने में मस्तिष्क-धर्म से ही काम लिया जाता है, जिस तरह साम्प्रतिक विचार से चर्खें और खरड के लिये । हिन्दी के प्राचीन साहित्य के साथ तुलना करने पर प्रान्तीय कोई भाषा नहीं टिकती, और उसका नवीन साहाय्य भी क्रमशः पुष्ट ही होता जा रहा है, जिसे देखकर यह आशा बढ़ ही जाती है कि शीघ्र ही हिन्दी के गर्भ से बड़े-बड़े मनस्वी साहित्यिकों का उद्भव होगा । इस समय भी साहित्य में हिन्दी अद्भुत प्रगति दिखला रही है । उधर जो लोग, ख़ासकर बंगाल के लोग, अपनी ही भाषा की सार्वभौमिकता के प्रचार की कल्पना में लीन हैं, जिन्होंने पुस्तकें लिखकर बोलचाल की हिन्दी के तमाम विभाग करते हुए उसे आगरे के इर्द-गिर्द में बोली जानेवाली कुछ ही लोगों की भाषा उधराया है, और इस तरह अन्यान्य भाषाओं के साथ अपनी बँगला का मुक़ाबिला करते हुए उसे ही अधिक-सङ्ख्यक मनुष्यों की भाषा मिन्न किया है, जिन्होंने अमेरिका में रहने का रोच दिखलाते हुए बँगला को ही राष्ट्र-भाषा का आसन दे डाला है, जो लोग छिपे छोर से बँगला के प्रचार के उशय रोच रहे हैं, जिन लोगों का पश्चिमोत्तर भारतवर्ष के तमाम शहरों में बंगालियों की अक्षी गिणति के कारण उन्हीं की भाषा के प्रसार की बात सूझती है, वे राष्ट्र-भाषा के अधपर प्रश्नों की तरफ़ बिलकुल ही ध्यान नहीं देने, एक नृनीयांश सुमलमानों का विचार उनके मस्तिष्क में नहीं आता, वे नहीं जानते कि आर्य उच्चारण और बँगला के मर्गोलियन उच्चारण में क्या भेद है,—बँगला के उच्चारण-असादृश्य से पञ्जाब, सिन्ध, राजपूताना, युक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र की संस्कृति को किनना धक्का पहुँचना है, वे नहीं जानते । उस नक्तवार के ज़माने में मिर काटकर भी साहित्य में

अपनी संस्कृति की रक्षा करनेवाले वे गत शताब्दियों के महापुरुष अपनी भाषा और लिपि के भीतर से असीम बल अपनी सन्तानों को दे गए हैं, वे नहीं जानते कि आजकल के जमादारों, भैयों, मारवाड़ियों (मेड़ो) और गुजरातियों के निरक्षर शरीर के भीतर कितना बड़ा स्वाभिमान इस दैन्य के काल में भी जाग्रत है, वे 'बहु-जन-हिताय, बहु-जन-सुखाय' का विलकुल खयाल नहीं करते । इधर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी से लेकर आचार्य परिधत महावीर-प्रसाद द्विवेदी तक जिन लोगों को खड़ीबोली की प्राण-प्रतिष्ठा का श्रेय मिला है, भाषा के मार्जन में जिन लोगों ने अपने शरीर के तमाम रक्तबिन्दु सुखा दिए हैं, हिन्दी में खिचड़ी-शैली के समावेश तथा प्रचार से शहरों के प्रचलित ठडू-शब्दों तथा मुहाविरों को साहित्य में जगह देते हुए सुसलमान शासन-काल के चिह्न भी रख दिए हैं, और इस तरह अपने सुसलमान भाइयों को भी राष्ट्र की सेवा के लिये आमन्त्रित किया है, साहित्य के साथ-साथ राष्ट्र-साहित्य की भी कविता का उन्हीं लोगों ने प्रथम शृङ्गार किया है । वे जानते थे, कल-कला, बम्बई, मद्रास और रङ्गून आदि अपर-भाषा-भाषी प्रान्तों में हिन्दी ही राज-कार्य तथा व्यवसाय आदि में लाई जा सकती है, शासक अँगरेजों के मस्तिष्क में भी यही खयाल जड़ पकड़े हुए हैं और वे भारत के लिये हिन्दी को ही सार्वभौमिक भाषा मानते और कार्य-सञ्चालनार्थ उसी की शुद्धाशुद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं । मैं यहाँ अवश्य बँगला का विरोध नहीं कर रहा, उसके आधुनिक अमर साहित्य का मुझ पर काफ़ी प्रभाव है, मैं यहाँ केवल औचित्य की रक्षा कर रहा हूँ । जिस भाषा के अक्षर का उच्चारण बिलकुल अनार्य है, जिस में ह्रस्व-दीर्घ का निर्वाह होता ही नहीं, जिसमें युकाक्षरों का एक भिन्न ही उच्चारण होता है, जिसके 'स'कारों और 'न'कारों के भेद सूक्त ही नहीं, वह भाषा चाहे जितनी मधुर हो, साहित्यिकों पर

उसका जितना भी प्रभाव हो, वह कभी भारत की सर्वमान्य राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती। और, जब तक लोग इस वाद-विवाद में पड़े हैं, नेतागण अंगरेजी के प्रवाह में आत्मविस्मृत हुए चह रहे हैं, तब तक खड़ीबोली अपने साहित्य के उत्कर्ष में श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेगी, इसमें मुझे बिलकुल ही सन्देह नहीं। मैं यह भी जानता हूँ कि जो राष्ट्र-भाषा होगी, उसे अपने साहित्यिक पौरुष से ही वह पद प्राप्त करना होगा, और उसके सेवक इस विचार से बिलकुल निश्चेष्ट और परमुन्नापेक्षी भी नहीं रह गए, कारण, आलोक और प्रतिभा सबके लिये समान रूप से मुक्त हैं।

मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से अलग हो जाना। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह भी दूसरे के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम काँ औरों को प्रसन्न करने के लिये होते हैं—फिर भी स्वतन्त्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिये अनर्थकारी नहीं होता, किन्तु उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। जैसे माता की बँधी और वन की खुली हुई प्रकृति। दोनों ही सुन्दर हैं, पर दोनों के आनन्द तथा दर्श्य दूसरे-दूसरे हैं। जैसे आलाप और ताल की रागिनी। इसमें कौन अधिक आनन्द-प्रद है, यह बतलाना कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं कि आलाप, वन्य प्रकृति तथा मुक्त काव्य स्वभाव के अधिक अनुकूल हैं। मेरे मुक्त काव्य के समर्थन में पण्डित जयदेव विशालद्वारजी ने देहरादून-कवि-सम्मेलन में जो प्रहसन गेला था, उसमें गायत्री-मन्त्र का उदाहरण विरोधी जगन्नाथ-प्रसादी जी पण्डितों के सामने पेश किया था। लार्डो ब्राह्मण गायत्री-मन्त्र का उदाहरण देते हैं। उसमें उदाहरण के माध्यम भाषा की मुक्ति का प्रवाह

प्रतिदिन उनके जिह्वाग्र से होकर बसता है, पर वे उसका अर्थ उसकी सार्थकता, सब कुछ भूल गए हैं। चूँकि उस छन्द का एक नाम 'गायत्री' रख दिया गया है, इसलिये प्रायः अज्ञान उसमें स्त्री-मूर्ति ही की कल्पना कर बैठे हैं। "तत्सवितुर्वरेण्यम्" में खुलासा ब्रह्म की स्तुति है कि वह सूर्य का भी वरेण्य है। "तत्" न स्त्री है, न पुरुष। जिस तरह ब्रह्म मुक्त-स्वभाव है, वैसे ही यह छन्द भी। पर आज इस तरह कोई दृक्पात भी नहीं करना चाहता। इतनी बड़ी दासता—रूढ़ियों की पाबन्दी इस मन्त्र के जपनेवालों पर भी सवार है। वेदों में काव्य की मुक्ति के ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। बल्कि ६५ प्रीसदी मन्त्र इसी प्रकार मुक्त-हृदय के परिचायक हो रहे हैं। इन मन्त्रों को ईश्वर-कृत समझकर अनुयायीगण विचार करने के लिये भी तैयार नहीं, न पराधीन काव्य की अपनी बेदियाँ किसी तरह छोड़ेंगे, जैसे उन बेदियों के साथ उनके जीवन और मृत्यु का सम्बन्ध हो गया हो। "ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुं न तिष्ठति" यहाँ उस मुक्त-स्वभाव ईश्वर को सर्वभूतों के हृदय में ही ठहरा दिया है, और हृदय तक मन को उठा सकनेवाले जो कुछ भी करते हैं, मुक्त स्वभाव से करते हैं, इसलिये वह कृति जैसे ईश्वर की ही कृति हो जाती है। बात यह है, वेदों की अपौरुषेयता की। वे मनुष्य कृत ही हैं, पर वे मनुष्य उल्लिखित प्रकार के थे। आजकल की तरह के रूढ़ियों के गुलाम या अंगरेज़ी पुस्तकों के नक्काल नहीं। ईश्वर के सम्बन्ध की ये बातें जो समझते हैं, उनमें एक अद्भुत शक्ति का प्रकाश होता है। वे स्वयं भी अपनी महत्ता को समझते और खुलकर कहते भी हैं। उनकी वाणी में महाकर्षण रहता। संसार उस वाणी से मन्त्र-मुग्ध हो जाता है। उस पर उस स्वर्गीय शक्ति की धाक जम जाती है। वह उस प्रभाव को मान लेता है। वैदिक काल के मुक्त-स्वभाव कवियों का एक और उदाहरण लीजिए—

मपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रय-
नस्नाविरंशु, शुद्धमपापविद्धम् ;

कविमंतीषी परिभूः स्वयम्भू-

याथातथ्यतोऽर्षान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।

(यजु० अ० ४ मं०)

ज़रा चौथी पंक्ति को देखिए, कहां तक फैलती चली गई है। फिर भी किसी ने आज तक आपत्ति नहीं की। शायद इसके लिये सोच लिया है कि साक्षात् परमात्मा आकर लिख गए हैं। अजी परमात्मा स्वयं अगर यह रसद-छन्द और केचुआ-छन्द लिख सकते हैं, तो मैंने कौन-सा कुमुर कर डाला ? आज़िआ आपके परमात्मा का ही तो अनुसरण किया है। आप लोग कृपा करके मुझे क्यों नहीं जमा कर देने ? एक बात ध्यान देने की शोर है। संस्कृत-काल के गया-मरु छन्दों की भी परवा वैदिक काल में नहीं की गई। इस छन्द की जो तीन पहली लड़ियाँ बराबर मालूम पड़ती हैं उनमें भी स्वच्छन्दता पाई जाती है। देखिए, पहला वर्ण ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ। ग्य गणों का साम्य नहीं रहा।

तीन-तीन और पाँच-पाँच मतरी की कविता इसी समय नहीं, पहले भी हुआ करती थी—अग्येद—

।
मा शुभ्रा वातमशिवना स्वश्रवा

।
गिता दम्ना जुजुपाणा युवाकोः ;

।
हत्यानि च प्रतिभृता वीत नः ।

वैदिक साहित्य-शास्त्र में इस प्रकार की स्वच्छन्द सृष्टि को देखकर हम ताशास्त्रीय मनुष्य-स्वभाव की सुक्ति का अन्दाज़ा लगा लेते हैं। परगणी काल में ज्यों-ज्यों विप्र-प्रियता बढ़ती गई है, साहित्य में स्वच्छन्दता की प्रगढ़ नियन्त्रण तथा अनुशासन प्रबल होना गया

है, यह जाति त्यों-त्यों कमज़ोर होती गई है। सहस्रों प्रकार के साहित्यिक बन्धनों से यह जाति स्वयं भी बँध गई, जैसे मकड़ी आप ही अपने जाल में बँध गई हो, जैसे फिर निकलने का एक ही उपाय रह गया हो कि उस जाल की उल्टी परिक्रमा कर वह उससे बाहर निकले। उस ऊर्णनाभ ने जितनी जटिलता दूसरे जीवों को फाँसने के लिये उस जाल में की थी, वह इतने ही इद रूप से बँधा हुआ है, अब उसे अपनी मुक्ति के लिये उन तमाम बन्धनों को पार करना होगा। यही हाल वर्तमान समय में हमारे काव्य-साहित्य का है। इस समय के और पराधोन काल के काव्यानुशासनों को देखकर हम जाति की मानसिक स्थिति को भी देख ले सकते हैं ! अनुशासन के समुदाय चारों तरफ़ से उसे जकड़े हुए हैं, साहित्य के साथ-साथ राज्य, समाज, धर्म, व्यवसाय, सभी कुछ पराधीन हो गए हैं। चित्र स्वयं सीमा है, इसलिये उन्हें प्यार करनेवाली वृत्ति भी एक सीमा के अन्दर चक्कर लगाया करती है, और इस तरह उस वृत्ति को धारण करनेवाला मनुष्य भी चाहे पहले का स्वतन्त्र हो, पर पीछे से सीमा में बँधकर पराधीन हो जाता है। नियम और अनुशासन भी सीमा के ही परिचायक होते हैं, और क्रमशः मनुष्य-जाति को सुदृ से सुदृतर तथा गुलाम से गुलाम कर देनेवाले।

साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है। इस तरह जाति के मुक्ति-प्रयास का पता चलता है। धीरे-धीरे चित्र-प्रियता चूटने लगती है। मन एक खुली हुई प्रशस्त भूमि में बिहारा करना चाहता है। चित्रों की सृष्टि तो होती है, पर वहाँ उन तमाम चित्रों को अनादि और अनन्त सौन्दर्य में मिलाने की चेष्टा रहती है। बरूँ में जैसे तमाम चर्चों की छटा, सौन्दर्य आदि दिखलाकर उसे फिर किसी ने वापर में विलीन कर दिया हो या असीम सागर से मिला दिया हो। साहित्य में इस समय यही प्रयत्न जोर पकड़ता जा रहा

श्रीर यही सुखित-प्रयास के विद्म भो हैं । अब लीलाम्बरी ज्योति-
की सृष्टि कर चतुर साहित्यिक फिर उसे अनन्त नील-मण्डल में
न कर देते हैं । पल्लवों के हिलने में किसी अज्ञात चिरन्तन अनादि
वैज को हाथ के इशारे अपने पास बुलाने का इङ्कित प्रयत्न करते
हैं । इस तरह चित्रों की सृष्टि असीम सौन्दर्य में पर्यवसित की जाती
है । श्रीर यही जाति के मस्तिष्क में विराट् दृश्यों के समावेश के
साध-ही-साध स्वतन्त्रता की व्याप को भी प्रन्तरतर करते जा रहे हैं ।
यही बात छन्दों के सम्बन्ध में भी है । छन्द भी जिस तरह कानून
के अन्दर सीमा के सुष में आसक्तिमत्त को सुन्दर नृत्य करते, उच्चा-
रण की शक्तता रखते हुए, श्रवण-माधुर्य के साध-ही साध श्रोताओं
को सीमा के आनन्द में भुला रखते हैं, उसी तरह सुखित-छन्द भी
अपनी विषम-गति में एक ही साध का आगर सौन्दर्य देता है, जैसे
एक ही अनन्त महामुद्र के हृदय की सब छोटी-बड़ी तरङ्गे हों, दूर-
प्रसंगित दृष्टि में एकाकार, एक ही गति में ठठती श्रीर गिरती हुई ।
'श्रिता-कौमुदी' में परिचय रामनरेशजी त्रिपाठी ने जैसा लिखा
है, भिन्नुकान्त (Blank verse) का श्रीगणेश पहलेपहल
हिन्दी में प्रविष्ट कवि बाबू जयशंकर 'प्रमाद'जी ने किया है । उनका
ने इन छन्द का उपयोग (शायद अपने अनुवाद में) बहुत कारी
किया है । पाण्डेयजी ने इन छन्द के सम्बन्ध में पूरने पर, उन्होंने
को उगा दिया, उपमे इन विषय का कल्पना न हुआ कि इन छन्द
द्वारा अनुसहित श्रीन्द्रनाथ की 'शान्तान्ती' से दे रहा है—
"हरना होगा साय तुम्हारा ! हिन्नु मैं
करता हूँ विन्यास तुम्हारी बात का
गुण गूँ, गूँ गूँ गुम चिन्ता गुण नग कंगो ।

तुम पर से विश्वास उठेगा जिस घड़ी
सत्यासत्य विचार करूँगा मैं तभी ।”

यह भिन्नतुकान्त छन्द मात्रिक है। एक भिन्न तुकान्त हिन्दी में दूसरे प्रकार का बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त द्वारा आया है—वह वर्णमयक है—उसका भी उपयोग अनुवाद ही के रूप में गुप्तजी ने किया है। उदाहरण उनके 'वीराङ्गना' काव्य के अनुवाद से देता हूँ—

“सुनो अब दुःख - कथा । मन्दिर में मन के
रख वह श्याम मूर्ति त्यागिनी तपस्विनी
पूजे इष्टदेव को ज्यों निर्जन गहन में—
पूजती थी नाथ को मैं । अब विधि-दोष से
चेदोश्वर, राजा शिशुपाल जो कहाता है
लोक-रव सुनती हूँ, हाय ! वर वेश से
आ रहा है शीघ्र यहाँ वरने अभागी को !”

एक तीसरे प्रकार का अतुकान्त काव्य (Blank verse) हिन्दी में और है। इसके रचयिता हैं हिन्दी के प्रसिद्ध महाकवि अयोध्यासिंहजी उपाध्याय। बहुतों ने इनके लिखे हुए 'प्रिय-प्रवास' के अतुकान्त छन्दों को ही हिन्दी की प्रथम अतुकान्त सृष्टि माना है। उपाध्यायजी ने इसकी भूमिका में गण-वृत्तों को हिन्दी में अतुकान्त काव्य के योग्य माना है, और यह इसलिये कि संस्कृत की कविता अतुकान्त है और वह गण-वृत्तों में है।

“अभिक और हुई नम-ज्वालिमा,
दश-दिशा अनुरञ्जित हो गई ;
सकल - पादप - पुञ्ज हरीतिमा
अरुणिमा विनिमज्जित-सी हुई ।”

एक प्रकार का अतुकान्त काव्य १६ मात्राओं का और बिना

गया है । जहाँ तक पता चलता है, अभी सुकवि बाबू सियाराम-शरणजी गुप्त इसके प्रथम आविष्कारक ठहरते हैं । हिन्दी के कोमल कवि पन्तजी ने भी इतनी ही मात्राओं के अतुकान्त छन्द में 'ग्रन्थि' नाम की अपनी मनोहर कविता कई सङ्ख्याओं में 'सरस्वती' में छपवाई है । सियारामशरणजी ने 'प्रभा' में इस प्रकार की अतुकान्त कविता पहलेपहल लिखी थी, यह मुझे वन्हीं के कथनानुसार मालूम हुआ है । अब तक मैं समझता था, इस १६ मात्राओं के अतुकान्त काव्य के पन्तजी ही प्रथम आविष्कारक हैं । यह इस प्रकार है—

"विरह अदह कराहते इस शब्द को
निदुर विधि ने र्थासुषों से है लिखा ।"

(सुमित्रानन्दन पन्त)

एक प्रकार की अतुकान्त कविता का रूप पंखिष्ठ गिरिधरजी जर्मा 'नवरत्न' ने हिन्दी में सदा किया है । इसकी गतिकवित्त-छन्द की-सी है । हर एक छन्द आठ-आठ वर्णों का होता है । अन्यान्य-प्राम नहीं रहता । मैंने रवीन्द्रनाथ की एक कविता के अनुवाद में इनके अतुकान्त काव्य का रूप देना था । 'मेरे पक्ष मुरदार' इस तरह हर वर्ण में आठ-आठ अपर रहते हैं । अमित्र कविता इस प्रकार हिन्दी के गद्य, मात्रा और वर्ण, तीनों वृत्तों में हुई है । यहाँ हिन्दी कविता मन्त्र है और हिन्दी निःफल, इसका विचार नहीं किया गया । इसका प्रेमता भविष्य के लोग करेंगे । मुझे केवल यही सुझा है कि हिन्दी में अतुकान्त कविता के कवियों में किसी ने भी दूसरे का अनुसरण नहीं किया । जहाँ कहीं मात्राओं में मेल हो गया है, वहाँ सुमहित है, एक दो अपने दूसरे कवि की रचना बनाने का सोच न लिखा हो, और दोनों की मौलिकता एक दूसरे से बढ़ गई हो । ऐसा न होगा, तो ये कौड़े दूसरा छन्द जसा सुनने,

जब कि अन्त्यानुप्रास ढढ़ा देने से ही अतुकान्त काव्य बन जाता है । इस प्रकार की अतुकान्त कविता में प्रथम श्रेय आल्हखण्ड के लिखनेवाले को हिन्दी में प्राप्त है ।

इस तरह की कविता अतुकान्त काव्य का गौरव-पद भले ही अधिकृत करती हो, वह मुक्त-काव्य या स्वच्छन्द छन्द कदापि नहीं । जहाँ मुक्ति रहती है, वहाँ बन्धन नहीं रहते । न मनुष्यों में, न कविता में । मुक्ति का अर्थ हो है बन्धनों से छुटकारा पाना । यदि किसी प्रकार का शृङ्खलाबद्ध नियम कविता में मिलाता गया, तो वह कविता उस शृङ्खला से जकड़ी हुई ही होती है, अतएव उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं ला सकते, न उस काव्य को मुक्तकाव्य कह सकते हैं । ऊपर जितने प्रकार के अतुकान्त काव्य के उदाहरण दिए गए हैं, सब एक-एक सीमा में बँधे हुए हैं, एक-एक प्रधान नियम सचमें पाया जाता है । गण-वृत्तों में गणों की शृङ्खला, मात्रिक वृत्तों में मात्राओं का साम्य, वर्ण-वृत्तों में अक्षरों की समानता मिलती है । कहीं भी हम नियम का उल्लङ्घन नहीं किया गया । इस प्रकार के दृढ़ नियमों से बँधी हुई कविता कदापि मुक्त-छन्द नहीं हो सकती । मुक्त-छन्द तो वह है, जो छन्द की भूमि में रहकर भी मुक्त है । इस पुस्तक के तीसरे खण्ड में जितनी कविताएँ हैं, सब इस प्रकार की हैं । उनमें नियम कोई नहीं । केवल प्रवाह कवित्त-छन्द का-सा जान पड़ता है । कहीं-कहीं आठ अक्षर आप-ही-आप आ जाते हैं । मुक्त-छन्द का समर्थक उसका प्रवाह ही है । वही उसे छन्द सिद्ध करता है, और उसका नियम-राहित्य उसकी मुक्ति ।

“विजन-वन-वल्करी पर

केसोती थी सुहाग-भरो

स्नेह-स्वप्न-मग्न अमल-कोमल-तनु तरुणी

जुही की कवी

‘हम बन्द किए—शिथिल—पत्राङ्क में ।’

यहाँ ‘सोती थी सुहाग-भरी’ आठ अक्षरों का एक छन्द आप-ही-आप बन गया है। तमाम लक्षियों की गति कवित्त-छन्द की तरह है।

हिन्दी में मुक्तकाव्य कवित्त-छन्द की बुनियाद पर सफल हो सकता है। कारण, यह छन्द चिरकाल से इस जाति के कण्ठ का हार हो रहा है। दूसरे, इस छन्द में एक विशेष गुण यह भी है कि इसे लोम चौताल आदि बड़ी तालों में तथा ठुमरी की तीन तालों में भी सफलतापूर्वक गा सकते हैं, और नाटक आदि के समय इसे काफ़ी प्रवाह के साथ पढ़ भी सकते हैं। आज भी हम राम-लीलाओं में, लक्ष्मण-परशुराम-संवाद के समय, वार्तालाप में इस छन्द का चमत्कार प्रत्यक्ष कर लेते हैं। यदि हिन्दी का कोई जातीय छन्द चुना जाय, तो वह यही होगा। आजकल के मार्जित कानों को कवित्त-छन्द का नाटक में प्रयोग ज़रा खटकता है, और वह इसीलिये कि बार-बार अभ्यास का आना वार्तालाप की स्वाभाविकता को बिगाड़ देता है। बाबू मैथिलीशरणजी को इस विचार से विशेष सफलता मिली है। कारण, कवित्त-छन्द की गति तर उनके अमित्र छन्द में अन्त्यानुप्रास मिटा दिया गया है। नाटकों में सबसे अधिक रोचकता इसी कवित्त-छन्द की बुनियाद पर लिखे गए स्वच्छन्द छन्द द्वारा आ सकती है। इस अपने छन्द को मैं साहित्यिक अनेक गोष्ठियों में पढ़ चुका हूँ, और हिन्दी के प्रसिद्ध अधिकांश सज्जन सुन चुके हैं। एक बार कलकत्ता पब्लिक स्टेज पर भी इस छन्द में नाटक लिखकर खेले चुका हूँ। लोगों से सुभे अब तक उत्साह ही मिलता रहा है। पर दूसरों की पठन-अचमता के आक्षेप भी अक्सर सुनता रहा हूँ। मेरा विचार है कि अभ्यास के कारण उन्हें पढ़ने में असुविधा होती है। छन्द की गति का कोई दोष नहीं। आजकल हिन्दी के दो-चार और लेखकों तथा कवियों ने इस छन्द में रचना-प्रयास किया है, और

उन्हें सफलता भी मिली है। इससे मेरा विश्वास इस पर और भी बढ़ हो गया है। इस छन्द में Art of reading का आनन्द मिलता है, और इसीलिये इसकी उपयोगिता रङ्गमञ्च पर सिद्ध होती है। कहीं-कहीं मिल्टन और शेक्सपीयर ने सर्वत्र अपने अतुकान्त काव्य का उपयोग नाटकों में ही किया है। बँगला में माइकेल मधु-सूदन द्वारा अतुकान्त कविता की सृष्टि हो जाने पर नाट्याचार्य गिरोशचन्द्र ने अपने स्वच्छन्द छन्द का नाटकों में ही प्रयोग किया है। स्वच्छन्द छन्द नाटक-पात्रों की भाषा के लिये ही हैं, यों उसमें चाहे जो कुछ लिखा जाय। अब इसके समर्थन में अधिक कुछ नहीं लिखना। कारण, समर्थन की अपेक्षा अधिकाधिक रचना इसके प्रचार तथा प्रसार का योग्य उपाय है।

मेरी तमाम रचनाओं में दो-चार जगह दूमरों के भाव, सुमकिन है, आ गए हों; पर अधिकांश कल्पना, १५ फ्रीसदी, मेरी अपनी है। आवश्यक होने पर इस सम्बन्ध में अन्यत्र लिखूंगा। कविता की पुस्तक में कैफ़ियत से भरी हुई वृहत् भूमिका मेरे विचार से हास्यास्पद है। मैं अपने स्नेहशील मित्रों को कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर तरह से आज तक प्रोत्साहन देते रहे हैं।

“निराला”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

विषय-सूची

नं०	विषय	पृष्ठ	नं०	विषय	पृष्ठ
खण्ड १			२१.	जलद के प्रति ...	८२
१.	मौन	२६	२२.	तुम और मैं ...	८४
२.	खेवा	३०	२३.	जागो ...	८७
३.	निवेदन... ..	३२	२४.	वसन्त-समीर ...	८६
४.	प्रार्थना... ..	३४	२५.	प्रथम प्रभात ...	९३
५.	खोज और सपहार	३६	२६.	क्या दूँ ...	९५
६.	प्रभाती ...	३८	२७.	माया	९७
७.	शेष	४०	२८.	आध्यात्म-फल....	१००
८.	पतनोन्मुख ...	४२	२९.	गीत ...	१०२
९.	गीत	४३	३०.	आदान-प्रदान	१०४
१०.	यमुना के प्रति...	४५	३१.	गीत ...	१०५
११.	युक्ति ...	६२	३२.	गीत ...	१०७
१२.	परलोक ...	६३	३३.	स्मृति	१०८
१३.	प्रिया के प्रति ...	६४	खण्ड २		
१४.	अमर-गीत ...	६६	३४.	भर देते हो ...	११७
१५.	वृत्ति ...	६८	३५.	स्वागत ...	११८
१६.	पारस ...	७०	३६.	ध्वनि	१२०
१७.	बदला ...	७२	३७.	इसकी स्मृति...	१२२
१८.	वासन्ती ...	७४	३८.	अभिवास ...	१२४
१९.	नयन ...	७८	३९.	विभवा ...	१२६
२०.	तरङ्गों के प्रति ...	८०	४०.	पहचाना ...	१२६

विषय	पृष्ठ	नं०	विषय	पृष्ठ
कविता ...	१३१	६०.	बादल-राग ...	१७७
भिक्षुक ...	१३३	६१.	बादल-राग ...	१७६
सन्ध्या-सुन्दरी	१३५	६२.	बादल-राग ...	१८२
शरत्पूर्णिमा की		६३.	बादल-राग ...	१८४
बिदाई ...	१३८	६४.	बादल-राग ...	१८६
अञ्जलि ...	१४१	खण्ड ३		
दीन ...	१४४	६५.	जुही की कली ..	१६१
धारा ...	१४७	६६.	जागृति में सुप्ति थी	१६४
आवाहन ...	१५०	६७.	शेफालिका ...	१६६
वन-कुसुमों की		६८.	जागो फिर एक बार	१६८
शरया	१५२	६९.	जागो फिर एक बार	१०२
रास्ते के फूल से	१५५	७०.	कवि ...	२०६
स्वप्न-स्मृति ...	१५८	७१.	स्मृति-चुम्बन ...	२११
“बहू” ...	१६०	७२.	महाराज शिवाजी	
विफल-वासना	१६३		का पत्र ...	२१५
विस्मृत-भोर ...	१६५	७३.	पञ्चवटी-प्रसङ्ग...	२३७
प्रपात के प्रति ...	१६७	७४.	पञ्चवटी-प्रसङ्ग...	२४२
सिर्फ एक ठन्माद	१६९	७५.	पञ्चवटी-प्रसङ्ग...	२४६
कण ...	१७१	७६.	पञ्चवटी-प्रसङ्ग...	२५०
आग्रह ...	१७४	७७.	पञ्चवटी-प्रसङ्ग...	२५५
बादल-राग ...	१७५	७८.	जागरण ...	२६०

प्रार्थना

जग को ज्योतिर्मय कर दो !

प्रिय कोमल-पद-गामिनी ! मन्द उतर
जीवन्मृत तरु-वृण - गुल्मों की पृथ्वी पर
हँस हँस निज पथ आलोकित कर,
नूतन जीवन भर दो !—

जग को ज्योतिर्मय कर दो !

परिमल

मौन

वैठ लें कुछ देर,

आओ, एक पथ के पथिक से
प्रिये, अन्त और अनन्त के,
तम - गहन - जीवन घेर।

मौन मधु हो जाय

भापा मूकता की आड़ में,
मन सरलता की वाढ़ में
जल - विन्दु - सा वह जाय।

सरल अति स्वच्छन्द

जीवन, प्रात के लघु - पात से
उत्थान - पतनाघात से
रह जाय चुप, निर्द्वन्द।

खेवा

डोलती नाव, प्रखर है धार,
सँभालो जीवन - खेवनहार !
तिर तिर फिर फिर
प्रबल तरङ्गों में
घिरती है,
डोले पग जल पर
डगमग डगमग
फिरती है,

टूट गई पतवार—

जीवन - खेवनहार !

भय में हूँ तन्मय
धरधर कम्पन
तन्मयता,

छनछन में

वढ़ती ही जाती है

अतिशयता,

पारावार अपार,

जीवन-खेवनहार

निवेदन

एक दिन थम , जायगा रोदन
तुम्हारे प्रेम - अब्बल में,
लिपट स्मृति बन जायँगे कुञ्ज कन-
कनक सींचे नयन-जल में ।

(१)

जब कहीं भड़ जायँगे वे
कह न पाएगी
वह हमारी मौन भाषा
क्या सुनाएगी ?
दाग जेव मिट जायगा
स्वप्न ही तो राग वह कहलायगा ?
फिर मिटेगा स्वप्न भी निर्धन

गगन-तम-सा प्रभा-पल में,
 तुम्हारे प्रेम-अश्वल में ।

(२)

फिर किधर को हम बहेंगे,
 तुम किधर होगे,
 कौन जाने फिर सहारा
 तुम किसे दोगे ?
 हम अगर बहते मिले,
 क्या कहोगे भी कि हाँ, पहचानते ?
 या अपरिचित खोल प्रिय चित्तवन
 मगन वह जावगे, पल में
 परम-प्रिय-सँग अतल जल में ?

प्रार्थना

जीवन प्रात-समीरण-सा लघु
विचरण-निरत करो ।
तरु-तोरण-तृण-तृण की कविता
छवि-मधु-सुरभि भरो ।
अञ्चल-सा न करो चञ्चल,
छण-भङ्गुर,
नत नयनों में स्थिर दो बल,
अविचल उर ;
स्वर-सा कर दो अविनश्वर,
ईश्वर-मज्जित
शुचि चन्दन - वन्दन-सुन्दर,
मन्दर-सज्जित ;

मेरे गगन - मगन मन में अयि
 किरण-मयी, विचरो—
 तरु-तोरण-तृण-तृण की कविता
 छवि-मधु-सुरभि भरो ।

प्रार्थना

जीवन प्रात-समीरण-सा लघु
विचरण-निरत करो ।
तरु-तोरण-तृण-तृण की कविता
छवि-मधु-सुरभि भरो ।
अञ्चल-सा न करो चञ्चल,
छाण-भङ्गुर,
नत नयनों में स्थिर दो बल,
अविचल उर ;
स्वर-सा कर दो अविनश्वर,
ईश्वर-मज्जित
शुचि चन्दन - वन्दन-सुन्दर,
मन्दर-सज्जित ;

प्रार्थना

मेरे गगन - मगन मन में अयि
किरण-मयी, विचरो—
तरु-तोरण-नृण-नृण की कविता
छवि-मधु-सुरभि भरो ।

खोज और उपहार

चकित चितवन कर अन्तर पार,
खोजती अन्तर तम का द्वार,
वालिका-सी व्याकुल सुकुमार
लिपट जाती जब कर अभिमान—

अश्रु-सिञ्चित हृग दोनो मीच
कमल-कर कोमल-कर से खींच
मृदुल पुलकित उर से उर सींच
देखती किसकी छवि अनजान

प्रीष्म का ले मृदु रवि-कर-तार,
गूँथ वर्षा - जल - मुक्ता - हार,
शरत की शशि-माधुरी अपार
उसी में भर देती धर ध्यान ;

खोज और उपहार

३७

सिक्त हिम-कण से छन-छन बात,
शीत में कर रक्खा अज्ञात,
वसन्ती सुमन-सुरभि भर प्रात
बढ़ाया था किसका सम्मान ?

तुम्हें कवि पहनाई माला,
देखती तुमको वह वाला ।

प्रभाती

प्रिय, मुद्रित दृग खोलो !

गत स्वप्न-निशा का तिमिर-जाल

नव किरणों से धो लो—

मुद्रित दृग खोलो !

जीवन-प्रसून वह वृन्तहीन

खुल गया उषा-नभ में नवीन,

धाराएँ ज्योति-सुरभि रर भर

वह चलीं चतुर्दिक् कर्म-लीन,

तुम भी निज तरुण-तरङ्ग खोल

नव-श्ररुण-सङ्ग हो लो—

मुद्रित दृग खोलो !

वासना - प्रेयसी बार - बार

श्रुति-मधुर मन्द स्वर से पुकार

कहती, प्रति दिन के उपवन के
 जीवन में, प्रिय, आई बहार,
 बहती इस विमल वायु में
 वह चलने का बल तोलो—
 मुद्रित दृग खोलो !

शेष

सुमन भर न लिए,

सखि, वसन्त गया ।

दर्प - हरण - हृदय

नहीं निर्दय क्या ?

चिक्चिक नयनोन्मादवश हँसकर तकी,

देखती ही देखती री मैं थकी,

अलस पग, मग में ठगी-सी रह गई,

मुकुल-व्याकुल श्री सुरभि वह कह गई—

“सुमन भर न लिए,

सखि, वसन्त गया ।

दर्प - हरण - हृदय

नहीं निर्दय क्या ?”

शेष

याद थी आई.

एक दिन जब शान्त

वायु थी, आकाश

हो रहा था क्लान्त,

ढल रहे थे मलिन-मुख रवि, दुख किरण

पद्म-मन पर थी, रहा अवसन्न वन,

देखती यह छवि खड़ी मैं, साथ वे

कह रहे थे हाथ में यह हाथ ले,

“एक दिन होगा

जब न मैं हूँगा,

हर्ष - हरण - हृदय

नहीं निर्दय क्या ?”

पतनोन्मुख

हमारा डूब रहा दिनमान !

मास-मास दिन-दिन प्रतिपल

उगल रहे हो गरल-अनल,

जलता यह जीवन असफल;

हिम-हत-पातों-सा असमय ही

भुलसा हुआ शुष्क निश्चल !

विकल डालियों से

झरने ही पर हैं पल्लव-प्राण—

हमारा डूब रहा दिनमान !

गीत

दूत, अलि, ऋतुपति के आए ।
फूट हरित पत्रों के उर से
स्वर-सप्तक छाय ।

दूत, अलि, ऋतुपति के आए ।
काँप उठी विटपी, यौवन के
प्रथम कम्प मिस, मन्द पवन से,
सहसा निकल लाज-चितवन के
भाव-सुमन छाय ।

बहा हृदय हर प्रणय-समीरण,
छोड़ छोर नभ-ओर उड़ा मन,
रूप-राशि जागी जगती-तन,
खुले नयन, भाए ।

किस अतीत के स्नेह-सुहृद् को
 अर्पण करती तू निज ध्यान—
 ताल-ताल के कम्पन से द्रुत
 बहते हैं ये किसके गान ?

विहगों की निद्रा से नीरव
 कानन के संगीत अपार
 किस अतीत के स्वप्न-लोक में
 करते हैं मृदु-गद-संचार ?

मुग्धा के लज्जित पलको पर
 तू यौवन की छवि अज्ञात
 आँख-मिचौनी खेल रही है
 किस अतीत शिशुता के साथ ?
 किस अतीत सागर-संगम को
 बहते खोल हृदय के द्वार
 बोहित के हित सरल अनिल-से
 नयन-सलिल के स्रोत अपार ?

उस सलज्ज ज्योत्स्ना-सुहाग की
 फेनिल शय्या पर सुकुमार,
 उत्सुक, किस अभिसार निशा में,
 गई कौन स्वप्निल पर मार ?

यमुना के प्रति

छट-उठकर अतीत-विस्मृति से
किसी रिमात यह— किसका प्यार
तेरे श्याम कपोलों में खुल
कर जाती है चकित विहार ?
जीवन की इस सरस सुरा में,
कह, यह किसका मादक राग
फूट पड़ा तेरी समता में
जिसकी समता का अनुराग ?

किन नियमों के निर्मम बन्धन
जग की संसृति का परिहास
कर बन जाते करुणा-क्रन्दन ?—
कह, वे किसके निर्दय पाश ?

कलियों की मुद्रित पलकों में
सिसक रही जो गन्ध अधीर
जिसकी आतुर दुख-गाथा पर
दुलकाते पल्लव-द्भग नीर.
वता, करुण-कर-किरण बढ़ाकर
स्वप्नों का सचित्र संसार
आँसू पोंछ दिखाया किसने
जगती का रहस्यमय द्वार ?

किस अतीत के स्नेह-सुहृद को
 अर्पण करती तू निज ध्यान—
 ताल-ताल के कम्पन से द्रुत
 बहते हैं ये किसके गान ?

विहगों की निद्रा से नीरव
 कानन के संगीत अपार
 किस अतीत के स्वप्न-लोक में
 करते हैं मृदु-वद-संचार ?

मुग्धा के लज्जित पलको पर
 तू यौवन की छवि अज्ञात
 आँख-मिचौनः खेल रही है
 किस अतीत शिशुता के साथ ?
 किस अतीत सागर-संगम को
 बहते खोल हृदय के द्वार
 बोहित के हित सरल अनिल-से
 नयन-सलिल के स्रोत अपार ?

उस सलज्ज ज्योत्स्ना-सुहाग की
 फेनिल शय्या पर सुकुमार,
 उत्सुक, किस अभिसार निशा में,
 गई कौन स्वप्निल पर मार ?

छट-उठकर अतीत-विस्मृति से
 किसकी स्मृति यह— किसका प्यार
 तेरे श्याम कपोलों में खुल
 कर जाती है चकित विहार ?
 जीवन की इस सरस सुरा में,
 कह. यह किसका मादक राग
 फूट पड़ा तेरी ममता में
 जिसकी समता का अनुराग ?

किन नियमों के निर्मम बन्धन
 जग की संसृति का परिहास
 कर व्रत जाते करुणा-क्रन्दन ?—
 कह. वे किसके निर्दय पाश ?

कलियों की मुद्रित पलकों में
 सिसक रही जो गन्ध अधीर
 जिसकी आतुर दुख-गाथा पर
 दुलकाते पल्लव-द्भग नीर.
 वता, करुण-कर-किरण बढ़ाकर
 स्वप्नों का सचित्र संसार
 आँसू पोंछ दिखाया किसने
 जगती का रहस्यमय द्वार ?

जागृत' के नव इस जीवन में
 किस छाया का माया-मन्त्र
 गूँज-गूँज मृदु खींच रहा है
 अलि. दुर्बल जन का मन-यन्त्र ?

अलि-अलकों के तरल तिमिर में
 किसकी लोल लहर अज्ञात
 जिसके गूढ़-मर्म में निश्चित
 शशि-पा मुख ज्योत्स्ना-सी गात ?
 कह, सोया किस खञ्जन-वन में
 उन नयनों का अञ्जन-राग ?
 बिखर गए अब किन पातों में
 वे कदम्ब - मुख-श्वर्ण - पराग ?

चमक रहे अब किन तारों में
 उन हारों के मुक्ता-हीर ?
 बजते हैं उन किन चरणों में
 अब अधीर नूपुर-मञ्जीर ?

किस समीर से काँप रही वह
 वंशी की स्वर-सरित-हिलोर ?
 किस वितान से तनी प्राण तक
 छ जाती' वह करुण मरोर ?

खींच रही किस आशा-पथ पर
 यौवन की वह प्रथम पुकार ?
 सींच रही लालसा-जता निज
 किस कङ्कण की मृदु भङ्कार ?

उमड़ चला है कह किस तट पर
 क्षुब्ध प्रेम का पारावार ?
 किसकी विकच वीचि-चितवन पर
 अब होता निर्भय अभिसार ?

भटक रहे हैं किसके मृग-दृग ?
 वैठी पथ पर कौन निराश ?—
 मारी मरु - मरीचिका की-सी
 ताक रही उदास आकाश ।
 हिला रहा अब कुञ्जों के किन
 द्रुम-पुञ्जों का हृदय कठोर
 विगलित विफल वासनाओं से
 क्रन्दन-मलिन पुलिन का रोर ?

किस प्रसाद के लिये बढ़ा अब
 उन नयनों का विरस विपाद ?
 किस अजान में छिपा आज वह
 श्याम गगन का घन उन्माद ?

कह, किस अलस मराल-चाल पर
 गूँज उठे सारे सङ्गीत
 पद-पद के लघु ताल-ताल पर
 गति स्वच्छन्द, अजीत अभीत ?
 स्मित-विकसित नीरज नयनों पर
 स्वर्ण - किरण - रेखा अम्लान
 साथ-साथ प्रिय तरुण अरुण के
 अन्धकार में छिपी अजान !

किस दुर्गम गिरि के कन्दर में
 डूब गया जग का निःश्वास ?
 उतर रहा अब किस अरण्य पर
 दिनमणि-हीन अस्त आकाश ?

आप आ गया प्रिय के कर में
 कह, किसका वह कर सुकुमार
 विटप - विहग ज्यों-फिरा नीड़ में
 सहम तमिन्न देव संसार ?
 स्मर-स्मर के निर्मल अन्तर में
 देखा था जो शशि प्रतिभात
 छिपा लिया है उसे जिन्होंने
 हैं वे किस घन वन के पान ?

कहाँ आज वह निद्रित जीवन
 बँधा बाहुओं में भी मुक्त ?
 कहाँ आज वह चितवन चेतन
 श्याम-मोह-कज्जल अभियुक्त ?

वह नयनों का स्वप्न मनाहर
 हृदय - सरोवर का जलजात,
 एक चन्द्र निस्सीम व्योम का,
 वह प्राची का विमल प्रभात,
 वह राका की निर्मल छवि, वह
 गौरव रवि, कवि का उत्साह,
 किस अतीत से मिला आज वह
 यमुने, तेरा सरस प्रवाह ?

खींच रहा है मेरा मन वह
 किस अतीत का इङ्गित मौन
 इस प्रसुप्ति से जगा रही जो
 बता, प्रिया-सी है वह कौन ?

वह अविकारनिविड-सुख-दुख-गृह,
 वह उच्छृङ्खलता उद्दाम,
 वह संसार भीरु - दृग - सङ्कुल,
 ललित - कल्पना - गति अभिराम,

वह वर्षों का हर्षित क्रीड़न,
पीड़न का चञ्चल संसार,
वह विलास का लास-श्रद्ध, वह
भृकुटि कुटिल प्रिय - पथ का पार ;

वह जागरण मधुर अधरों पर,
वह प्रसुप्ति नयनों में लीन,
सुग्ध मौन मन में उन्मुख सुख ;
आकर्षणमय नित्य नवीन,

वह सहसा सजीव कम्पन - द्रुत
सुरभि-समीर, अधीर वितान,
वह सहसा स्तम्भित वक्षःस्थल,
टलमल पद, प्रदीप निर्वाण;
गुप्त-रहस्य - सृजन-अतिशय श्रम,
वह क्रम - क्रम से सञ्चित ज्ञान,
स्खलित-वसन-तनु-सा तनुश्रमरण,
नग्न, उदास, व्यथित अभिमान,

वह मुकुलित लावण्य लुपमधु,
सुप्त पुष्प में विकल विकास,
वह महमा अनुकूल प्रकृति के
प्रिय दुकूल में प्रथम प्रकाश;

वह अभिराम कामनाओं का
 लज्जित उर, उज्ज्वल विश्वास,
 वह निष्काम दिवा - विभावरी,
 वह स्वरूप - मद - मञ्जुल हास;
 वह सुकेश - विस्तार कुञ्ज में
 प्रिय का अति उत्सुक सन्धान,
 तारों के नीरव समाज में
 यमुने, वह तेरा मृदु गान;

वह अतृप्त आग्रह से सिञ्चित
 विरह - विटप का मूल मलीन
 अपने ही फूलों से वञ्चित
 वह गौरव-कर निष्प्रभ, क्षीण ;

वह निशीथ की नग्न वेदना.
 दिन की दम्य दुराशा आज
 कहाँ अँधेरे का प्रिय परिचय,
 कहाँ दिवस की अपनी लाज ?
 उदासीनता गृह - कर्मों में,
 मर्म - मर्म में विकसित स्नेह,
 निरपराध हाथों में छाया
 अञ्जन - रञ्जन - भ्रम, सन्देह ;

विस्मृत - पथ - परिचायक स्वर से
 छिन्न हुए सीमा - दृढ़ पाश,
 ज्यांस्ता के मण्डप में निर्भय
 कहाँ हो रहा है वह रास ?

वह कटाक्ष-चञ्चल यौवन - मन
 वन - वन प्रिय-अनुसरण-प्रयास,
 वह निष्पलक सहज चितवन पर
 प्रिय का अचल अटल विश्वास;
 अलक-सुगन्ध-मदिर सरि-शीतल
 मन्द अनिल, स्वच्छन्द प्रवाह,
 वह विलोल हिल्लोल चरण, कटि.
 भुज, श्रोत्र का वह उत्साह;

मत्त - भृंग - मम सङ्ग-सङ्ग तम-
 तारा मुख - अम्बुज-मधु - लुब्ध,
 विकल विलोडित चरण-अङ्क पर
 शरण - त्रिमुख नुपुर - उर क्षुब्ध;
 वह मन्नीत विजय - मद - गर्वित
 नृत्य - चपल अधरों पर आज,
 वह अजीत - उन्नित मुखरित-मुख
 कहीं आज वह सुखमय नाज ?

वह अपनी अनुकूल प्रकृति का
 फूल, वृन्त पर विकच अधीर,
 वह उदार संवाद विश्व का
 वह अनन्त नयनों का नीर,

वह स्वरूप - मध्याह्न - तृषा का
 प्रचुर आदि - रस, वह विस्तार
 सफल-प्रेम का. जीवन के वह
 दुरतर सर - सागर का पार ;

वह अञ्जलि कलिका की कोमल,
 वह प्रसून की अन्तिम दृष्टि,
 वह अनन्त का ध्वंस सान्त, वह
 सान्त विश्व की अगणित सृष्टि ;
 वह विराम - अलसित पलकों पर
 सुधि की चञ्चल प्रथम तरङ्ग,
 वह उद्दीपन. वह मृदु कम्पन.
 वह अपनापन, वह प्रिय - सङ्ग,

वह अज्ञात पतन लज्जा का
 खलन शिथिल बूँधट का देख
 हास्य-मधुर निर्लज्ज उक्ति वह,
 वह नव यौवन का अभिप्रेक;

मुग्ध रूप का वह क्रय - विक्रय,
 वह विनिमय का निर्देय भाव,
 कुटिल करों को सौंप सुहृद-मन,
 वह विस्मरण, मरण, वह चाव,
 असफल छल की सरल कल्पना,
 ललनाओं का मृदु उद्गार
 घटा, कहाँ विक्षुब्ध हुआ वह
 दृढ़ यौवन का पीन उभार;

उठा तूलिका मृदु चितवन की,
 भर मन की मदिरा में मौन,
 निर्निमेष नभ-नील-पटल पर
 अटल खींचती छवि, वह कौन ?

कहाँ यहाँ अस्थिर तृष्णा का
 चहता अब वह स्रोत अजान ?
 कहाँ हाय निरुपाय तृणों से
 बढ़ते अब वे अगणित प्राण ?
 नहीं कहीं नयनों में पाया
 यहाँ समाया वह अपराध,
 कहाँ, कहाँ अधिकृत अधरों पर
 पठता वह सद्गीत अवाध ?

मिली विरह के दीर्घ श्वास से
बहती नहीं कहीं बातास,
कहाँ शिसककर मलिन मर्म में
मुरझा जाता है निःश्वास ?

कहाँ छलकते अब वैसे ही
अज-नागरियों के गागर ?
कहाँ भीगते अब वैसे ही
बाहु, उरोज, अधर, अम्बर ?
बँधो बाहुओं में घट क्षण-क्षण
कहाँ प्रकट वकता अपवाद ?
अलकों को, किशोर पलकों को
कहाँ वायु देती संवाद ?

कहाँ कनक-कोरों के नीरव,
अश्रु-कणों में भर मुसकान,
विरह-मिलन के एक साथ ही
खिल पड़ते वे भाव महान !

कहाँ सूर के रूप-वाग के
दाड़िम, कुन्द, विकच अरविन्द,
कदली, चम्पक, श्रीफल, मृगशिशु,
खञ्जन, शुक, पिक, हंस, मिलिन्द !

एक रूप में वहाँ आज वह
हरि-मृग का निर्वैर विहार,
काले नागों से मयूर का
वन्द्यु-भाव. सुख सहज अपार !

पावस की प्रगल्भ धारा में
कुञ्जों का वह कारागार
अब जग के विस्मित नयनों में
दिवस-स्वप्न-सा पड़ा असार !

द्रव - नीहार अचल - अधरों से
गल - गल गिरि - उर के सन्ताप
तेरे तट से अटक रहे थे
करते अब सिर पटक विलाप;
दिवस दिवस के-से आवर्तन
घड़ते हैं अम्बुधि की ओर,
फिर फिर फिर भी ताक रहे हैं
कोरों में निज नयन मरोर !

एक रागिनी रह जाती जो
तेरे तट पर मौन उदास,
स्मृति-सी मग्न भवन की, मन को
दे जाती अति क्षीण प्रकाश ।

टूट रहे हैं पलक - पलक पर
 तारों के ये जितने तार
 जग के अब तक के रागों से
 जिनमें छिपा पृथक् गुञ्जार,
 उन्हें खींच निस्सीम व्योम की
 बीणा में कर, कर भङ्गार,
 गाते हैं अविचल आसन पर
 देवदूत जो गीत अपार,

कम्पित उनके करुण करों में
 तारक तारों की-सी तान
 बता, बता, अपने अतीत के
 क्या नू भी गाती है गान ?

युक्ति

“काल-वायु से स्वलित न होंगे
कनक-प्रसून ?
क्या पलकों पर विचरें ही गी
यौवन-धूम ?”
गत रागों का सूना श्रन्तर
प्रतिपल तव भी मेरा सुखकर
भर देगा यौवन—
मन ही सर्वमृजन ।
मोह-पतन में भी तो रहते हैं हम
तम-फण चूम .
फिर ऐसी ही क्यों न रहेगी
यौवन-धूम ?

परलोक

नयन मुँ देंगे जब, क्या देंगे ?—

चिर-प्रिय-दर्शन ?

शत-सहस्र-जीवन - पुलकित, प्लुत

व्याजाकर्षण ?

अमरण-रणमय मृदु-पद-रज ?

विद्युद्-घन - चुम्बन ?

निर्विरोध, प्रतिहत भी

अप्रतिहत आलिङ्गन ?

प्रिया के प्रति

एक बार भी यदि अज्ञान के

अन्तर से उठ आ जाती तुम,

एक बार भी प्राणों की तम

छाया में आ कह जातीं तुम

मत्स्य हृदय का अपना हाल

कैसा था अतीव यह, अब यह

घीन रहा है कैसा बाल ।

मैं न कभी कुछ कहता,

यम, तुम्हें देखता रहता !

चकित, थी, चितवन मेरी रह जाती

दम्ब हृदय के अर्गण्ड व्याकुल भाव

मीन दृष्टि की ही भाषा कह जाती ।

(२)

तप वियोग की चिर ज्वाला से

कितना लज्जल हुआ हृदय यह,

पिष्ट, कठिन साधना - शिला से

कितना पावन हुआ प्रणय यह,

मौन दृष्टि सब कहती हाल,

वैसा था अतीत मेरा, अब

बीत रहा यह कैसा काल ।

क्या तुम व्याकुल होतीं ?

मेरे दुख पर रोतीं ?

मेरे नयनों में न अश्रु प्रिय आता

मौन दृष्टि का मेरा चिर अपनाव

अपना चिर-निर्मल अन्तर दिखलाता ।



भ्रमर-गीत

मिल गए एक प्रणय में प्राण,
मौन, प्रिय, मेरा मधुमय गान !

खिली थीं जब तुम, प्रथम प्रकाश,
पवन-चम्पित नव यौवन-हास,
घुन्त पर टलमल उज्ज्वल प्राण,
नवल-यौवन-कोमल नव ज्ञान,
सुरभि से मिला आशु आह्वान,
प्रथम फूटा प्रिय मेरा गान ।

वन्य - लावण्य - लुब्ध संसार
देखता छवि एक वारंवार,
सहज हा नयन सहस्र अजान
रूप-विधु का करते मधु-पान,

मनोरञ्जन में गुञ्जन-लीन.
 लुब्ध आया, देखा आसीन
 रूप की सजल प्रभा में आज
 तुम्हारी नग्न कान्ति. नव लाज,
 मिल गए एक प्रणय में प्राण,
 रुक गया प्रिय, तव मेरा गान ।

वृत्ति

देख चुकां जो - जा आए थे,
चले गए,
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब
भले गए !

क्षण-भर की भाषा में,
नव-नव अभिलाषा में,
उगते पल्लव-से कोमल शाखा में,
आए थे जो निष्ठुर कर से
मले गए,

मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब
भले गए !

चिन्ताएँ, बाधाएँ,
आती ही हैं, आएँ ;

अन्ध हृदय है, बन्धन निर्दय लाएँ;
 मैं ही क्या, सब ही तो ऐसे
 छले गए,
 मेरे प्रिय सब चुरे गए, सब
 भले गए !

पारस

प्रतिपल तुम ढाल रहे सुधा-मधुर ज्योति-धार,
मेरे जीवन पर, प्रिय, यौवन-वन के बहार !

बह-बह कुछ कह-कह आपस में,

रह - रह आती हैं रस - बस में,

कितनी ही तरुण अरुण किरणों,

देख रहा हूँ अज्ञान दूर ज्योति-यान-द्वार,

मेरे जीवन पर, प्रिय, यौवन-वन के बहार !

मार पलक परिमल के शीतल,

छन-छनकर पुलकित धरणीतल,

बहती है वायु, मुक्त कुन्तल,

अर्पित है चरणों पर मेरा यह हृदय-हार—

मेरे जीवन पर, प्रिय, यौवन-वन के बहार !

जीवन की विजय, सब पराजय,
 चिर-अतीत आशा, सुख, सब भय
 सबमें तुम, तुममें सब तन्मय,
 कर-स्पर्श-रहित और क्या है ?—अपलक, असार !
 मेरे जीवन पर, प्रिय, यौवन-वन के बहार !

बदला

देख पुष्प-द्वार

परिमल-मधु-लुब्ध मधुप करता गुब्जार ।

आशा की फाँस में,

प्रणय, साँस साँस में

बहता भौरा मधु-मुग्ध

कहता अति-चकित-चित्त-क्षुब्ध—

‘सुनो, अहा फूल,

जब कि यहाँ दम है,

फिर, क्यारंजोगम है,

पड़ेगी न धूल,

मैं हिला झुला माड़ पोंछ दूँगा,

बदले में ज्यादा कभी न लूँगा,

बस, मेरा हक मुझको दे देना,
अपना जो हो, अपना ले लेना।”

धूल-झड़ई थी

वह सब कुछ

जो कुछ कि आज तक की कमाई थी ।

रूप और यौवन-बल खोया

दिन - भर में थक, नाँद

सदा की झड़कर सोया ।

वासन्ती

अति ही मृदु गति ऋतुपति की
प्रिय डालों पर, प्रिय, आओ,
पिक के पावन पञ्चम में,
गाओ, वन्दन-ध्वनि गाओ !

प्रिय, नील - गगन - सागर तिर,
चिर, वाट तिमिर के बन्धन,
उतरो जग में, उतरो फिर,
भर दो, पग-पग नव स्पन्दन !

सिहरे द्रुम-दल, नव पल्लव
फूटें डालों पर कोमल,
लहरे मलयानिल, कलरव
भर लहरों में मृदु-चञ्चल !

मुद्रित - नयना - कलिकाएँ
 फिर खोल नयन निजे हेरें,
 पर मार प्रेम के आएँ,
 अलि, बालाएँ मँह फेरें !

फागुन का फाग मचे फिर.
 गावें अलि गुञ्जन - होली,
 हँसती नव हास रहें घिर,
 बालाएँ डालें रारी !

मञ्जरियों के सुकुटों में
 नव नीलम आम-इलों के
 जोड़ें मञ्जुल घड़ियों में
 ऋतुरति को पहनाने को
 झुक डालों की लड़ियों में ।

अपि, पल्लव के पलनों पर
 पालो कोमल तन पालो,
 आलोक-नग्न पलकों पर
 प्रिय की छवि खींच उठा लो ।

भर रेणु-रेणु में नभ की,
 फैला दो जग की आशा,
 खुल जाय खिली कलियों में
 नव-नव जीवन की भाषा ।

प्रिय, केशर के रञ्जन की
 मसि से पत्रों पर लिख दो—
 “जग, है लिपि यह नूतन की
 सिख लो, तुम भी कुछ सिख लो !

“अति गहन विपिन में जैसे
 गिरि के तट काट रही हैं
 नव - जल - धाराएँ, वैसे
 भाषाएँ सतत बही हैं ।”

फिर वर्ष सहस्र पथों से,
 आया हँसता - मुख आया,
 ऋतुओं के बदल रथों से.
 लाया तुमको हर लाया !

हाँ, मेरे नभ की तारा
 रहना प्रिय, प्रति निशि रहना,
 मेरे पथ की ध्रुव धारा
 कहना इङ्गित से कहना !

मैं और न कुछ देखूँ गा,
 इस जग से मौन रहूँगा,
 वस नयनों की किरणों में
 लख लूँगा, कुछ लख लूँगा !

नव किरणों के तारों से
जग की यह वीणा बाँधो,
प्रिय, व्याकुल भङ्गारों से,
साधो, अपनी गत साधो !

फिर उर-उर के पथ बन्धुर,
पग - द्रवित मसृण ऋजु कर दो,
खर नव युग की कर-धारा
भर दो द्रत जग में, भर दो !

फिर नवल कमल-वन फूलें,
फिर नयन वहाँ पथ भूलें,
फिर भूलें नव वृन्तों पर
अनुकूलें अलि अनुकूलें ।



नयन

मद - भरे ये नलिन - नयन. मलीन हैं ;
अल्प - जल में या विकल लघु मीन हैं ?
या प्रतीक्षा में किसी की शर्वरी
वीत जाने पर हुए ये दीन हैं ?
या पथिक से लोल - लोचन ! कह रहे ;
“हम तपस्वी हैं, सभी दुख सह रहे।
गिन रहे दिन ग्रीष्म - वर्षा - शीत के ;
काल - ताल - तरङ्ग में हम वह रहे।
मौन हैं, पर पतन में—उत्थान में,
वेणु - वर - वादन - निरत - विभु - गान में
है छिपा जो मर्म उसका, समझते ;
किन्तु फिर भी हैं दसी के ध्यान में।

आह ! कितने विकल-जन-मन मिल चुके ;
 हिल चुके, कितने हृदय हैं खिल चुके ।
 तप चुके वे प्रिय-व्यथा की आँच में ;
 दुःख उन अनुरागियों के मिल चुके ।
 क्यों हमारे ही लिये वे मौन हैं ?
 पथिक, वे कोमल कुमुम हैं—कौन हैं ?”

तरङ्गों के प्रति

किस अनन्त का नीला अब्बल हिला-हिलाकर
आती हो तुम सजी मण्डलाकार ?
एक रागिनी में अपना स्वर मिला-मिलाकर
गाती हो ये कैसे गीत उदार ?
सोह रहा है हरा क्षीण कटि में, अम्बर शैवाल,
गाती आप, आपदेती सुकुमार क्योंसे ताल ।

चब्बल चरण बढ़ाती हो,

किससे मिलने जाती हो ?

तैर तिमिर-तल भुज-मृणाल से सलिल काटती ,
आपस में ही करती हो परिहास,
हो मरोरती गला शिला का कभी डाँटती,
कभी दिग्वाती जगतीतल को त्रास,

गन्ध-सन्द-गति कभी पवन का मौन-भङ्ग उच्छ्वास,
छाया-शीतल तट-तल में आ तकती कभी उदास,

क्यों तुम भाव बदलती हो—

हँसती हो, कर मलती हो ?

वाहें अगणित बढी जा रहीं हृदय खोलकर,

किसके आलिङ्गन का है यह साज ?

भाषा में तुम पिरो रही हो शब्द तोलकर,

किसका यह अभिनन्दन होगा आज ?

किसके स्वर में आज मिला दोगी वर्षों का गान,

आज तुम्हारा किस विशाल वक्षःस्थल में अवसान ?

आज जहाँ छिप जाओगी,

फिर न हाथ तुम गाओगी !

बहती जातीं साथ तुम्हारे स्मृतियाँ कितनी,

दग्ध चिता के कितने हाहाकार !

नश्वरता की—रथों सजीव जो—कृतियाँ कितनी,

अबलाधों की कितनी करुण पुकार !

मिलन-मुखर तट की रागिनियों का निर्भय गुञ्जार,

शङ्काकुल कोमल मुख पर व्याकुलता का सञ्चार,

उस असीम में ले जाओ,

मुझे न कुछ तुम दे जाओ !

जलद के प्रति

जलद नहीं,—जीवनद, जिलाया
जब कि जगज्जीवन्मृत को ।
तपन - ताप - सन्तप्त तृपातुर
तरुण - तमाल - तलाश्रित को ।
पय - पीथूप - पूर्ण पानी से
भरा प्रीति का प्याला है ।
नव वन, नव जन, नव तन, नव मन,
नव घन ! न्याय निराला है ।
भौँँ तान दिवाकर ने जब
भू का भूषण जला दिया,
मा की दशा देखकर तुमने
तव विदेश प्रस्थान किया,
वहाँ होशियारों ने तुमको
छूव पढ़ाया, बहकाया,

'द' जोड़ ग्रेड बढ़ाया, तुम पर
 जाल फूट वा फैलाया,
 'जल' से "जलद" कहा, समझाया
 भेद तुम्हे ऊँचे बैठाल,
 दाएँ-बाएँ लगे रहे, जिससे
 तुम भूलो जाती ख्याल,
 किंतु तुम्हारे चारु चित्त पर
 खिंची सदा मा की तस्वीर,
 क्षीण हुआ मुख, छलक रहा
 नलिनी-दल-नयनों से दुख-नीर ।
 पवन शत्रु ने तुम्हें उतरते देख
 उड़ाया पथ - अम्बर,
 पर तुम कूद पड़े, पहनाया
 मा को हरा वसन सुन्दर;
 धन्य तुम्हारे भक्ति-भाव को
 दुःख सहे, डिगरी खोई,
 ऊर्ध्वग जलद ! बने निमग्न जल,
 प्यारे प्रीति - बेलि बोई !

तुम और मैं

- तुम तुङ्ग - हिमालय - शृङ्ग
और मैं चञ्चल-गति सुर-सरिता ।
- तुम विमल हृदय उच्छ्वास
और मैं कान्त-कामिनी-कविता ।
तुम प्रेम और मैं शान्ति,
तुम सुरा-पान-घन अंधकार,
मैं हूँ मतवाली भ्रान्ति ।
- तुम दिनकर के खर किरण-जाल,
मैं सरसिज की मुस्कान,
- तुम वर्षों के वीते वियोग,
मैं हूँ पिछली पहचान ।
तुम योग और मैं सिद्धि,
तुम हो रागानुग निश्चल तप,
मैं शुचिता सरज समृद्धि ।

तुम मृदु मानस के भाव
 और मैं मनोरञ्जिनी भाषा,
 तुम नन्दन - वन - घन चिटप
 और मैं सुख-शीतल-तल शाखा ।
 तुम प्राण और मैं काया,
 तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म
 मैं मनोमोहिनी माया ।
 तुम प्रेममयी के कण्ठहार,
 मैं वेणी काल - नागिनी,
 तुम कर-पल्लव-भङ्कृत सितार,
 मैं व्याकुल विरह - रागिनी ।
 तुम पथ हो, मैं हूँ रेणु,
 तुम हो राधा के मनमोहन,
 मैं उन अधरों की वेणु ।
 तुम पथिक दूर के श्रान्त
 और मैं बाट - जोहती आशा,
 तुम भवसागर दुस्तर
 पार जाने की मैं अभिलाषा ।
 तुम नभ हो, मैं नीलिमा,
 तुम शरत्-काल के बाल-इन्दु,
 मैं हूँ निशीथ - मधुरिमा ।

परिमल

तुम गन्ध - कुसुम - कोमल पराग,
मैं मृदुगति मलय - समीर,
तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष,
मैं प्रकृति, प्रेम - जञ्जीर ।
तुम शिव हो, मैं हूँ शक्ति,
तुम रघुकुल-गौरव रामचन्द्र,
मैं सीता अचला भक्ति ।
तुम आशा के मधुमास
और मैं पिक-कल-कूजन तान,
तुम मदन पञ्च - शर - हस्त
और मैं हूँ सुग्धा अनजान !
तुम अम्बर, मैं दिग्वसना,
तुम चित्रकार, घन-पटल श्याम,
मैं तड़िन् तूलिका रचना ।
तुम रण-नाण्डव-उन्माद नृत्य
मैं मुखर मधुर नूपुर-ध्वनि,
तुम नाद-वेद ओंकार सार,
मैं कवि - शृंगार शिरोमणि ।
तुम यश हो, मैं हूँ प्राप्ति,
तुम कुन्द-इन्दु-अरविन्द-शुभ्र
तो मैं हूँ निर्मल व्याप्ति ।

जागो

यौवन-मरु की पहली ही मञ्जिल में
अस्थिर एक किरण-सी भ्रमकी आशा,
मैं क्या जानूँ है यह जितनी सुन्दर,
भरी हुई उतनी ही तीव्र पिपासा ।

छिपकर आई, क्या जाने क्यों आई,
शायद सब पर ऐसे ही आती है ।
चमक चौंककर चकचौंधी में सबको
डाल, खींचकर बल से ले जाती है ।

चुष्णा मुझमें ऐसे ही आई थी,
सूखा था जब कंठ बढ़ी थी मैं भी,
बार-बार छाया में धोखा खाया,
पर हरने पर-प्यास पढ़ी थी मैं भी ।

परिमल

धीरे-धीरे एक बारा में आई,
भरा हुआ तालाब एक था पाया ।
दूर देख कुछ सोई मैं छाया में,
जागी तब न प्यास थी और न माया ।

वसन्त-समीर

आधो, आधो, नील सिन्धु की
कम्प तरङ्गों से उठकर
पृथ्वी पर, वन की वीणा में
मृदु^० मर्मर भर मर्मर स्वर।
भरो पुलक नव - प्रेम - प्रकम्पित
कामिनियों के नव तन में,
खोलो नवल प्रात-मुख ढक-ढक
अलख-बादलों से, क्षण में।

नवल प्राण नव गान गगन में
फूटें नवल वृन्त पर फूल।
भरें जागरण की किरणों से
के जीवन के युग फूल।

इसी प्रखर नव कर - धारा में
 अपनी नौका की पतवार
 पकड़ूँ दृढ़, अनुकूल रहो तुम,
 पहुँचूँ प्रिय, जीवन के पार,
 चीर विपम प्रतिकूल तरङ्गे,
 भीम भयङ्कर भँवर गहन,
 दृढ़ सहता निस्सङ्ग मौन रह,
 ज्योति - सिंधु - ज्वाला असहन ।

वहाँ कहाँ कोई अपना ? सब
 सत्य - नीलिमा में लयमान;
 केवल मैं, केवल मैं, केवल
 मैं, केवल मैं, केवल ज्ञान ।

भुवन - भुवन को भवन - यूथिक ।
 गोल रही दृग गोल रही,
 चञ्चल नव कर-चपल रपशं - से
 डोल रही, मृदु डोल रही ।
 फिर वासन्ती अखिल लोक में
 ज्योत्स्ना का हाता अभिसार,
 विकल पपीहा - वधू डाल पर
 पिया कहाँ, कह, रही पुकार ।

निशा - हृदय के स्वप्न - लोक में
लघु पङ्क्तियों से उड़ जाओ।
हिला हृदय, फिर जिला प्रेम नव,
चूम अधर द्रुत फिर आओ।

पुष्प - मञ्जरी के उर की प्रिय
गन्ध मन्द गति ले आओ।
नव-जीवन का अमृत-मन्त्र-स्वर
भर जाओ, फिर भर जाओ।
यदि आलस से विपथ नयन हों
निद्राकर्षण से अति दीन,
मेरे वातायन के पथ से
प्रखर सुनाना अपनी वीन।

वीणा की नव चिर परिचित तव
वाणी सुनकर उठूँ तुरन्त,
समझूँ जीवन के पतझड़ में
आया हँसता हुआ वसन्त।

सुरभाया था जग पतझड़ में
आया था चिंता का काल,
द्रुम-ललाट से प्रतिपल भरते
शिशिर-बिंदु-भ्रम शिथिल सकाल,

निर्भरिणी की-सी विकास की लास—
 गिरि-नाहर में फूट रही सोच्छ्वास ।
 जगकर मैंने खोला अपना द्वार,
 पाया मुख पर किरणों का अधिकार ।

क्या दूँ

देवि, तुम्हें मैं क्या दूँ ?

क्या है, कुछ भी नहीं, ढा रहा व्यर्थ साधना-भार ,
एक विफल रोदन का है यह हार—एक उपहार ;
भरे आँसुओं में हैं असफल कितने विकल प्रयास ,
मलक रही है मनोवेदना, करुणा, पर-उपहास ;

क्या चरणों पर ला दूँ ?

और तुम्हें मैं क्या दूँ ?

जड़े तुम्हारे चल अंचल में चमक रहे हैं रत्न ,
बरस रही माधुरी, चातुरी, कितना सफल प्रयत्न ;
कवियों ने चुन-चुन पहनाए तुमको कितने हार ,
वहाँ हृदय की हार—आँसुओं का अपना उपहार ;

कैसे देवि, चढ़ा दूँ ?

कहो, और मैं क्या दूँ ?

स्वयं बढ़ा दो ना तुम करुणा-प्रेरित अपने हाथ ,
 अंधकार उर को कर दो रवि-किरणों का प्लुत प्रात ;
 पहनो यह माला मा, उर में मेरे ये सङ्गीत ,
 खेलें उज्ज्वल, जिनसे प्रतिपल थी जनता भयभीत ;

क्या मैं इसे बढ़ा दूँ ?

और तुम्हें मैं क्या दूँ ?



माया

तू किसी के चित्त की है कालिमा
या किसी कमनीय की कमनीयता ?
या किसी दुखदीन की है आह तू
या किसी तरु की तरुण वनिता-लता ?

तू किसी भूले हुए की भ्रान्ति है
शान्ति-पथ पर या किसी की गम्यता ?
शीत की नीरस निठुर तू यामिनी
या वसन्त - विभावरी की रम्यता ?

यक्ष विरही की कठिन विरह - व्यथा
या कि तू दुष्यन्त - कान्त शकुन्तला ?
या कि कौशिक - मोह की तू मेनका
या कि चित्त-चकोर की तू विधु-कला ?

तू किसी वन की विषम विष-वल्लरी
 या कि मन्द समीर गन्ध-विनोद की ?
 या कि विधवा की करुण चिन्ता-चिता
 बालिका तू या कि मा की गोद की ?

सुप्त सुख की सेज पर सोती हुई
 हां रही है भैरवी तू नागिनी
 या किसी व्याकुल विदेशी के लिये
 बज रही है तू इमन की रागिनी ?

या किसी जन जीर्ण के सम्मुख खड़ी
 है विकट वीभत्स की कटु मूर्ति तू
 या कि कोमल-बाल-कवि-कर-कृष्ण से
 हो रही शृङ्गार-रस की स्फूर्ति तू ?

या सताती कुमुदनी को तू अरी
 है निरी पैनी छुरी रवि की छटा
 नृ मयूरी के लिये उन्मादिनी
 या कि है भावन-गगन की वन-घटा ?

या कहीं सुन्दर प्रकृति वन-सँवरकर
 नृत्य करती नायिका नृ चञ्चला
 या कहीं लज्जावती जिति के लिये
 छो रही मरिता मनाहर मेग्वला ?

या, कि भव-रण - रङ्ग से भागे हुए
 कायरों के चित्त की तू भीति है
 या कि विजयोल्लास के प्रति शब्द में
 तू विजेता की विजय की प्रीति है ?

सृष्टि के अन्तःकरण में तू बसी
 है किसी के भोग-भ्रम की साधना
 या कि लेकर सिद्धि तू आगे खड़ी
 त्यागियों के त्याग की आराधना ?

अध्यात्म-फल

जब कड़ी मारें पड़ीं, दिल हिल गया,
पर न कर चूँ भी कभी पाया यहाँ,
मुक्ति की तब युक्ति से मिल मिल गया
भाव, जिसका चाव है छाया यहाँ।

खेत में पड़ भाव को जड़ गड़ गई,
धीर ने दुख-नीर से सींचा सदा,
सफलता की भी लता आशाभयी
भ्रूते थे फल - भावी संपदा।

दीन का तो दीन ही यह वक्त है,
रक्त करता भक्त जो सुख-सद्व का,
भेद में कर छेद पीना रक्त है
राज के सुख-मान-सौरभ-अक्ष का।

काल की ही चाल से मुरझा गए
 फूल, हूँ शूल जो दुख मूल में
 एक ही फल किन्तु हम बल पा गए,
 प्राण है वह, त्राण सिन्धु अकूल में ।

मिष्ट है, पर इष्ट उनका है नहीं
 शिष्ट पर न अभीष्ट जिनका नेक है,
 स्वाद का अपवाद कर भरते मही,
 पर सरस वह नीति-रस का एक है ।



गीत

अलि, घिर आए घन पावस के ।
लख ये काले - काले बादल,
नील सिन्धु में खुले कमल-दल,
हरित ज्योति, चपला अति चञ्चल,
सौरभ के, रस के—

अलि, घिर आए घन पावस के ।
द्रुम समीर-कम्पित थर थर थर,
झरतीं धाराएँ झर झर झर,
जगती के प्राणों में स्मर-सर
वेध गए, कसके—

अलि, घिर आए घन पावस के ।
हरियाली ने, अलि, हर ली श्री

अखिल विश्व के नव यौवन की,
मन्द-गन्ध कुसमों में लिख दी
लिपि जय की हँसके—

अलि, घिर आए घन पावस के ।
छोड़ गए गृह जब से प्रियतम
वीते अपलक दृश्य मनोरम,
क्या मैं हूँ ऐसी ही अक्षम,
क्यों न रहे बसके—

अलि, घिर आए घन पावस के ।

आदान-प्रदान

कठिन शृङ्खला बजा-बजाकर
गाता हूँ अतीत के गान,
मुझ भूले पर उस अतीत का
क्या ऐसा ही होगा ध्यान ?
शिशु पाते हैं माताओं के
वक्षःस्थल पर भूला गान,
माताएँ भी पतीं शिशु के
अधरों पर अपनी मुस्कान ।

गीत

हमें जाना है जग के पार।—

जहाँ नयनों से नयन मिले,
ज्योति के रूप सहस्र खिले,
सदा ही वहती नव - रस - धार—
वहीं जाना, इस जग के पार।

कामना के कुसुमों को कीट
काट करता छिद्रों को छीट,
यहाँ रे सदा प्रेम की ईंट
परस्पर खुलती सौ - सौ वार—
हमें जाना इस जग के पार।

वहाँ अधरों को हास हिला
क्षुब्ध अधरों से रहा मिला,

साँस में सहसा प्रेम जिला,
बना देता उर को उर - हार—
हमें जाना जग के उस पार।

वहाँ नयनों में केवल प्रात,
चन्द्र - ज्योत्स्ना ही केवल गात,
रेणु - छाए ही रहते "पात,
मन्द ही बहती सदा बयार—
हमें जाना इस जग के पार।

डोल सहसा संशय में प्राण
रोक लेते अपना मृदु गान,
यहाँ रे सदा प्रेम में मान,
ज्ञान में बैठा मोह असार—
हमें जाना जग के उस पार।

दूसरे को कस अन्तर तोल,
नहीं होता प्राणों का मोल,
वहाँ के बल केवल वे लोल
नयन दिखलाते निश्छल प्यार—
हमें जाना जग के उस पार।

गीत

निशा के उर की खुली कली ।

भूषण - वसन सजे गोरे तन,
प्रीति - भीति काँपे पग उर-मन,
वाजे नूपुर रन - रिन रन - मन,
लाज - विवश सिहरी ।

खड़ी सोचती नमित नयन-मुख,
रखती पग उर काँप पुलक-सुख,
हँस अपने ही आप सकुच धनि,
गति मृदु-मन्द चली ।

मूँद पलक प्रिय की शय्या पर
रखते ही पग, उर धर-धर-धर
काँप उठा वन में तरु - मर्मर
चली पवन पहली ।

उमड़ चलती फिर फिर अड़-अड़
स्वप्न - सी जड़ नयनों में मान ;

मुक्त - कुन्तल मुख व्याकुल लोल !

प्रणय - पीड़ीत वे अस्फुट बोल !

वृत्ति वह तृष्णा कौ अविकृत,
स्वर्ग आशाओं की अभिराम,
क्लान्त की सरल मूर्ति निद्रित,
गरल की अमृत, अमृत की प्राण,

रेणु वह किस दिगन्त में लीन

वेणु ध्वनि - सी न शरीराधीन !

सरल - शैशव - श्री सुख - यौवन
केलि अलि - कलियों की सुकुमार,
अशङ्कित नयन, अधर - कम्पन,
हरित - हृत् - पल्लव - नव शृङ्गार;

दिवस-द्युति छवि निरलस अविकार,

विश्व की श्वसित छटा-विस्तार ।

नियति - सन्ध्या में मुद्दे सकल
वही दिनमणि के अगणित साज,
न हैं वे कुसुम, न वह परिमल,
न हैं वे अधर, न है वह लाज !

तिमिर ही तिमिर रहा कर पार
लक्ष - वक्षःस्थलार्गलित द्वार !

उषा-सी क्यों तुम कहो, द्विदल
सुप्त पलकों पर कोमल हाथ
फेरती हो ईप्सित मङ्गल,
जगा देती हो वही प्रभात ।

वही सुख, वही भ्रमर-गुञ्जार,
वही मधु-गलित पुष्प-संसार !

जगत-उर की गत अभिलाषा,
शिथिल तन्त्री की सोई तान,
दूर विस्मृत की मृत भाषा,
चिता की चिरता का आह्वान,

जगाने में है क्या आनन्द ?
शृङ्खलित गाने में क्या छन्द ?

मुदी जो छवि चलते दिन की
शयन - मृदु नयनों में सुकुमार,
मलिन जीवन - सन्ध्या जिनकी
हो रही हो विस्मृति में पार,

चित्र वह स्वप्नों में क्यों खींच
सुरा उनमें देती हो सींच ?

छिपी जो छवि, छिप जाने दो,
खोलते हुए तुम्हें क्यों चाव ?
दुखद वह भलक न आने दो,
हमें खेने भी तो दो नाव ?

हुए क्रमशः दुर्बलं ये हाथ,
दूसरे और न कोई साथ !

बँधे जीवों की बन माया,
फेरती फिरती हो दिन रात,
दुःख-सुख के स्वर की काया,
सुनाती है पूर्व-श्रुत बात,

जीर्ण जीवन का दृढ़ संस्कार
चलाता फिर नूतन संसार !

यही तो है जग का कम्पन—
अचलता में सुस्पन्दित प्राण—
अहङ्कृति में भङ्कृति—जीवन—
सरस अचिराम पतन-उत्थान—

दया - भय - हर्ष - क्रोध - अभिमान
दुःख - सुख - तृष्णा - ज्ञानाज्ञान ।

रश्मि से दिनकर की सुन्दर
अन्ध - वारिद - उर में तुम आप

तूलिका से अपनी रचकर
खोल देती हो हर्षित चाप,

जगा नव आशा का संसार
चकित छिप जाती हो उस पार !

पवन में छिपकर तुम प्रतिपल,
पलकों में भर मृदुल हिलोर,
चूम कलियों के मुद्रित दल,
पत्र - छिद्रों में गा निशि - भोर

विश्व के अन्तस्तल में चाह,
जगा देती हो तड़ित - प्रवाह ।



खण्ड

{ २ }

भर देते हो

भर देते हो

बार-बार प्रिय, कसणा की किरणों से
क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो।
मेरे अन्तर में आते हो देव निरन्तर,
कर जाते हो व्यथा-भार लघु
बार-बार कर-कृञ्ज बढ़ाकर ;
अन्धकार में मेरा रोदन
सिक्त धरा के अब्जल को

करता है क्षण-क्षण—

कुसुम-कपोलों पर वे लोल शिशिर-कण।
तुम किरणों से अश्रु पोंछ लेते हो,
नव प्रभात जीवन में भर देते हो।



स्वागत

कितने ही विद्वानों का जाल
जटिल, अगम, विरुद्ध पथ पर विकराल ;
कण्टक, कर्दम, भय-श्रम-निर्मम कितने शूल ;
हिंस्र निशाचर, भूधर. कन्दर पशु-सङ्कुल
पथ घन-तम, अगम अकूल—

पार—पार करके आए, हे नूतन !

सार्थक जीवन ले आए

श्रम-कण में बन्धु, सफल-श्रम !

सिर पर कितना गरजे

वज्र-वादल,

उपल-वृष्टि, फिर शीत घोर, फिर मीघम प्रचल ।

साधक, मन के निश्चल,

पथ के सचल,

प्रतिज्ञा के हे अचल अटल !

पथ पूरा करके आए तुम,

स्वागत ऐ प्रिय - दर्शन,

आए, नव जीवन भर लाए ।

ध्वनि

अभी न होगा मेरा अन्त ।

अभी अभी ही तो आया है

मेरे वन में मृदुल वसन्त—

अभी न होगा मेरा अन्त ।

हरे-हरे ये पात,

ढालियाँ, कलियाँ कोमल गात ।

मैं ही अपना स्वप्न-मृदुल-कर

फेरूँगा निद्रित कलियों पर

जगा एक प्रत्यूष मनोहर ।

पुष्प-पुष्प से तन्द्रालस लालसा खींच लूँगा मैं,

अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं,

द्वार दिखा दूँगा धिर उनको

हैं मेरे वे जहाँ अनन्त—
 अभी न होगा मेरा अन्त ।
 मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण,
 इसमें कहाँ मृत्यु
 है जीवन ही जीवन ।

अभी पड़ा है आगे सारा यौवन ;
 स्वर्ण-किरण-कलोलों पर बहता रे यह बालक-मन ;
 मेरे ही अविकसित राग से
 विकसित होगा बन्धु दिगन्त—
 अभी न होगा मेरा अन्त ।

उसकी स्मृति

मृदु सुगन्ध-सी कोमल दल फूलों की ;
शशि-किरणों की-सी वह प्यारी मुसकान,
स्वच्छन्द गगन-सी सुक्त, वायु-सी चञ्चल ;
खोई स्मृति की फिर आई-सी पहचान ;
लेघु लहरों की-सी चपल चाल वह चलती
अपने ही मन से निर्जन वन की ओर,
चकित हुई चितवन वह मानो कहती—
मैं ढूँढ़ रही हूँ उस अज्ञान का द्वार ।
मन्द पवन के झोंकों से लहराते काले बाल
कवियों के मानस की मृदुल कल्पना के-से जाल
वह विचर रही थी मानस की प्रतिमा-सी
उतरी इस जगतीतल में

वन के फूलों को चुनकर बड़े चाव से
 रखती थी लघु अञ्चल में,
 यों उस सरलता - कृता में
 सब फूल आप लग जाते,
 अनुपम शोभा पर उसकी
 कितने न भँवर मँडलाते !

उसके गुण गानेवाले
 खग जीते थे मृदु उड़कर,
 मधु के, मद के प्यासों के
 पर उसने कतरं थे पर।

क्या जाने उसने किसको पहनाई थी
 अपने फूलों की सुन्दर अपनी माला.
 क्या जाने किसके लिये यहाँ आई थी
 वह सुर-सरिता-सैकत-सी गोरी बाला ?
 वह भटक रही थी वन में मारी-मारी.
 था मिला उसे क्या उसका वही अनन्त ?
 वह कली सदा का चली गई दुनिया से,
 पर सौरभ से है पूरित आज दिगन्त ?

अधिवास

कहाँ ?—

मेरा अधिवास कहाँ ?

क्या कहा ?—रुकती है गति जहाँ ?

भला इस गति का शेष

सम्भव है क्या

करुण स्वर का जब तक मुझमें रहता है आवेश ?

मैंने 'मैं' - शैली अपनाई,

देखा दुखी एक निज भाई

दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे,

मिट उमड़ वेदना आई;

उसके निकट गया मैं धाय,

लगाया उसे गले से हाय !

फँसा माया में हूँ निरुपाय,

कहो, फिर कैसे गति रुक जाय ?

उसकी अश्रुभरी आँखों पर मेरे करुणाञ्चल का स्पर्श

करता मेरी प्रगति अनन्त किन्तु तो भी मैं नहीं विमर्ष ;

छूटता है यद्यपि अधिवास,

किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास ।

विधवा

वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी,
वह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन,
वह क्रूर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी,
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन—
दलित भारत की ही विधवा है ।
पट्ट - ऋतुओं का शृङ्गार,
कुसुमित कानन में नीरव-पद-सञ्चार,
अमर कल्पना में स्वच्छन्द विहार—
व्यथा की भूली हुई कथा है,
उसका एक स्वप्न अथवा है ।
उसके मधु - सुहाग का दर्पण
जिसमें देखा था उसने

बस एक बार विम्बित अपना जीवन-धन,
 अबल हाथों का एक सहारा—
 लक्ष्य जीवन का प्यारा—वह ध्रुवतारा—
 दूर हुआ वह वहा रहा है
 उस अनन्त पथ से करुणा की धारा।
 हैं करुणा-रस से पुलकित इसकी आँखें,
 देखा तो भीगीं मन-मधुकर की पाँखें;
 मृदु रसावेश में निकला जो गुब्जार
 यह और न था कुछ, था बस हाहाकार !
 उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर,
 लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर
 अति छिन्न हुए भीगे अबल में मन को—
 दुख-रूखे सूखे अधर—त्रस्त चितवन को
 वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर,
 रोती है अस्फुट स्वर में;
 दुख सुनता है आकाश धीर,—
 निश्चल संमीर,
 सरिता की वे लहरें भी ठहर-ठहरकर।
 कौन उसको धीरज दे सके ?
 दुःख का भार कौन ले सके ?
 यह दुःख वह जिसका नहीं कुछ छोर है,
 देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है !

क्या कभी पोंछे किसी के अश्रुजल ?
या किया करते रहे सबका विकल ?
ओस - कण-सा पल्लवों से भर गया ।
जो अश्रु, भारत का उसी से सर गया ।

पहचाना

पहचाना—अब पहचाना—

हाँ, उस कानन में खिले हुए तुम

चूम रहे थे भूम - भूम

ऊपा के स्वर्ण-कपोल,

अठखेलियाँ तुम्हारी प्यारी प्यारी,—

व्यक्त इशारे से ही सारे बोल मधुर अनमोल ।

सजे - बजे करते थे सबका स्वागत,

घँघट का पट खोल दिखाते उसे प्रकृति का मुखड़ा,

जिसे समझते थे अभ्यागत ।

तुम्हारा इतना हृदय उदार

व, क्या समझेगा माली निष्ठुर—

निरा गँवार—

स्वार्थ का मारा यहाँ भटकता—
 फूटी कौड़ी पर त्रिनोदमय जीवन सदा पटकता—
 तोड़ लिया लचकाई व्यों ही डाली,
 पत्थर से भी कठिन कलेजे का है
 चला गया जो वह हत्यारा माली ।

कविता

शिला-खण्ड पर वैठी वह नीलाञ्चल मृदु लहराता था—
मुक्त-बन्ध सन्ध्या-समीर-सुन्दरी-सङ्ग
कुञ्ज चुप-चुप बातें करता जाता और मुस्कराता था;
विकसित असित सुवासित उड़ते उसके
कुञ्चित कच गोरे कपोल छू-छूकर,—
लिपट उरोजों से भी वे जाते थे,
थपको एक मारकर बड़े प्यार से इठलाते थे;
शिशिर-विन्दु रस-सिन्धु बहाता सुन्दर,
अङ्गना-अङ्ग पर गगनाङ्गन से गिरकर ।
यह कविता ही थी और साज था उसका बस शृङ्गार,—
वीणा के वें तार नहीं जो बजते,
वह कवि की ही थी-हार,

जहाँ से उठती कठण पुकार,—

“चित्रित करने के उपाय तो किए
व्यर्थ हो गए किन्तु उपचार !”

भरा हुआ था हृदय प्यार से उसका,
उम कविता का.

वह थी निश्छल, अविकार

अद्भुत अद्भुत से उठीं तरङ्गों उसके,

वे पहुँची कवि के पास, कहा—

“तुम चलो, बुलाया है उसने जल्दी तुमको उस पार !”

भिक्षुक

वह आता—

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठी-भर दाने को—भूख मिटाने को
मुँह फटी पुरानी भोली का फैलाता—
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए,
वाँ से वे मलते हुए पेट को चलते,
और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए।
भूख से सूख ओंठ जब जाते
दाता—भाग्य-विधाता से क्या पाते ?—

घँट आँसुओं के पीकर रह जाते।

चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़ हुए,

और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए।

सन्ध्या-सुन्दरी

दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी
धीरे धीरे धीरे,
तिमिराञ्चल में चञ्चलता का नहीं कहीं आभास,
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर,—
किन्तु गम्भीर,—नहीं है उनमें हास-विलास।
हँसता है तो केवल तारा एक
गँथा हुआ उन घुँघराले काले काले वालों से,
हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिप्रेक।
अलसता की-सी लता
किन्तु कोमलता की वह कली,

सखी-नीरवता के कन्धे पर डाले बाँह,

छाँह-सी अम्बर-पथ से चला ।

नहीं वजती उसके हाथों में कोई वीणा,

नहीं होता कोई अनुराग-राग-आलाप,

नूपुरों में भी रुन-भुन रुन-भुन रुन-भुन नहीं,

सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा 'चुप चुप चुप'

है गूँज रहा सब कहीं—

व्योममण्डल में—जगतीतल में—

सोती शान्त सरोवर पर उस अमल कमलिनी-दल में—

सौन्दर्य-गर्विता-सरिता के अतिविस्तृत वक्षःस्थल में—

धीर वीर गम्भीर शिखर पर हिमगिरि-अटल-अचल में—

उत्ताल-तरङ्गाघात-प्रलय-घन-नार्जन-जलधि-प्रवल में—

क्षिति में—जल में—नभ में—अनिल-अनल में—

सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा 'चुप चुप चुप'

है गूँज रहा सब कहीं,—

और क्या है ? कुछ नहीं ।

मदिरा की वह नदी बहाती आती,

थके हुए जीवों को वह सस्नेह

प्याला वह एक पिलाती,

सुलाती उन्हें अङ्क पर अपने,

दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने ।

अर्द्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन,

कवि का बड़ जाता अनुराग,
 विरहाकुल कमनीय कण्ठ से
 आप निकल पड़ता तत्र एक विहाग ।

शरत्पूर्णिमा की विदाई

बंदी विदाई में भी अच्छी होड़ !

शरत् ! चाँद यह तेरा मृदु मुखड़ा ?—

अथवा विजय-मुकुट पर तेरे, ऐ ऋतुओं की रानी,

हीरा है यह जड़ा ?

कुछ भी हो, तू ठहर, देख लूँ भर नज़र,

क्या जाने फिर क्या हो इस जीवन का,

तू ठहर—ठहर !

तार चढ़ाए तो मैंने कस-कसकर,

पर हाय भाग्य, क्या गाऊँ ?

कभी रुठकर और कभी हँस-हँसकर,

क्यों कहती है—“क्या जाऊँ? क्या अब जाऊँ?”

अगर तुझे जाना था

तो भरे हुए अङ्गों से रस छलकाना—
 क्या एक रोज के लिये तुझे आना था ?
 तेरे आने से, देख, क्या छटा छाई है इस वन में—
 सोते हुए विहङ्गों के कानन में,
 चौंक-चौंककर और फैल जाता है निर्जन भाव,
 पपीहे के "पिठ पिउ" कूजन में ।

उधर मालती की चटकी जो कली,
 चाँदनी ने भट्ट चूमे उसके गोल कपोल,
 और = हा, बस वहन, तुम्हारी सूरत कैसी भोली !
 कहा कली ने, हाँ, और हों ऐसे मीठे बोल !
 मन्द तरङ्गों की यमुना का काला - काला रङ्ग,
 और गोद पर उसकी ये सोते हैं कितने तारे—

कैसे प्यारे प्यारे,

सातों ऋषियों की समाधि गम्भीर,
 गाती यमुना, तुझे सुनाती. धीरे धीरे धीरे,
 कलकल कुलकुल कलकल टलमल टलमल ।
 तेरे मुख-विकसित-सरोज का प्रेमी एक अनन्त,
 किन्तु देर अब क्या है सखि ?—
 कल आता है हेमन्त, साथ ही अन्त ।
 तुझे देखकर मुझे याद आई है,

वह एक और प्यारा मुग्ध, वह कितना सुख !

और विदाई की वह मीठी चितवन—

बस ऐसी ही अति नम्र और अनुकूल—

जिसने हृदय वेध डाला है—

साथ उसी के चला गया है यह मन—

उसकी फुलवाड़ी का फूल

जो माला भर में आला है ।

अञ्जलि

वन्द तुम्हारा द्वार !
मेरे सुहाग-शृङ्गार !

द्वार यह खोलो--!

सुनी भी मेरी करुण पुकार ?

जरा कुछ बोलो ?

स्नेह-रत्न, मैं बड़े यत्न से आज

कुसुमित बुझ-द्रुमों से सौरभ-साज

सञ्चित कर लाई, पर कव से वञ्चित !

तुम ले लो, प्रिय, ले लो, ले लो—यह हार नहीं,

यह नहीं प्यार का मेरे

कोई अमूल्य उपहार,

नहीं कहीं भी इसमें आया

मेरा नाम-निशान,

और मुझे क्यों होगा भी अभिमान ?
पर नहीं जानती, अगर सुमन-मन-मध्य,

समाई भी हो मेरी लाज,

माला के पड़ते ही वीर, हृदय पर,
छीने तुमसे मेरा राज ।

विश्व-मनोरथ-पथ का मेरे प्रियतम,

वन्द किया क्यों द्वार ?

सोते हुए देखते हो तुम स्वप्न ?—

या नन्दन-वन के पारिज'त-दल लेकर

तुम गूँथ रहे हो और किसी का हार ?

उस विहार में पड़े हुए तुम मेरा

यों करते हो परिहार ।

बिछे हुए थे काँटे उन गलियों में

जिनसे मैं चलकर आई,—

पैरों में छिद जाते जब

आह मार मैं तुम्हें याद करती तब

राह प्रीति की अपनी—वही कण्टकाकीर्ण,

अब मैं तै कर पाई।

पड़ी अंधेरे के घेरे में कब से

अञ्जलि

खड़ी सङ्कुचित है कमलिनी तुम्हारी,
मन के दिनमणि, प्रेम-प्रकाश !

चदित हो आओ, हाथ बढ़ाओ,
उसे खिलाओ, खोलो प्रियतम द्वार,
पहन लो उसका यह उपहार,
मृदु-गन्ध परागों से उसके तुम कर दो
सुरभित प्रेम-हरित स्वच्छन्द
द्वेष-विष-जर्जर यह संसार ।

दीन

सह जाते हो
उत्पीड़न की क्रीड़ा सदा निरङ्कुश नग्न,
हृदय तुम्हारा दुर्बल होता. भग्न,
अन्तिम आशा के कानों में
स्पन्दित हम-सब के प्राणों में
अपने उर की तप्त व्यथाएँ
चीण करुण की करुण कथाएँ
कह जाते हो
और जगत् ही ओर ताककर
दुःख, हृदय का क्षोभ त्यागकर,
सह जाते हो !
कह जाते हो—

'यहाँ कभी मत आना,
 उत्पीड़न का राज्य, दुःख ही दुःख
 यहाँ है सदा उठाना,
 क्रूर यहाँ पर कहलाता है शूर,
 और हृदय का शूर सदा ही दुर्बल क्रूर ;
 स्वार्थ सदा रहता परार्थ से दूर,
 यहाँ परार्थ वही, जो रहे
 स्वार्थ से ही भरपूर ;
 जगत् की निद्रा, है जागरण,
 और जागरण, जगत् का—इस संसृति का
 अन्त—विराम—मरण ।,
 अविगम घात—आघात,
 आह ! उत्पात !
 यही जग-जीवन के दिन-रात ।
 यही मेरा, इनका, उनका, सबका स्पन्दन,
 हास्य से मिला हुआ क्रन्दन ।
 यही मेरा, इनका, उनका, सबका जीवन,
 दिवस का किरणोज्ज्वल उत्थान,
 रात्रि की सुप्ति, पतन ;
 दिवस की कर्म-कुटिल तम-भ्रान्ति,

रात्रि का मोह, स्वप्न भी भ्रान्ति,
सदा अशान्ति !”

धारा

बहने दो,

रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है,

यौवन-मद की बाढ़ नदी की

किसे देख मुकती है ?

गरज गरज वह क्या कहती है, कहने दो—

अपनी इच्छा से प्रबल वेग से बहने दो ।

सुना, रोकने उसे कभी कुञ्जर आया था,

दशा हुई फिर क्या चसकी ?—

फल क्या पाया था ?

तिनका-जैसा मारा मारा

फिरा तरङ्गों में बेचारा—

गर्व गँवाया—हारा ;

अगर हठ-वश आओगे,
 दुर्दशा करवाओगे—वह जाओगे ।
 देखते नहीं ?—वेग से हहराती है—
 नग्न प्रलय का-सा ताण्डव हो रहा—
 चाल कैसी मतवाली—लहराती है ।
 प्रकृति को देख, मीचती आँखें,
 त्रस्त खड़ी है—थरती है ।
 आज हो गए ढीले सारे बन्धन,
 मुक्त हो गए प्राण,

रुका है सारा करुणा-क्रन्दन ।

बहती कैसी पागल उसकी धारा !
 हाथ जोड़कर खड़ा देखता दीन
 विश्व यह सारा ।
 बड़े दम्भ से खड़े हुए ये भूधर
 समझे थे जिसे बालिका,
 आज ढहाते शिला-खण्ड-चय देख
 काँपते थर - थर—

उपल-खण्ड नर-मुण्ड-मालिनी कहते उसे कालिका ।
 छुटी लट इधर-उधर लटकी हैं,
 श्याम वक्ष पर खेल रही हैं

स्वर्ण - किरण - रेखाएँ,
 एक पर दृष्टि जरा अटकी है,
 देखा एक कली चटकी है।
 लहरों पर लहरों का चञ्चल नाच,
 याद नहीं थी करनी उसकी जाँच,
 अगर पृथ्वी कोई तो वह कहती,
 उसी तरह हँसती पागल-सी बहती,—
 'यह जीवन की प्रबल उमङ्ग,
 जा रही मैं मिलने के लिये, पार कर सीमा,
 प्रियतम असीम के सङ्ग।'

आवाहन

एक बार बस और नाच तू श्यामा !

समान सभी तैयार,

कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार ?

कर-मेखला मुण्ड-मालाओं से बन मन-अभिरामा—

एक बार बस और नाच तू श्यामा !

भैरवी भेरी तेरी भङ्गा

तभी बजेगी मृत्यु लड़ाएगी जब तुझसे पञ्जा ;

लेगी खड्ग और तू खप्पर,

हसमें रुधिर भरूँगा माँ

मैं अपनी अञ्जलि भर भर ;

उँगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊँ क्या माँ—

एक बार बस और नाच तू श्यामा !

अट्टहास-उल्लास नृत्य का होगा जब आनन्द,
 विश्व की इस वीणा के टूटेंगे सब तार,
 बन्द हो जाएँगे ये सारे कोमल छन्द,
 सिन्धु - राग का होगा तब आलाप,—
 उत्ताल-तरङ्ग-भङ्ग कह देंगे

माँ, मृदङ्ग के सुस्वर क्रिया-कलाप;

और देखूँगा देते ताल

कर-तल-पल्लव-दल से निर्जन वन के सभी तमाल;

निर्भर के भर-भर-स्वर में तू सरिगम मुझे सुना माँ—

एक बार बस और नाच तू श्यामा !



वन-कुसुमों की शय्या

त्रस्त विश्व की आँखों से बह बहकर,
धूलि-धूसरित धोकर उसके चिन्तालोल कपोल,
श्वास और उच्छ्वासों की आवेग-भरी हिचकी से
दलित हृदय की रुद्ध अर्गला खोल,
धीर करुण ध्वनि से वह अपनी कथा व्यथा की कहकर,
धारा भरती धराधाम के दुःख अश्रु का सागर ।
दाह-तपन-उत्तम दुःख-सागर-जल खौल उठा,
फिर वना वाष्प का काला बादल,
बरसाया जब मेह, धरा की
सारी ज्वाला कर दी शीतल ।
किन्तु आह फिर भी क्या होती शान्त ?
नहीं, जले दिल को तो ठण्डक और चाहिए—

और चाहिए कुसुमित वन का प्रान्त,
मदिर नयन—वे अर्द्ध-निमीलित-लोचन—
वन-कुसुमों की शय्या पर एकान्त ।

सोती हुई सरोज-अङ्क पर
शरत्-शिशिर दोनों बहनों के
सुख-विलास-मद-शिथिल अङ्क पर
पद्म-पत्र पङ्के फलते थे,
मलती थी कर-चरण-समीरण धीरे धीरे आती—
नींद उचट जाने के भय से थी कुछ-कुछ घबराती
बड़ी बहन वर्षा ने उन्हें जगाया,—
अन्तिम भोंका बड़े जोर से एक,
किन्तु क्रोध से नहीं, प्यार से,
अमल-कमल-मुख देख,
भुङ्क हँसते हुए लगाया,—सोते से उन्हें उठाया ।
वे उठीं. सेज मुरभाई,
एक दूसरी का थी पकड़े हाथ,
और दोनों का ऐसा ही था अविचल साथ,
कभी कभी वे लेती थीं अँगड़ाई.
क्योंकि नींद वह उचटी,
थी मदमाती आँखों में उनकी छाई ।

रस की बूँदें बन, उस नीले अम्बर से,
 वे टपक पड़ीं, लोगों की नत्तर बचाकर,
 हरसिङ्गार की कोमल-दल कलियों पर ।
 सुबह को बिछी हुई शय्या का देखा जब ऐसा शृङ्गार,
 पूछा, “क्या है ?”
 “इस निर्जन में दीनों का ही होता सदा विहार ।”
 छिपे अञ्चल में सुख की चञ्चल
 यह वाणी थी उसके सुहाग की प्रेममयी रानी की—
 दुख में सुख लानेवाली कल्याणी की ।

रास्ते के फूल से

भोला करुणा की भिक्षा की,
दलित कुसुम ! क्यों कहो,
धूलि में नजर गड़ाए हो कैलाए ?
मलिन दृष्टि के भाषा-हीन भाव से—
मर्मस्पर्शी देश-राग के-से प्रभाव से
क्या तुम बतलाते हो
जब किसी पथिक को इधर कभी आते जाते पाते हो ?
क्या कहते हो ?—“भटिका के
झोंके में तरु था झुका,
बचने पर भी, हाय, अन्त तक न रुका ।
खिन्न लतिका को करके छिन्न,
आँधी मुझे उड़ा लाई है

तब से नौबत आई है !”

यह नहीं ? कहो फिर—फिर क्या ?—

“ढके हृदय में स्वार्थ लगाए ऊपर चन्दन,
करते समय नदीश-नन्दिनी का अभिनन्दन,
तुम्हें चढ़ाया कभी किसी ने था देवा पर,
दिन-भर में मुरझाए,

रूप-सुवास-रङ्ग चरणों पर यद्यपि अर्पित कर पाए,
किन्तु देखकर तुम्हें जरा से जर्जर,

फेंक दिया पृथ्वी पर तुमको
रक्खे हुए हृदय में अपने उस निर्दय ने पत्थर ?”

नहीं ? तो क्यों दुःख से घिरते हो—

मारे-मारे इधर-उधर फिरते हो ?

क्या कहते हो ?—‘बीत गई वह रात—

सिद्धि की मधुर दृष्टि का

युगल-मिलन पर प्रेम-पूर्ण सम्पात,

जब दो साधक थे प्रीति-साधना-तत्पर,

प्रीति-अर्चना की रचना मुझसे ही की थी सुन्दर,

रस्में अदा हुई थीं मुझसे—

मैं ही था उनका आचार्य,—

कामल कर था मिला कमल-कर से जब

सिद्ध हुआ मुझसे ही उनका कार्य ;
प्रेम-बन्ध का मैं ही था सम्बन्ध—
'ललित कल्पना'—'कोमल पद' का
मैं था 'मनहर' छन्द !”

स्वप्न-स्मृति

आँख लगी थी पल भर,
देखा, नेत्र छलछलाए दो
आए आगे किसी अजाने दूर देश से चलकर ।
मौन भाषा थी उनकी किन्तु व्यक्त था भाव,
एक अव्यक्त प्रभाव
छोड़ते थे करुणा का अन्तस्तल में क्षीण,
सुकुमार लता के वाताहत मृदु छिन्न पुष्प से दीन ।
भीतर नग्न रूप था घोर दमन का,
बाहर अचल धैर्य था उनके उस दुखमय जीवन का;
भीतर ज्वाला धधक रही थी सिन्धु-अनल की
बाहर थीं दो वूँदें—पर थीं शान्त भाव में निश्चल—
विकल जलधि के जर्जर मर्मस्थल की ।

भाव में कहते थे वे नेत्र निमेष-विहीन—
 अन्तिम श्वास छोड़ते जैसे थोड़े जल में मीन,—
 “हम अब न रहेंगे यहाँ, आह संसार !
 मृगतृष्णा से व्यर्थ भटकना, केवल हाहाकार
 तुम्हारा एकमात्र आधार ;
 हमें दुःख से मुक्ति मिलेगी,—हम इतने दुर्बल हैं—
 तुम कर दो एक प्रहार !”

“वहूँ”

सौन्दर्य-सरोवर की वह एक तरङ्ग,
किन्तु नहीं चञ्चल प्रवाह—उदाम वेग—
सङ्कुचित एक लज्जित गति है वह

प्रिय समीर के सङ्ग।
वह नव वसन्त की किसलय-कोमल लता,
किसी विटप के आश्रय में मुकुलिता
किन्तु अवनता।

उसके खिले कुसुम-सम्भार
विटप के गर्वोन्नत वक्षःस्थल पर सुकुमार,
मोतियों की मानों है लड़ी
विजय के वीर हृदय पर पड़ी।
उसे सर्वस्व दिया है,

इस जीवन के लिये हृदय से जिसे लपेट लिया है ।
 वह है चिरकालिक बन्धन,
 पर है सोने की जंजीर,
 उसी से बाँध लिया करती मन,
 करती किन्तु न कभी अधीर ।
 पुष्प है उसका अनुपम रूप,
 कान्ति सुषमा है,
 मनोमोहिनी है वह मनोरमा है,
 जलती अन्धकारमय जीवन की वह एक शमा है ।
 वह है सुहाग की रानी,
 भावमग्न कवि की वह एक सुखरता-वर्जित वाणी ।
 सरलता ही से उसकी होती मनोरञ्जना,
 नीरवता ही करती उसकी पूरी भाव,व्यञ्जना ।
 अगर कहीं चञ्चलता का प्रभाव कुछ उस पर देखा
 तो थी वह प्रियतम के आगे मृदु स्निग्ध हास्य की रेखा,
 विना अर्थ की—एक प्रेम ही अर्थ—और निष्काम
 मधुर बहाती हुई शान्ति-सुख की धारा अविराम ।
 उसमें कोई चाह नहीं है
 विषय-वासना तुच्छ, उसे कोई परवाह नहीं है ।
 उसकी साधना
 केवल निज सरोज-मुख पति को ताकना ।

रहें देखते प्रिय को उसके नेत्र निमेष-विहीन,
 मधुर भाव की इस पूजा में ही वह रहती लीन ।
 यौवन-उपवन का पति वसन्त,
 है वही प्रेम उसका अनन्त,
 है वही प्रेम का एक अन्त ।
 खुलकर अति प्रिय नीरव भाषा ठण्डी उस चितवन से
 क्या जाने क्या कह जाती है अपने जीवन-धन से ?

विफल-वासना

गूँथे तप्त अश्रुओं के मैंने कितने ही हार
वैठी हुई पुरातन स्मृति कलिन गोद पर प्रियतम !
रुद्ध द्वार पर रखे थे मैंने कितने ही वार
अपने वे उपहार कृपा के लिये तुम्हारी अनुपम !
मेरे दग्ध हृदय का ही था ताप
प्रभाकर की छन खर किरणों में,
नूपुर-सी मैं बजी तुम्हारे लिये
तुम्हारी अनुरागिनियों के निष्ठुर चरणों में ।
हँसता हुआ कभी आया जब
वन में ललित वसन्त,
तरुण विटप सब हुए, लताएँ तरुणी,
और पुरातन पल्लव-दल का

शाखाओं से अन्त,
 जब बड़ी अर्घ्य देने का तुमको
 हँसती वे बहुरियाँ,
 लिए हरे अञ्चल में अपने फूल,
 एक प्रान्त में खड़ी हुई मैं
 देख रही थी स्वागत,
 चुभते पर हाय नाथ !
 मर्मस्थल में जो शूल,
 तुम्हें कैसे प्रिय बतलाऊँ मैं ?
 कैसे दुख-गाथा गाऊँ मैं ?
 छिन्न प्रकृति के निर्दय आघातों से हो जाते हैं
 जो पुष्प, नहीं कहते कुछ, केवल रो जाते हैं ;
 वे अपना यौवन-पराग-मधु खो जाते हैं,
 अन्तिम श्वास छोड़ पृथ्वी पर सो जाते हैं !
 वैसे ही मैंने अपना सर्वस्व गँवाया
 रूप-और यौवन चिन्ता में, पर क्या पाया ?
 प्रेम ? हाय आशा का वह भी स्वप्न एक था
 विफल-हृदय तो आज दुःख ही दुःख देखता !
 तुम्हें कहूँ मैं, कहो, प्रेममय
 अथवा दुख के देव, सदा ही निर्दय ?

विस्मृत भोर

जीवन की गति कुटिल अन्ध-तम-जाल ;
फँस जाता हूँ, तुम्हें नहीं पाता हूँ प्रिय,
आता हूँ पीछे ढाल—

रश्मि-चमत्कृत स्वर्णालङ्कृत नवल प्रभात,
पुलकाकुल अलि-मुकुल-विपुल! हिलते तरु-पात,
हरित व्योति-जल-भरित सरित, सर, प्रखर प्रपात,
वह सर्वत्र व्याप्त जीवन से अलक-विचुम्बित सुखकर वात
जगमग जग में पग-पग एक निरञ्जन आशीर्वाद,
जहाँ नहीं कोई भय-त्राधा, कोई वाद-विवाद,
बढ़ जाता

प्रति-श्वास-शब्द-गति से उस ओर,
जहाँ हाय, केवल श्रम, केवल श्रम,

केवल श्रम, कर्म कठोर—
 कुछ ही प्राप्ति, अधिक आशा का
 कुटिल अधीर अशान्त मरोर ;
 केवल अन्धकार, करना वन पार
 जहाँ केवल श्रम घोर ।
 स्वप्न प्रबल विज्ञान, धर्म, दर्शन,
 तम-सुप्ति शान्ति, हा भोर
 कहाँ जहाँ आशाओं ही की
 अन्तहीन अविराम हिलोर ?
 मेरी चाहेँ वदल रहीं नित आहों में
 क्या चाहूँ, और ?
 मुझे फेर दो प्रभो, हेर दो
 इन नयनों में भूला भोर !

प्रपात के प्रित

अचल के चञ्चल क्षुद्र प्रपात !
मचलते हुए निकल आते हो ;
उज्ज्वल ! घन-वन-अन्धकार के साथ
खेलते हो क्यों ? क्या पाते हो ?
अन्धकार पर इतना प्यार,
क्या जाने यह बालक का अविचार
बुद्ध का या कि साम्य-व्यवहार !
तुम्हारा करता है गतिरोध
पिता का कोई दूत अविध —
किसी पत्थर से टकराते हो
फिरकर जरा ठहर जाते हो ;
उसे जब लेते हो पहचान—

समझ जाते हो उस जड़ का सारा अज्ञान,
फूट पड़ती है ओठों पर तब मृदु मुसकान ;
वस अजान की ओर इशारा करके चल देते हो,
भर जाते हो उसके अन्तर में तुम अपनी तान ।

सिर्फ एक उन्माद

सिर्फ एक उन्माद ;

न था वह यौवन का अनुराग

किन्तु यौवन ही सा उच्छृङ्खल ,

न चञ्चल शिशुता का अवसाद

किन्तु शिशु ही सा था वह चञ्चल ;

न कोई पाया उसमें राग

जिसे गाते जीवन-भर,

न कोई ऐसा तीव्र विराग

जिसे पा कहीं भूलते अपनापन यह क्षण-भर ।

अपने लिए घोर उत्पीड़न,

किन्तु क्रीड़नक था लोगों के लिये,

पक्षी का सा जीवन

हँसमुख किन्तु ममत्वहीन निर्दय वालों के लिये,
 निरलङ्कार कवित्वे अन्तर्गत
 किसी महाकवि -कलित -कण्ठ से
 भरता था जैसे अविराम कुसुम-दल ।
 जन-अपवाद गूँजता था, पर दूर,
 क्योंकि उसे कव फुसत—सुनता ?—था वह चूर ।
 न देखा उसमें कभी विषाद,
 देखा सिर्फ एक उन्माद ।

कण

तुम हो अखिल विश्व में
या यह अखिल विश्व है तुममें,
अथवा अखिल विश्व तुम एक
यद्यपि देख रहा हूँ तुम में भेद अनेक ?
विन्दु ! विश्व के तुम कारण हो
या यह विश्व तुम्हारा कारण ?
कार्य पञ्चभूतात्मक तुम हो
या कि तुम्हारे कार्य भूतगण ?
आवर्तन-परिवर्तन के तुम नायक नीति-निधान
परिवर्तन ही या कि तुम्हारा भाग्य-विधायक है बलवानं ?
पाया हाथ न अब तक इसका भेद,
सुलभी नहीं ग्रन्थि मेरी, कुछ मिटा न खेद !

कभी देखता अट्टालिका-विनोद मोद में
 बैठे महाराज तुम दिव्य - शरीर,
 कभी देखता, मार्ग-मृत्तिका-मलिन गोद में
 हो कराहते व्याधि-विशीर्ण अधीर ;

कभी परागों में फुर-फुर उड़ते हो,
 और कभी आँधी में पड़ कुढ़ते हो ;

क्या जाने क्यों कभी हास्यमय
 और कभी जब आता असमय

क्यों भरते दुख-नीर !

ताक रहे आकाश,
 बीत गए कितने दिन—कितने मास ,
 विरह-विधुर चर में न मधुर आवेश,
 केवल शेष

क्षीण हुए अन्तर में है आभास,
 प्रिय-दर्शन की प्यास ;
 ताक रहे आकाश,
 बीत गए कितने दिन—कितने मास !

पड़े हुए सहते हो अत्याचार
 पद-पद पर सदियों के पद-प्रहार ;
 चदले में, पद में कोमलता लाते ,
 किन्तु हाथ, वे तुम्हें नीच ही हैं कह जाते ।

तुम्हें नही आभमान,
छूटे कहीं न प्रिय का ध्यान,
इससे सदा मौन रहते हो,
क्यों रज, विरज के लिये ही इतना सहते हो ?

आग्रह

माँ, मुझे वहाँ तू ले चल !

देखूँगा वह द्वार—

दिवस का पार—

मूच्छित हुआ पड़ा है जहाँ

वेदना का संसार !

करती है तटिनी तरणी से छल-बल—

मुझे वहाँ तू ले चल !

उतर रही है लिए हाथ में प्यारा तारा-दीप

उस अरण्य में बढ़ा रही है पैर, सभीत,

बता, कौन वह ?

किसका है वह अन्धकार का अञ्चल—

मुझे वहाँ तू ले चल !

बादल-राग

(१)

भ्रूम-भ्रूम मृदु गरज-गरज घन घोर !

राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर !

भर भर भर निर्भर-गिरि-सर में,

घर, मरु, तरु-मर्मर, सागर में,

सरित—तड़ित-गति—चकित पवन में

मन में, विजत-गहन-कानन में,

आनन-आनन में, रव-घोर-कठोर—

राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर !

अरे वर्ष के हृषे !

वरस तू वरस-वरस रसधार !

पार ले चल तू सुफको,

वहा, दिखा मुफको भी निज

गर्जन-भैरव-संसार !

उथल पुथल कर हृदय—

मचा हलचल—

चल रे चल,—

मेरे पागल वादल !

धँसता दलदल,

हँसता है नद खल खल

वहता, कहता कुलकुल कलकल कलकल ।

देख देख नाचता हृदय

वहने को महा विकल—वेकल,

इस मरोर से—इसी शोर से—

सघन घोर गुरु गहन रोर से

मुझे—गगन का दिखा सघन वह छोर !

राग अमर ! अम्वर में भर निज रोर !

बादल-राग

(२)

ऐ निर्वन्ध !—

अन्ध-तम-अगम-अनर्गल—बादल !

ऐ स्वच्छन्द !—

मन्द-वञ्चल-समीर-रथ पर उच्छृङ्खल !

ऐ चहाम !

अपार कामनाओं के प्राण !

बाधारहित विराट !

ऐ विप्लव के प्लावन !

सावन-घोर गगन के

ऐ सम्राट !

ऐ अटूट पर छूट टूट पड़नेवाले—उन्माद !

विश्व-विभव को लूट लूट लड़नेवाले—अपवाद !

श्री विखेर, मुख-फेर कली के निष्ठुर पीड़न !

छिन्न-भिन्न कर पत्र-पुष्प-पादप-वन-उपवन,

वज्र-घोष से ऐ प्रचण्ड !

आतङ्क जमानेवाले !

कम्पित जङ्गम,—नीड़ विहङ्गम,

ऐ न व्यथा पानेवाले !

भय के मायामय आँगन पर

गरजो विप्लव के नव जलधर !

बादल-राग

(३)

सिन्धु के अश्रु !

धरा के खिन्न दिवस के दाह !

विदाई के अनिमेष नयन !

मौन उर में चिह्नित कर चाह

छोड़ अपना परिचित संसार—

सुरभि का कारागार,

चले जाते हो सेवा-पथ पर,

तरु के सुमन !

सफल करके

मरीचिमाली का चारु चयन ।

स्वर्ग के अभिलाषी है वीर,
 सव्यसाची-से तुम अध्ययन-अधीर
 अपना मुक्त विहार,

छाया में दुख क अन्तःपुर का उद्घाटित द्वार
 छोड़ बन्धुओं के रसुक नयनों का सचा प्यार,
 जाते हो तुम अपने पथ पर,
 स्मृति के गृह में रखकर
 अपनी सुधि के सज्जित तार ।

पूर्ण-मनोरथ ! आए,—

तुम आए;

रथ का घर्घर-नाद

तुम्हारे आने का संवाद ।

ऐ त्रिलोक-जित् ! इन्द्र-धनुर्धर !

सुरवालाओं के सुख-स्वागत !

विजय ! विश्व में नवजीवन भर,

सतरो अपने रथ से भारत !

उस अरण्य में बँठी प्रिया अधीर,

कितने पूजित दिन थव तक हैं व्यर्थ,

मौन कुटीर ।

आज भेंट होगी—

हाँ होगी निम्बदेह,

आज सदा - सुख - छाया होगा कानन - गेह
 आज अनिश्चित पूरा होगा श्रमित प्रवास,
 आज मिटेगी व्याकुल श्यामा के अधरों की प्यास ।

वादल-राग

(४)

उमड़ सृष्टि के अन्तहीन अम्बर से,
घर से क्रीड़ारत बालक-से,
ऐ अन्त के चञ्चल शिशु सुकुमार !
न्तव्य गगन को करते हो तुम पार ।
अन्धकार—वन अन्धकार ही
क्रीड़ा का आगार ।

चोंक चमक छिप जाती विद्युत
तड़ित्ताम अभिराम,

तुम्हारे कुञ्चन केशों में
अर्धर विशुद्ध ताल पर
एक इमन का-सा अति मुग्ध विराम ।

वर्ण रश्मियों से कितने ही
 छा जाते हैं सुख पर—
 जग के अन्तस्तल से उभड़
 नयन-पलकों पर छाए सुख पर ;
 रङ्ग अपार
 किरण-तूलिकाओं से अङ्कित
 इन्द्रधनुष के सप्तक, तार ;—
 व्योम और जगती का राग उदार
 मध्यदेश में, गुड़ाकेश !
 गाते हो वारंवार ।
 मुक्त ! तुम्हारे मुक्त कण्ठ में
 स्वरारोह, अवरोह, विघात,
 मधुर मन्द्र, उठ पुनः पुनः ध्वनि
 छा लेती है गगन, श्याम कानन,
 सुरभित्त उद्यान,
 भर-भर-रव भूधर का मधुर प्रपात ।
 वधिर विश्व के कानों में
 भरते हो अपना राग,
 मुक्त शिशु ! पुनः पुनः एक ही राग अनुर

बादल-राग

(५)

निरञ्जन वने नयन-अञ्जन !
कभी चपल गति, अस्थिर मति,
जल-कलकल तरल प्रवाह,
वह उत्थान-पतन-हत अविरत
संसृति-गत उत्साह,

कभी दुख-दाह,

कभी जलनिधि-जलं विपुल अथाह,—

कभी क्रीडारत सात प्रभञ्जन—

वने नयन-अञ्जन !

कभी किरण-कर-पकड़ पकड़कर
चढ़ते हो तुम मुक्त गगन पर,

वादल-राग

भूलमल ज्योति अयुत-कर-किङ्कर,

सीस भुक्तते तुम्हें तिमिरहर—

अहे कार्य से गत कारण पर !

निराकार, हैं तीनों मिले भुवन—

वने नयन-अञ्जन !

आज श्याम-घन श्याम, श्याम छवि,

मुक्त-कण्ठ है तुम्हें देख कवि,

अहो कुसुम-कोमल कठोर-पवि !

शत्-सहस्र-नक्षत्र-चन्द्र रवि संस्तुत

नयन-मनोरञ्जन !

वने नयन-अञ्जन !

बादल-राग

(६)

तिरती है समीर-सागर पर
अस्थिर सुख पर दुख की छाया—
जग के दग्ध हृदय पर
निर्दय विप्लव की प्लावित माया—
यह तेरी रण-तरी
भरी आकाङ्क्षाओं से,
घन, भेरी-गर्जन से सजग सुप्त अङ्कुर
उर में पृथ्वी के, आशाओं से
नव जीवन की, ऊँचा कर सिर,
ताक रहे हैं, ऐ विप्लव के बादल !

फिर फिर।

बादल-राग

घार वार गर्जन

वर्षण है मूषलधार,

हृदय थाम लेता संसार,

सुन सुन घोर वज्र-हुंकार ।

अशनि-पात-से शायित उन्नत शत शत वीर,

क्षत-विक्षत हत अचल-शरीर,

गगन-स्पर्शी स्पद्धा-धीर ।

हँसते हैं छोटे पौधे लघुभार—

शस्य अपार,

हिल हिल,

खिल खिल,

हाथ हिलाते,

तुम्हें बुलाते,

विप्लव-रव से छोटे ही हैं शोभा पाते ।

अट्टालिका नहीं है रे

आतङ्क-भवन,

सदा पङ्क पर ही होता

जल-विप्लव-प्लावन,

क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से

सदा छलकता नीर,

रोग-शोक में भी हँसता है

शैशव का सुकुमार शरीर ।

रुद्ध कोष, है क्षुब्ध तोष,
 अङ्गना-अङ्ग से लिपटे भी
 आतङ्क-अङ्क पर काँप रहे हैं
 धनी, वज्र-गर्जन से बादल !
 त्रस्त नयन-मुख ढाँप रहे हैं ।
 जीर्ण बाहु, है शीर्ण शरीर,
 तुम्हे बुलाता कृषक अधीर,
 ऐ विप्लव के वीर !
 चूस लिया है उसका सार,
 हाड़ मात्र ही हैं आधार,
 ऐ जीवन के पारावार !

खण्ड

(३)

जुही की कली

विजन-वन-बल्लरी पर
सोती थी सुहाग-भरी—स्नेह-स्वप्न-मग्न—
अमल-कोमल-तनु तरुणी—जुही की कली,
दृग वन्द किए, शिथिल,—पत्राङ्क में,
वासन्ती निशा थी ;
विरह-विधुर-प्रिया-सङ्ग छोड़
किसी दूर देश में था पवन
जिसे कहते हैं मलयानिल ।
आई याद विछुड़न से मिलन की वह मधुर बात,
आई याद चोंदनी की धुली हुई आधी रात,

आई याद कान्ता की कम्पित कमनीय गात,

फिर क्या ? पवन

उपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन

कुञ्ज-लता-पुञ्जो को पार कर

पहुँचा जहाँ उसने की कलि

कली-लिखी-साथ ।

सोती थी,

जाने कहां कैसे प्रिय-आगमन वह ?

नायक ने चूमे कपोल,

डोल उठी बल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल ।

इस पर भी जागी नहीं,

चूक-क्षमा मांगी नहीं,

निद्रालस वङ्कित विशाल नेत्र मूँदे रही—

किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए,

कौन कहे-?

निर्दय उस नायक ने

निपट निठुराई की

कि भाकों की झड़ियो से

सुन्दर सुकुमार देह सारी भकभोर डाली,

मसल दिए गोरे कपोल गोल ;

चौंक पड़ी युवती—

चकित चितवन निज चारों ओर फेर,

‘ जुही की कली

हेर प्यारे को सेज-पास.
नम्रमुखी हँसी—खिली,
खेल रङ्ग, प्यारे-सङ्ग,

जागृति में सुप्ति थी

जड़े नयनों में स्वप्न
खोल बहुरङ्गी पङ्क विहग-से,
सो गया सुरा-स्वर
प्रिया के मौन अधरों में
क्षुब्ध एक कम्पन-सा निद्रित

सरोवर में ।

लाज से सुहाग का—
मान से प्रगल्भ प्रिय-प्रणय-निवेदन का
मन्द-हास-मृदु वह
सजा-जागरण-जग,
थककर वह चेतना भी लाजमयी
अरुण-किरणों में समा गई ।

जागृति में सुप्ति थी

जाग्रत प्रभात में क्या शान्ति थी !—

जागृति में सुप्ति थी—

जागरण-कलान्ति थी ।

शेफालिका

बन्द कञ्चुकी के सब खोल दिए प्यार से
यौवन-उभार ने
पल्लव-पर्यङ्क पर सोती शेफालि के ।
मूक-आह्वान-भरे लालसी कपोलों के
व्याकुल विकास पर
भरते हैं शिशिर से चुम्बन गगन के ।
जागती प्रिया के नक्षत्र-दीप कक्ष में
वक्ष पर सन्तरण-आश आकाश है,
पार करना चाहता
सुरभिमय समीर-लोक,
शोक-दुःख-जर्जर इस नश्वर संसार की

.. क्षुद्र सीमा,

शेफालिका

पहुँचकर प्रणय-झाए

अमर विराम के

सप्तम सोपान पर ।

पाली अमर प्रेम-धाम,

आशा की प्यास एक रात में भर जाती है,

सुबह को आली, शेफाली भर जाती है ।

जागो फिर एक बार

(१)

जागो फिर एक बार !

प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें

अरुण-पङ्क तरुण-किरण

खड़ी खोलती है द्वार—

जागो फिर एक बार !

आँखें अलियों-सी

किस मधु की गलियों में फँसीं,

वन्द कर पाँखें

पी रही हैं मधु मौन

या सोई कमल-कोरकों में ?—

जागो फिर एक बार

बन्द हो रहा गुञ्जार—

जागो फिर एक बार !

अस्ताचल ढले रवि,
शशि-छवि विभावरी में
चित्रित हुई है देख
यांमिनी-गन्धा जगी,
एकटक चकोर-कोर दर्शन-प्रिय,
आशाओं भरा मौन भाषा बहुभात्रमयी
घेर रहा चन्द्र को चाव से,
शिशिर-भार-व्याकुल कुल
खुले फूल, झुके हुए,
आया कलियों में मधुर
मद-उर यौवन-उभार—

जागो फिर एक बार !

पिउ-रव पपीहे प्रिय बोल रहे,
सेज पर विरह-विदग्धा बधू
याद कर बीती बातें, रातें-मन-मिलन की
मूँद रही पलकें चारु,
नयन-जल ढल गए,
लघुतर कर व्यथा-भार—

जागो फिर एक बार !

सद्दय समीर जैसे

पोंछो प्रिय, नयन-नीर
 शयन-शिथिल-बाहें
 भर स्वप्निल आवेश में,
 आतुर उर वसन-मुक्त कर दो,
 सब सुप्ति सुखोन्माद हो ;
 छूट छूट अलस
 फैल जाने दो पीठ पर
 कल्पना से कोमल
 ऋजु-कुटिल प्रसार-कामी केश-गुच्छ ।
 तन-मन थक जायँ.
 मृदु सुरभि-सी समीर में
 बुद्धि बुद्धि में हो लीन,
 मन में मन, जी जी में,
 एक अनुभव वहता रहे
 चभय आत्माओं में,
 कब से मैं रही पुकार—

जागो फिर एक बार !

उगे अरुणाचल में रवि
 आई भारती-रति कवि-कण्ठ में,
 क्षण-क्षण में परिवर्तित
 होते रहे प्रकृति-पट,
 गया दिन, आई रात,

जागो फिर एक बार

गई रात, खुला दिन,

ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास,

वर्ष कितने ही हजार—

जागो फिर एक बार !

जागो फिर एक बार

(२)

जागो फिर एक बार !

समर अमर कर प्राण,
गान गाए महासिन्धु-से
मिन्धु-नद-तोरवासी !—
सैन्धव तुरङ्गों पर
चतुरङ्ग चमूसङ्ग ;
सवा-सवा लाख पर
एक को चढ़ाऊँगा,
गोविन्द सिंह निज
नाम जब कहाऊँगा ।
किसने सुनाया यह

जागो फिर एक बार

वीर-जन-मोहन अति
दुर्जय सङ्ग्राम-राग,
फाग का खेला रण
बारहों महीनों में ?—
शेरो की माँद में
आया है आज स्यार—

जागो फिर एक बार !

सत् श्री अकाल.

भाल-अनल धक-धक कर जला,
भस्म हो गया था काल—

तीनों गुण—ताप त्रय,
अभय हो गए थे तुम
मृत्युञ्जय व्योमकेश के समान,

अमृत-सन्तान ! तीव्र
भेदकर सप्तावरण-मरण-लोक,
शोकहारी ! पहुँचे थे वहाँ
जहाँ आसन है सहस्रार—

जागो फिर एक बार !

सिंह की गोद से
छीनता रे शिशु कौन ?
मौन भी क्या रहती वह
रहते प्राण ? रे अजान !

एक मेषमाता ही
 रहती है निनिमेष—
 दुर्बल वह—
 छिनती सन्तान जब
 जन्म पर अपने अभिशप्त
 तप्त आँसू बहाती है ;—
 किन्तु क्या,
 योग्य जन जीता है,
 पश्चिम की उक्ति नहीं—
 गीता है, गीता है—
 स्मरण करो बार बार—

जागो फिर एक बार !

पशु नहीं, वीर तुम,
 समर-शूर, कूर नहीं,
 काल-चक्र में हो दवे
 आज तुम राज-कुँवर !—समर-सरताल !
 पर, न्यः है,
 सब माया है—माया है,
 मुक्त हो सदा ही तुम,
 बाधा-विहीन-बन्ध छन्द ज्यों,
 हूवे आनन्द में सच्चिदानन्द-रूप ।
 महामन्त्र ऋषियों का

जागो फिर एक बार

अणुओं परमाणुओं में फूँका हुआ—

“तुम हो महान्, तुम सदा हो महान्,

है नश्वर यह दीन भाव,

कायरता, कामपरता,

ब्रह्म हो तुम.

पद-रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व-भार—”

जागो फिर एक बार !

कवि

सबके प्राणों का मोल
देती है प्रकृति जब खोल संसार में,
फैलती है वर्णों में स्वर्णच्छटा,
हृदय की तृप्त, प्यास,
दोनों एक साथ ही
उड़ती वातास में—
वीचियों में तैरती अप्सर-कुमारियाँ ।
जितने संसार के सुखमय जीवन के लोग,
भोग के विरोध में न आए, न गए कभी,
रहते रङ्गशाला के नायक बने हुए,
दैन्यहीन लीन रस-रूप में,
स्वार्थ-सुख छोड़ नहीं पाया कभी और ज्ञान,

अयि प्रकृति ! लेते हैं प्राण वे
 अपने प्राणों के लिये—
 रूप, रस, गन्ध, स्पर्श—
 काकली कोकिल की,
 राग सान्ध्य षोडशी का
 निज भोग के लिये ;
 और कोई. कवि तुम, एक तुम्हीं,
 बार बार. मेलते सहस्रों बार
 निर्मम संसार के,
 दूसरों के अर्थ ही लेते दान,
 महाप्राण ! जीवों में देते हो
 जीवन ही जीवन जोड़,
 मोड़ निज सुख से मुख ।
 विश्व के दैन्य से दीन जब होता हृदय,
 सदयता मिलती कहीं भी नहीं,
 स्वार्थ का तार ही दीखता संसार में;
 मृत्यु की शृङ्खला ही
 संसृति का सुष्ठु रूप,
 धीर-पद अवनति ही
 चरम परिणाम यहाँ,
 काँप उठते तब प्राण
 वायु से पत्र ज्यों,

हे महान् ! सोचते हो दुःख-मुक्ति,
 शक्ति नव-जीवन की ।
 सूख जाता हृदय तव,
 ज्वालाएँ नित्य नव उमड़ती—
 उस अनल - कुण्ड की
 बाह्य रस-रूप-राग
 आहुति ही होते हैं,
 मृत नव जीवन के रूप फिर निकलते
 प्राणों के प्राण—
 अभिधान शत वर्षों के—
 हार्दिक आह्वान जहाँ आता है अखिल लोक
 शोकातुर, पाता जीवन-विधान ।
 भरते हो केवल आस, प्यास,
 अभिलाष नव शून्य निज हृदय में,
 भोली में दैन्य की
 प्रकृति का दान बहु !
 रिक्त तत्काल कर
 रहते हो रिक्त ही,
 चिर-प्रसन्न ! चिरकालिक पतझड़ बने हुए ।
 देखता हूँ,
 फूलते नहीं हैं फूल जैसे वसन्त में
 जैसे तव कल्पना की डालों पर खिलते हैं—

अखिल-लोक-रञ्जन कर नर्तन

समीर में यति की, भ्रू-भङ्ग-लास,

रहते उल्लास में !

करते परिहास

खिली युवती कुमारियों से

हेर मृदु मन्द मधुर, उर से लगाते हैं,

फूटती है उनसे वह कितनी वियोग-व्यथा,

मिलनामह कितना विहार एक वृन्त पर ।

खुला हुआ नग्न चित्र

प्रिया और प्रित्तम का ;

चूमते समीर में

सहज मुख प्रेयसी का,

भूमती है देह,

मन्दिर बङ्कम वे नयन दोनों,

प्रेम की क्रीड़ाँ कर

आप ही वे मौन-रूप

झड़ जाते वृन्त से

जैसे अचिन्त्य का सदा ही निज जीवन हो ;—

विजन का पथिक

चुपचाप कहीं सो जाय ।

प्राङ्गण से पावस के

भरते हैं धाराधर,

नव-यौवनाकुल
 प्रेम-पुलकित पावन प्रकृति
 रहती है झुकी हुई,
 नूतन संयोग से
 प्रियतम के लीन ज्यों
 मौनमुखी कामिनी,
 मन्द-मन्द रेखा उन अधरों के हास की
 हर्षित छिपाती है हरित निज वास में,
 नत-मस्तक भोगती प्रियतम का सङ्ग-सुख ।
 देखते तुम अनुपम विहार—
 यह मुखरता मन में
 भर देते वाणी में
 अपनों सुहाग राशि,
 मिलनातुर कल्पनाएँ
 शरन्-हेमन्त-शिशिर-पिकप्रिय-वसन्त की,
 नश्वर को करते अविनश्वर तत्काल
 तुम अपने ही अमृत के
 पावन-कर-सिञ्चन से ।

स्मृति-चुम्बन

बाल्य के स्वप्नों में करता विहार ;
स्वर्ण-रेणुओं का छाया यह सारा संसार
था मेरे लिये सोने का
चञ्चल आलोक-स्पन्दः—
तैरती आनन्द में वे
वालिकाएँ मेरे सब सङ्ग की कुमारियाँ,
अगणित परागों की,
राग थीं मिलाती मृदु वीचियों में वायु की ;
शिथिल कर देह
वह जातीं अविराम
कहाँ जाने किस देश में ' -
इङ्गित कर मुझको
बुलाती थीं बार बार,
प्यार ही प्यार का
चुम्बन संसार था ।

सोने के प्रभात की
 किरणें सुनहली थीं चूमता
 सोने के पुष्पों-पत्रों के अधर ;
 सोने के निर्भर
 प्रति-चरण चूम चूम तट
 मिलते थे सरिता से
 चुम्बन का अन्त ज्यों,
 दंते सर्वध्व निज
 छोड़ क्षुद्र सीमा-बन्ध ।
 पत्तकों के नीड़ से
 सोने के नभ में
 उड़ जाते थे नयन, वे
 चूमकर असीम को
 लौटते आनन्द भर ।
 ज्योति का पारावार
 पार करते ही हुए,
 डूब जाते कभी वे
 सुप्त के मोह में
 चुम्बन का स्वप्न ले ।
 देखता मैं बार बार
 ज्योति के ही चक्राकार
 चुम्बन से चञ्चल हो उठता संसार

स्मृति-चुम्बन

स्थिरता में गति फैलती—

भास होता ज्ञान का ।

कैसे कहूँ, जीवन वह

मोह था, अज्ञान था ।

जीवन के सारथी ने

पार कर रेखाएँ बाल्य के मार्ग की

रोका रथ एकाएक यौवन के कानन में ।

गति भी वह कितनी धीर !—

शिशिर का जैसे निःशब्द अभिसार हो

शिविर में विश्व के ।

ऐसे ही पार हुआ

बाल्य का कोमल पथ ।

उठते पद नव दृश्य-

दर्शन-चुम्बन से नित ।

कानन के द्वार पर

आया जब, पहले ही देखी वह हरित छवि

एक नव रूप में ।

आया भर दूसरा ही

स्पन्दन तब हृदय में

अन्वेषण नयनों में,

प्राणों में लालसा ।

समझ नहीं सका हाथ !

कैसा निरुपाय वह जीवन बदल गया ।
 चारों ओर
 पुष्प-युवती के कोर,
 तरुण दल अधर-अरुण,
 जीवन-सुवास
 मन्द गति से जा पास
 देखा एक अपर लोकर,
 रोम-रोम में समाई जहाँ
 चुम्बन की लालसा,
 ज्योति नयन-ज्योति से
 पलकों से पलक मिले,
 अधरों से अधर
 कण्ठ कण्ठ से लगा हुआ.
 बाहुओं से बाहु,
 प्राण प्राणों में मिले हुए ।
 यौवन के वन की वह मेरी शकुन्तला—
 शारदाय चन्द्रिका दग्ध मरु के लिये—
 सीमा में दृष्टि की असोम रस-रूप-राशि
 चुम्बन से जीवन का प्याला भर दे गई ।
 रिक्त जब होगा, भर देगी तत्काल स्मृति
 काल के बन्धन में जीवन यह जब तक है ।

महाराज शिवाजी का पत्र

वीर !—सर्दारों के सर्दार !—महाराज !
बहु-जाति. क्यारियों के पुष्प-पत्र-दल-भरे
आन-वान-शानवाला भारत-उद्यान के
नायक हो, रक्षक हो,
वासन्ती सुरभि को हृदय से हरकर
दिगन्त भरनेवाला पवन ज्यों ।
वंशज हो—चेतन अमल अंश,
हृदयाधिकारी रवि-कुल-मणि रघुनाथ के ।
किन्तु हाय ! वीर राजपूतों की .
गौरव-प्रलम्ब ग्रीवां
अवनत हो रही है आज तुमसे महाराज,
मोगल-दल-त्रिगलित-बल

हो रहे हैं राजपूत,
 वावर के वंश की
 देखो आज राजलक्ष्मी
 प्रखर से प्रखरतर-प्रखरतम दीखती
 दुपहर की धूप-सी,
 दुर्मद ज्यों सिन्धुनद
 और तुम उसके साथ
 वर्षा की वाढ़ ज्यों
 भरते हो प्रवल वेग प्लावन का,
 वहता है देश निज—
 धन-जन-कुटुम्ब-भाई—
 अपने सहोदर-मित्र—
 निस्सहाय त्रस्त भी 'उपाय' शून्य !
 वीरता की गोद पर
 मोद भरनेवाले शूर तुम,
 मेधा के महान्,
 राजनीति में हो अद्वितीय जयसिंह
 सेवा हो म्वीकृत—
 हैं नमस्कार साथ ही
 आसीस भी है वार वार ।
 कारण संसार के विरवरूप,
 तुम पर प्रसन्न हों,

हृदय की आँखें दें,
 देखो तुम न्याय-मार्ग ।
 सुना है मैंने, तुम
 सेना से पाट दक्षिणा-पथ को
 आए हो मुझ पर चढ़ाई कर,
 जय-श्रो, जयसिंह !
 मोगल-सिंहासन के—
 औरङ्ग के पैरों के
 नीचे तुम रक्खोगे,
 काढ़ देना चाहते हो दक्षिण के प्राण—
 मोगलों को तुम जीवदान,
 काढ़ हिन्दुओं का हृदय,
 सद्य ऐसे ! कीर्ति से.
 जाओगे अपनी पताका ले ।
 हाय री यशोलिप्सा !
 अन्धे की दिवस तू—
 अन्धकार रात्रि-सी ।
 लपट में ऋपट
 प्यासों मरनेवाले
 मृग की मरीचिका है ।
 चेतो वीर, हां अधीर जिसके लिये,
 अमृत नहीं, गरल है—

देश वा उद्देश,

पर. क्या करूँ मैं,

निश्चय कुछ होता नहीं—

द्विधा में पड़े हैं प्राण ।

अगर मैं मिलता हूँ,

“डरकर मिला है”,

यह शत्रु मेरे कहेंगे !—

नहीं यह मर्दानगी ।

समय की बाट कभी

जोहते नहीं हैं पुरुष—

पुरुष-भार उपहार में है संयोग से

जिन्हें मिला—

सिंह भी क्या खाँस कभी

करता है म्यार वा ?

क्या कहूँ मैं.

लूँ गर तलवार.

तो धार पर वहेगा खून

दोनों ओर हिन्दुओं का, अपना ही ।

उठता नहीं है हाथ

मेरा कभी नरनाथ

देव हिन्दुओं को ही

रण में—विपक्ष में ।

हाय रो दासता !

पेट के लिये ही

लड़ते हैं भाई भाई—

कोई तुम ऐसा भी कीर्तिकामी ।

वीरवर ! समर में

धर्म-घातकों से ही खेजती है रण-क्रीड़ा

मेरी तलवार, निकल म्यान से ।

आये होते कहीं

तुर्क इस समर में,

तो क्या, शेरमर्दों के

वे शिकार आये होते ।

किन्तु हाय !

न्याय-धर्म वञ्चित वह

पापी औरङ्गजेब—

राक्षस निरा जो नर-रूप का,

समझ लिया खूब जब

दाल है गली नहीं

अफ़चलखों के द्वारा,

कुछ न चिराड़ सका

शाइस्तः खान आकर,

सीस पर तुम्हारे तः

सेहरा समर का वाँः

भेजा है ऋतुहत्या होने को दृष्टि में ।
 शक्ति उसे है नहीं
 चोटें सहने की यहाँ
 वीर शेरमर्दा की ।
 सोचो तुम,
 चठती जब नग्न तलवार है स्वतन्त्रता की,
 कितने ही भावों से
 याद दिला घोर दुःख दारुण परतन्त्रता का,
 फूँकती स्वतन्त्रता निज मन्त्र से
 जब व्याकुल कान,
 कौन वह सुमेरु
 रेणु-रेणु जा न हो जाय ?
 इसीलिये दुर्जय है हमारी शक्ति ;
 और भी—
 तुम्हें यहाँ भेजा जो,
 कारण क्या रण का ?
 एक यही निःसन्देह,
 हिन्दुओं में बलवान्
 एक भी न रह जाय ।
 लुप्त हो हमारी शक्ति
 तुर्कों के विजय की ।
 आपस में लड़कर

हो घायल मरेंगे सिंह,
 जङ्गल में गीदड़ ही
 गीदड़ रह जायँगे—
 भागेंगे राज्य-सुख ।
 गुप्त भद एकमात्र
 है यही औरङ्ग का,
 समझो तुम,
 बुद्धि में इतना भी नहीं पेटता ?
 लादू के मारे, हाथ
 हारे तुम बुद्धि भी ?
 समझो कि कैसा बहकाया है ?
 मिला है तुम्हें
 गन्ध-ज्याकुल-समीर-मन्द-स्पर्श सरस,
 साथ मरुभूमि में
 सेना के सङ्ग तुम
 झूलस भी चुके हो खूब
 लू के तप्त भोंकों में ।
 सुख और दुःख के
 कितने ही चित्र तुम देख चुके ।
 फूलों की संज पर सोए हो,
 काँटों की राह भी
 आह भर पार की ।

काफ़ी ज्ञान, वयोवृद्ध !
 पाया है तुमने संसार का ।
 सोचो ज़रा,
 क्या तुम्हें उचित है कभी
 लोहा लो अपने ही भाइयों से ?
 अपने ही खून की
 अञ्जलि दो पूर्वजों को,
 धर्म-जाति के ही लिये
 दिए हों जिन्होंने प्राण—
 कैसा यह ज्ञान है !
 धीमान् कहते हैं तुम्हें लोग,
 जयसिंह सिंह हो तुम,
 खेलो शिकार खूब हिरनों का,
 याद रहे—
 शेर कभी मारता नहीं है शेर,
 केसरी
 अन्य वन्य पशुओं का ही शिकार करता है ।
 सिंहों के साथ ही चाहते हा गृह-कलह ?—
 जयसिंह !
 अगर हो शानदार,
 जानदार है यदि अश्व वेगवान्,
 बाहुओं में बहता है

क्षत्रियों का खून यदि,
 हृदय में जागती है वीर, यदि
 माता क्षत्राणी की दिव्य मूर्ति,
 स्फूर्ति यदि अङ्ग-अङ्ग को है उकसा रही,
 आ रही है याद यदि अपनी मरजाद की,
 चाहते हो यदि कुछ प्रतिकार
 तुम रहते तलवार के म्यान में,
 आओ वीर, स्वागत है,
 सादर बुलाता हूँ ।
 हैं जो बहादुर समर के,
 वे मरके भी
 माता को वचायेंगे ।
 शत्रुओं के खून से
 धो सके यदि एक भी तुम मा का दाग,
 कितना अनुराग देशवासियों का पाओगे !—
 निर्जर हो जाओगे—
 अमर कहलाओगे !
 क्या फल है,
 नाहुंवल से, छल से या कौशल से
 करके अधिकार किसी
 भीरु पीनोरु नतनयना नवयौवना पर,
 सौंपो यदि भय से उसे

दूसरे कामातुर किसी
 लोलुप प्रतिद्वन्दी का ?
 देख क्या सकोगे तुम
 सामने तुम्हारे ही
 अर्जित तुम्हारी उस
 प्यारी सम्पत्ति पर,
 प्राप्त करे दूसरा ही
 भोग-संयोग निज, आँख दिखा.
 और तुम वीर हो ?
 रहते तूणीर में तीर, अहो,
 छोड़ा कब क्षत्रियों ने अपना भाग ?—
 रहते प्राण—कटि में कृपाण के ?
 सुना नहीं तुमने क्या वीरों का इतिहास ?
 पास ही तो—देखो,
 क्या ऋहता चित्तौर-गढ़ ?
 मढ़ गये ऐसे तुम तुर्कों में ?
 करते अभिमान भी किन पर ?
 विदेशियों—विधर्मियों पर ?
 काफ़िर तो कहते न दोंगे तुम्हें वे ?
 विजित भी न होंगे तुम औ' गुलाम भी नहीं ?
 कैसा परिणाम यह सेवा का !—
 लोभ भी न होगा तुम्हें मेवा का महाराज !

वादल घिर आये जो विपत्तियों के क्षत्रियों पर,
 रहती सदा ही जो आपदा,
 क्या कभी कोशिश भी की कोई
 तुमने बचने की ?
 जानते हो,
 वीर छत्रसाल पर
 होगा मोगलों का
 बहुत रीत्र ही वज्र-प्रहार ।
 दूसरे भी मलते हैं हाथ,
 हैं अनाथ हिन्दू,
 असहनीय हो रहा है अत्याचार ।
 सच है मोगलों से
 सम्बन्ध हुआ है तुम्हारा
 किन्तु क्या अन्ध भी तुम हो गये ?
 राक्षस वह रखते हो
 नीति का भरोसा तुम,
 तृष्णा, स्वार्थ-साधना है जिसकी,—
 निज भाई के खून से,
 प्राणों से पिता के
 जो शक्तिमान् है हुआ ?
 जानते नहीं हो तुम ?
 आड़ राजभक्ति की

लेना है इष्ट यदि, ०
 सोचो तुम,
 शाहजहाँ से तुमने कैसा बर्ताव किया ।
 दी है विधाता ने
 बुद्धि यदि तुम्हें कुछ—
 वंश का बचा हुआ
 यदि कुछ पुरुषत्व है—
 तत्त्व है,
 तपा तलवार
 सन्ताप से निज जन्म-भू के
 दुःखियों के आँसुओं से
 उस पर तुम पानी दो ।
 अक्सर नहीं है यह
 लड़ने का आपस में
 खाली मैदान पड़ा हिन्दुओं का महाराज,
 बलिदान चाहती है जन्म-भूमि,
 खेलोगे जान ले हथेली पर ?
 धन-जन-देवालय
 देव-देश-द्विज-दारा-बन्धु
 इन्धन हैं हो रहे तृष्णा की भट्टी में—
 हद है अब हो चुकी ।
 और भी कुछ दिनों तक

जारी रहा ऐसा यदि अत्याचार, महाराज,
निश्चय है, हिन्दुओं की
कीर्ति उठ जायगी—

चिह्न भी न हिन्दू-सभ्यता का रह जायगा ।
कितना आश्चर्य है !

मुट्टी-भर मुसलमान
पले आतङ्क से हैं
भारत के अङ्क पर ।

अपनी प्रभुता में
हैं मानते इस देश को,
विश्वद्वल तुम-सा यह हो रहा ।

देखते नहीं हो क्या,
कैसी चाल चलता है
रण में औरङ्गजेब ?

बहुरूपी, रङ्ग बदला ही किया ।
सौं कलें हमारी हैं
जकड़ रहा है वह जिनसे हिन्दुओं के पैर ।

हिन्दुओं के काटता है सीस
हिन्दुओं की तलवार ले ।

याद रहे,
वरवाद जाता है हिन्दूधर्म, हिन्दुस्तान ।
मरजाद चाहती है आत्मत्याग—

शक्ति चाहती है अपनाव, प्रेम ।
 क्षिप्त हो रहे हैं जो
 खण्डशः क्षीण, क्षीणतर हुए,—
 आप ही हैं अपनी
 सोमा के राजराजेश्वर,
 भाइयों के शेर और क्रीतदास तुर्कों के,
 उद्धत विवेक-शून्य,
 चाहिए उन्हें कि रूप अपना वे पहचानें,
 मिल जायँ जल से ज्यों जलराशि;
 देखो फिर
 तुर्क-शक्ति कितनी देर टिकती है ।
 सङ्गठित हो जाओ—
 आओ, बाहुओं में भर
 भूले हुए भाइयों को,
 अपनाओ अपना आदर्श तुम
 चाहिए हमें कि
 तदबीर श्री' तलवार पर
 पानी चढ़ावें खूब,
 क्षत्रियों की क्षिप्त शक्ति
 कर लें एकत्र फिर,
 बादल के दल मिलकर
 घेरते धरा को ज्यों,

महाराज शिवाजी का पत्र

प्लावित करते हैं.

निज जीवन से जीवों को ।

ईंट का जवाब हमें

पत्थर से देना है,

तुकों को तुर्की में.

धूँसे से थप्पड़ का । .

यदि तुम मिल जाओ महाराज जसवन्तसिंह से
हृदय से कलुष धो डालो यदि,

'एकता के सूत्र में

यदि तुम गुँथो फिर महाराज राजसिंह से,
निश्चय है,

हिन्दुओं की लुप्त कीर्ति

फिर से जग जायगी,

आयेगी महाराज

भारत की गई ज्योति,

प्राची के भाल पर

स्वर्ण-सूर्योदय होगा,

विमिर-आवरण

फट जायगा मिहिर से.

भीति-उत्पात सब रात के दूर होंगे ।

घेर लो सब कोई,

शेर कुल्ल है नहीं वह,

सुट्टी-भर उसके सहायक हैं,
 दबकर पिस जायेंगे ।
 शत्रु को मौका न दो
 अरे, कितना समझाऊँ मैं ?
 तुमने ही रेणु को सुमेरु बना रक्खा है ।
 महाराज !

नीच कामनाओं को
 सींचने के ही लिये
 पल्लवित विष-वल्लरी को करने के हेतु,
 मोगलों की दासता के
 पाश मालाए हैं
 फूलों की आज तुम्हें !
 छोड़ो यह हीनता,
 साँप अस्तीन का,
 फेको दूर
 मिलो भाइयों से,
 व्याधि भारत की छुट जाय ।
 बँधे हो बूढ़ा दो ना
 मुक्त तरङ्गों में प्राण,
 मान, धन, अपनापन ;
 कब तक तुम तट के निकट
 खड़े हुए चुपचाप

महाराज शिवाजी का पत्र

प्रखर उत्ताप के फूल-से रहोगे म्लान
मृतक, निष्प्राण, जंड़ ।

टूट पड़ो—वह जाओ—
दूर तक फैलाओ अपनी श्री, अपना रङ्ग,
अपना रूप, अपना राग ।

व्यक्तिगत भेद ने
छीन ली हमारी शक्ति ।

कर्पण-विकर्ष-भाव
जारी रहेगा यदि

इसी तरह आपस में,
नीचों के साथ यदि

उच्च जातियों की घृणा
द्वन्द्व, कलह, वैमनस्य,

क्षुद्र ऊर्मियों की तरह
टक्करें लेते रहे तो

निश्चय है,

वेग उन तरङ्गों का

और घट जायगा—

क्षुद्र से वे क्षुद्रतर होकर मिट जायँगी,

चञ्चलता शाम्त हाँगी,

स्वप्न-सा विलीन हो जायगा अस्तित्व सब,

दूसरी ही कोई तरङ्ग फिर फैलेगी ।

चाहते हो क्या तुम
 सनातन-धर्म-धारा शुद्ध
 भारत से वह जाय चिरकाल के लिये ?
 महाराज !

जितनी विरोधी शक्तियों से
 हम लड़ रहे हैं आपस में,
 सच मानो खर्च है यह
 शक्तियों का व्यर्थ ही ।

मिथ्या नहीं,

रहती है जीवों में विरोधी शक्ति,
 पिता से पुत्र का.

पति का सहधर्मिणी से
 जारी सदा ही है कषण-विकर्षण-भाव.
 और यही जीवन है—सत्ता है,
 किन्तु तो भी

कर्षण बलवान् है

जब तक मिले हैं वे आपस में—

जब तक सम्बन्ध का ज्ञान है—

जब तक वे हँसते हैं,

रोते हैं एक दूसरे के लिये ।

एक-एक कर्षण में

बँधा हुआ चलता है

एक-एक छोटा परिवार
 और उतनी ही सीमा में
 बँधा है अगाध प्रेम—
 धर्म-भाषा-वेप का.
 और है विकर्षणमय
 सारा संसार हिन्दुओं के लिये !—
 धोखा है अपनी ही छाया से !
 ठगते वे अपने ही भाइयों का,
 लूटकर उन्हें ही वे भरते हैं अपना घर ।
 सुख की छाया में फिर रहते निश्चिन्त हो
 स्वप्न में भिखारी ज्यों ।
 मृत्यु का क्या और कोई होगा रूप ?
 सोचो कि कितनी नीचता है आज
 हिन्दुओं में फैली हुई ।
 और यदि एकीभूत शक्तियों से एक ही
 बन जाय परिवार,
 फैले समवेदना,
 एक आर हिन्दू एक आर मुसलमान हों,
 व्यक्ति का खिंचाव यदि जातिगत हो जाय,
 देखो परिणाम फिर,
 स्थिर न रहेंगे पैर यवनों के—
 परत हीसजा होगा—

ध्वस्त होगा साम्राज्य ।
 जितने विचार आज
 मारते तरङ्ग हैं
 साम्राज्यवादियों की भोग-वासनाओं में,
 नष्ट होंगे चिरकाल के लिये ।
 आयेगी भाल पर
 भारत की गई ज्योति,
 हिन्दुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से,
 दासता के पाश कट जायेंगे ।
 मिलो राजपूतों से,
 घेरो तुम दिल्ली-गढ़,
 तब तक मैं दोनो सुलतानों को देख लूँ ।
 सेना घनघटा-सी,
 मेरे वीर सरदार
 घेरेंगे गोलकुण्डा, बीजापुर,
 चमकेंगे खड्ग सब
 विद्युद्-द्युति वार वार,
 खून की पिशेंगी धार
 सङ्गिनी सहेलियाँ भवानी की,
 धन्य हूँगा, देव-द्विज-देश को
 सपौं सर्वस्व निज ।

पञ्चवटी-प्रसङ्ग

(१)

सीता—आती है याद आज उस दिन की
प्रियतम !

जिस दिन हमारी पुष्प-वाटिका में
पुष्पराज !

वाल-राव-किरणों से हँसते नव नीलोत्पल !
साथ लिये लाल का

धूमते समोद थे नयन-मनोरम तुम ।

उससे भी सुन्दर क्या नहीं यह दृश्य नाथ ?

वहाँ की वह लता-कुञ्ज रुञ्जु थी

या यहाँ उस विटप विशाल पर

फैजी हुई मालती का शीतल तल सुन्दर है ?

मैं तो सांचती हूँ, वहाँ बन्दिनी थी

और यहाँ खेलती हूँ मुक्त खेल,

साथ हो तुम,

चलने लगी मैं जब पैरों पड़ी.

स्नेह से उठाकर मुझे—

अहा वह सुखद स्पर्श—

कहने लगी,—‘सीता, तू जानती है

क्या हैं सतियों के गुण तो भी कहूँ।’

सादर समझाए सतियों के गुण सारे मुझे,

गोद में बिठाके, वह कैसा प्यार—निश्छल—

निष्काम—तहीं भूलता है एक क्षण

राम—मुझे भा भरत की याद प्रिये सदा आती है।

सीता—अहा, वह भक्ति-भाव-भूषित मुख विनय-नम्र !

(लक्ष्मण का प्रवेश)

लक्ष्मण—अर्चना के लिये आर्य !

विल्वदल-गन्ध-पुष्प-मालाए

रक्खी हैं कुटीर में, देर हुई।

राम—हाँ लाल, चलते हैं।

सीता—और लाज मेरे लाओ फूल मालती के,

गूँथकर माला स्वयं

सती-शिरोरत्न के

पद-युगल-कमलों में

अर्पण करूँगी मैं।

(लक्ष्मण का प्रस्थान)

कितना सुबोध है !

पञ्चवटी-प्रसङ्ग

- आज्ञा-पालन के सिवा कुछ भी नहीं जानता,
आता है सामने तो झुका सिर
दृष्टि चरणों की ओर रखता है,
कहता है बालक इव क्या है आदेश माता ?

राम—पाए हैं इसने गुण सारे माँ सुमित्रा के ;
वैसा ही सेवाभाव, वैसा ही आत्मत्याग,
वैसी ही सरलता, वैसी पवित्र कान्ति ।
त्रुटि पर ज्यों विजली-सी दूटतीं सुमित्रा माँ,
शत्रु पर त्यों सिंह-सा झपटता है लखनलाल,
देखा नहीं कोप इसका परशुधर-प्रसङ्ग में ?
अथवा वन-गमन-समय ?
किंवा जब आये भरत चित्रकूट पर्वत पर ?
कितनी भक्ति मुझ पर है
... ने जाननी ही को ।

पञ्चवटी-प्रसङ्ग

(२)

लक्ष्मण—जीवन का एक ही अवलम्ब है सेवा ;

है माता का आदेश यही,

माँ की प्रीति के लिये ही चुनता हूँ सुमन-इल,

इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता—

जानने की इच्छा भी नहीं है कुछ ।

माता की चरण-रेणु मेरी परम शक्ति है—

माता की तृप्ति मेरे लिये अष्ट सिद्धियाँ—

माता के स्नेह-शब्द मेरे सुख-साधन हैं ।

धन्य हूँ मैं ;

जिनके कटाक्ष से करोड़ों शिव-विष्णु-अज

कोटि-कोटि सूर्य—चन्द्र-तारा-ग्रह

कोटि-इन्द्र-सुरासुर—

जड़-चेतन मिले हुए जीव-जग

वनते-पलते हैं,—नष्ट होते हैं अन्त में—
सारे ब्रह्माण्ड के जो मूल में विराजती हैं
आदि-शक्ति-रूपिणी,

शक्ति से जिनकी शक्तिशालियों में सत्ता है,
माता हैं मेरी वे।

जिनके गुण गाकर भवसिन्धु पार करते नर,
प्रणव से लेकर प्रतिमन्त्र के अर्थ में

जिनके अस्तित्व की ही

दीखती है दृढ़ छाप,

माता हैं मेरी वे।

नारियों की महिमा—सत्तियों की गुण-गरिमा में
जिनके समान जिन्हें छोड़ कोई और नहीं
माता हैं मेरी वे।

सलिल-प्रवाह में ज्यों बहता शैवाल-जाल
गृह-हीन, लक्ष्य-हीन, यन्त्र-तुल्य,

किन्तु परमात्मा की प्रेममयी प्रेरणा से
मिलता है अन्त में असीम महासागर से
हृदय खोल—मुक्त होता,

मैं भी त्यों त्यागकर सुखाशाएँ,—

घर-द्वार,—धन-जन,

बहता हूँ माता के चरणामृत-सागर में ;

मुक्ति नहीं जानता मैं, भक्ति रहे, काफ़ी है।

सुधाधर की कला में अंशु यदि बनकर रहूँ
तो अधिक आनन्द है

अथवा यदि होकर चकोर कुमुद नैश गन्ध
पीता रहूँ सुधा इन्दु-सिन्धु से बरसती हुई
तो सुख मुझे अधिक होगा ?

इसमें सन्देह नहीं,

आनन्द बन जाना हेय है,

श्रेयस्कर आनन्द पाना है,

मानस-सरोवर के स्वच्छ वारि-कण-समूह

दिनकर-कर-स्पर्श से

सूक्ष्माकार होते जब—

धरते अव्यक्त रूप,

कुछ काल के लिये नील नभोमण्डल में

लीन से हो जाते हैं—गाते अव्यक्त राग,

किन्तु क्या आनन्द उन्हें मिलता है, वे जानें !

इधर तो यह स्पष्ट है कि

वही जब पाते हैं जलद-रूप,—

प्रगति की फिर से जब सूचना दिखाते हैं,—

जीवन का बालकाण्ड शुरू होता,—

क्रीड़ा से कितने ही रङ्ग वे बदलते हैं

शिखर पर,—व्योम-पथ में

नाचते-धिरकते हैं,—किलकते,—गीत गाते हैं,—

कोमल कपोल श्याम चूमता जब मन्द मलय,—
भर जाता हृदय आनन्द से—

वृँदों से सींचती उच्छ्वास-सलिल
मानस-सरोवर-वत्,—स्मरण कर पूर्व कथा,
देखकर कौतुक तब खिले हुए कमल कुल
गले ढाल लेते हैं मोतियों की माला एक
मन्द मुस्कराते हुए ।

अतएव ईश्वर से सदा ही मैं मनाता हूँ,
“परमात्मन्, मनस्काम-कल्पतरु तुम्हें लोग कहते हैं,
पूरे करते हो तुम सबके मनोभिलाष,
यदि प्रभो, मुझ पर सन्तुष्ट हो
तो यही वर मैं माँगता हूँ,
माता की तृप्ति पर
बलि हो शरीर-मन
मेरा सर्वस्व-सार ;
तुच्छ वासनाओं का
विसर्जन मैं कर सकूँ ;
कामना रहे तो एक
भक्ति की बनी रहे ।”
चलूँ अब, चुन लिए प्रसून,
बड़ी देर हुई ।

पञ्चवटी-प्रसङ्ग

(३)

शूर्पनखा—देव-दानवों ने मिल

मथकर समन्दर को निकाले थे चौदह रत्न ;

सुनती हूँ,—

रम्भा और रमा ये दो नारियाँ भी निकली थीं,

कहते लोग, सुन्दरी हैं ;

किन्तु मुझे जान पड़ता —

सृष्टि-भर की सुन्दर प्रकृति का सौन्दर्य-भाग

खींचकर विधाता ने भरा है इस अङ्ग में,—

प्यार से—

अन्यथा उस बूढ़े विधि शिल्पी की

कँपती हुई अँगुलियों बिगाड़ देती चित्र यह—

धूल में मिल जाती चतुराई चित्रकार की ;

और यह भी सत्य है कि

ऐसी ललाम वामा चित्रित न होगी कभी ;
रानी हूँ,

प्रकृति मेरी अनुचरी है ;

प्रकृति की सारी सौन्दर्य-राशि लज्जा से
सिर झुका लेती जब देखती है मेरा स्वर,—

वायु के झकोरे से वन की लताएँ सब
झुक जातीं,—नजर बचाती हैं,—

अञ्चल से मानो हूँ छिपाती मुख
देख यह अनुपम स्वरूप मेरा ।

बीच-बीच पुष्प-गुँथे किन्तु तो भी बन्ध-हीन
लहराते केश-जाल, जलद-श्याम से क्या कभी
समता कर सकती है

नील-नभ तद्वित्तरकाशों वा चित्र ले
क्षिप्रगति चलती अभिसारिका यह गोदावरी ?—
हरगिञ्ज नहीं ।

कवियों की कल्पना तो

देखती ये भौँँ बालिका सी खड़ी—

छूटते हैं जिनसे आदिरस के सम्मोहन-शर
वशीकरण-मारण-उच्छादन भी कभी-कभी ।

हारे हैं सारे नेत्र नेत्रों को हेर-हेर,—

विश्व-भर को मदोन्मत्त करने की मादकता
भरी है विधाता ने इन्हीं दोनो नेत्रों में ।

मीन-मदन फाँसने की वंशी-सी विचित्र नासा,—
 फूलदल-तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल,—
 चिबुक चारु और हँसी विजली-सी,—
 योजन-गन्ध-पुष्प-जैसा प्यारा यह मुखमण्डल,—
 फैलते पराग दिङ्मण्डल आमोदित कर,—
 खिंच आते भौरें प्यारे ।

देख यह कपोत-कण्ठ
 बाहु-वल्ली कर-सरोज
 चत्रत उरोज पीन—क्षीण कटि—
 नितम्ब-भार—चरण सुकुमार—
 गति मन्द-मन्द,

छूट जाता धैर्य ऋषि-मुनियों का ;
 देवों—भोगियों का तो बात ही निराली है ।
 पैरों पड़ते हैं बड़े-बड़े वीर,
 माँगते कृपा की भिन्ना,
 हाथ जोड़ कहते हैं, “सुन्दरी ! अब कृपा करो,”
 पर मैं विजय-गर्व से
 विजितों पदपतितों पर
 डाल अवज्ञा की दृष्टि
 फेर लेती चन्द्रानन विश्वजयी ।
 क्या ही आश्चर्य है !
 कुछ दिन पहले तो यहाँ न थी यह अपूर्व शोभा,

निर्मम कठोर प्रकृति त्रस्त किया करती प्राण,

मरु-भूमि-सी थी जगह,

उड़ती उत्तम धूलि—भुजसाती थी शरीर

पथिकों को देती थी कठोर दण्ड

चण्ड मार्तण्ड की सहायता से ।

और आज कितना परिवर्तन है !

हत्याएँ हज़ारों जिन हाथों ने की होंगी

सेवा करते हैं वही हृदय के कपाट खोल

मीठे फल शीतल जल लेकर बड़े चाव से ।

जड़ों में हुआ है नव-जीवन-सञ्चार, धन्य !

इच्छा होती है, इन -

सखी-कलियों के सङ्ग

गाऊँ मैं अनूठे गीत प्रेम-मतवाली हो,

फूलों से खेळूँ खेल,

गूँथकर पुष्पाभरण पहनूँ,

हार फूलों के डालूँ गले ।

(फूलों से सजती हूँ)

अरे ! क्या वह कुटीर है ?

आया क्या मुनि कोई ?

बढ़कर ज़रा देखूँ तो

कौन यहाँ आया है मूर्ख प्राण देने को ।

मीन-मदन फाँसने की वंशी-सी विचित्र नासा,—
 फूलदल-तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल,—
 चिबुक चारु और हँसी विजली-सी,—
 योजन-गन्ध-पुष्प-जैसा प्यारा यह मुखमण्डल,—
 फैलते पराग दिङ्मण्डल आमोदित कर,—
 खिंच आते भौंरे प्यारे ।

देख यह कपोत-कण्ठ
 बाहु-वल्ली कर-सरोज
 उन्नत उरोज पीन—क्षीण कटि—
 नितम्ब-भार—चरण सुकुमार—
 गति मन्द-मन्द,
 छूट जाता धैर्य ऋषि-मुनियों का ;
 देवों—भोगियों की तो बात ही निराली है ।
 पैरों पड़ते हैं बड़े-बड़े वीर,
 माँगते कृपा की भिक्षा,
 हाथ जोड़ कहते हैं, “सुन्दरी ! अब कृपा करो,”
 पर मैं विजय-गर्व से
 विजितों पदपतितों पर
 डाल अवज्ञा की दृष्टि
 फेर लेती चन्द्रानन विश्वजयी ।
 क्या ही आश्चर्य है !
 कुछ दिन पहले तो यहाँ न थी यह अपूर्व शोभा,

निर्मम कठोर प्रकृति त्रस्त किया करती प्राण,
मरु-भूमि-सी थी जगह,

उड़ती उत्तम धूलि—भुजसाती थी शरीर
पथिकों को देती थी कठोर दण्ड
चण्ड मार्तण्ड की सहायता से ।

और आज कितना परिवर्तन है !

हत्याएँ हज़ारों जिन हाथों ने की होंगी
सेवा करते हैं वही हृदय के कपाट खोल
मीठे फल शीतल जल लेकर बड़े चाव से ।

जड़ों में हुआ है नव-जीवन-सञ्चार, धन्य !

इच्छा होती है, इन -

सखी-कलियों के सङ्ग

गाऊँ मैं अनूठे गीत प्रेम-मतवाली हो.

फूलों से खेळूँ खेल,

गूँथकर पुष्पाभरण पहनूँ,

हार फूलों के डालूँ गले ।

(फूलों से सजती

अरे ! क्या वह कुटीर है ?

आया क्या मुनि कोई ?

बढ़कर ज़रा देखूँ तो

कौन यहाँ आया है मूर्ख प्राण दे

मीन-मदन फाँसने की वंशी-सी विचित्र नासा,—
 फूलदल-तुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल,—
 चिबुक चारु और हँसी बिजली-सी,—
 योजन-गन्ध-पुष्प-जैसा धारा यह मुखमण्डल,—
 फैलते पराग दिङ्मण्डल आमोदित कर,—
 खिंच आते भौंरे प्यारे ।

देख यह कपोत-कण्ठ

वाहु-वल्ली कर-सरोज

उन्नत उरोज पीन—क्षीण कटि—

नितम्ब-भार—चरण सुकुमार—

गति मन्द-मन्द,

छूट जाता धैर्य ऋषि-मुनियों का ;

देवों—भोगियों की तो बात ही निराली है ।

पैरों पड़ते हैं बड़े-बड़े वीर,

माँगते कृपा की भिक्षा,

हाथ जोड़ कहते हैं, “सुन्दरी ! अब कृपा करो,”

पर मैं विजय-गर्व से

विजितों पदपतितों पर

ढाल अवज्ञा की दृष्टि

फेर लेती चन्द्रानन विश्वजयी ।

क्या ही आश्चर्य है !

कुछ दिन पहले तो यहाँ न थी यह अपूर्व शोभा,

आती जिज्ञासा जिज्ञासु के मस्तिष्क में जब—
 भ्रम से वचं भागने की इच्छा जब होती है—
 चेतावनी देती जब चेतना कि छोड़ो खेल,
 जागता है जीव तब,
 योग सीखता है वह योगियों के साथ रह,
 स्थूल से वह सूक्ष्म, सूक्ष्मातिसूक्ष्म हो जाता ;
 मन, बुद्धि और अहङ्कार से है लड़ता जब
 समर में दिन दूनी शक्ति उसे मिलती है ।
 क्रम-क्रम से देखता है
 अपने ही भीतर वह
 सूर्य-चन्द्र-ग्रह-तारे ।
 और अनगिनत ब्रह्माण्ड-भाण्ड ।
 देखता है स्पष्ट तब,
 उसके अहङ्कार में समाया है जीव-जग ;
 होता है निश्चय ज्ञान—
 व्यष्टि तो समष्टि से अभिन्न है ;
 देखता है, सृष्टि-स्थिति-प्रलय का
 कारण-कार्य भी है वही—
 उसकी ही इच्छा है रचना-चातुर्य में
 पालन-संहार में ।
 अस्तु भाई, हैं वे सब प्रकृति के गुण ।
 सच है, तब प्रकृति उसे सर्व शक्ति देती है—

पञ्चवटी-प्रसङ्ग

(४)

लक्ष्मण—प्रलय किसे कहते हैं ?

राम—मन, बुद्धि और अहङ्कार का लय प्रलय है ।

लक्ष्मण—कैसे यह प्रलय होता है, कहो देव !

राम—व्यष्टि औ' समष्टि में नहीं है भेद,

भेद उपजाता भ्रम—

माया जिसे कहते हैं ।

जिस प्रकाश के बल से

सौर ब्रह्माण्ड को उद्भासमान देखते हो

उससे नहीं वञ्चित है एक भी मनुष्य भाई ।

व्यष्टि औ' समष्टि में समाया वही एक रूप,

चिद्घन आनन्द-कन्द ।

सूक्ष्म भाव होता है ।

रहते आकाश में हैं

प्रकृति के तब सारे वीज ।

और यह भी सत्य है कि,

प्रकृति के तीनों गुण सम तब हो जाते हैं,

सीता—यह है बड़ा जटिल भाव,

भक्ति-कथा कहो नाथ !

राम—भक्ति-योग-कर्म-ज्ञान एक ही हैं

यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं ।

एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ—

द्वैतभाव ही है भ्रम ।

तो भी प्रिये,

भ्रम के ही भीतर से

भ्रम के पार जाना है ।

मुनियों ने मनुष्यों के मन की गति

सोच ली थी पहले ही ।

—लिये द्वैतभाव-भावुकों में

भक्ति को भावना भरी—

प्रेम के पिपासुओं को

सेवाजन्य प्रेम का

जो अति ही पवित्र है,

चपदेश दिया ।

अष्ट सिद्धियाँ वह
 सर्वशक्तिमान् होता ;
 इसे भी जब छोड़ता वह,
 पार करता रेखा जब समष्टि-अहङ्कार की—
 चढ़ता है सप्तम सोपान पर,
 प्रलय तभी होता है,
 मिलता वह अपने सच्चिदानन्द रूप से ।

लक्ष्मण—तो सृष्टि फिर से किस प्रकार होती है ?

राम—जिनकी इच्छा से संसार में संसरण होता—

चलते फिरते हैं जीव,
 उन्हीं की इच्छा फिर सृजती है सृष्टि नई ।

उनके लिये लाल देखो,

क्या है अकार्य यहाँ ?

मुक्त जा हा जाता है

फिर नहीं वह लौटता ।

बची रहती है जो अनन्त कोटि सृष्टि की

प्रकृति करती है क्रीड़ा उसे ले अनन्तकाल ।

अस्तु, है यह अन्य भाव;

सौर ब्रह्माण्ड के है प्रलय पर तुम्हारा प्रश्न ।

सुनो भाई,

जिस प्रकार व्यष्टि एक धरती है सूक्ष्म रूप

वैसे ही समष्टि का भी

सूक्ष्म भाव होता है ।

रहते आकाश में हैं

प्रकृति के तत्र सारे वीज ।

और यह भी सत्य है कि,

प्रकृति के तीनों गुण सम तत्र हो जाते हैं,

सीता—यह है बड़ा जटिल भाव,

भक्ति-कथा कहो नाथ !

राम—भक्ति-योग-कर्म-ज्ञान एक ही हैं

यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं

एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ—

द्वैतभाव ही है भ्रम ।

तो भी प्रिये,

भ्रम के ही भीतर से

भ्रम के पार जाना है ।

मुनियों ने मनुष्यों के मन की गति

सांच ली थी पहले ही ।

इसीलिये द्वैतभाव-भावुकों में

भक्ति की भावना भरी—

प्रेम के पिपासुओं को

सेवाजन्य प्रेम का

जो अति ही पवित्र है,

चपदेश दिया ।

अष्ट सिद्धियाँ वह
 सर्वशक्तिमान् होता ;
 इसे भी जब छोड़ता वह,
 पार करता रेखा जब समष्टि-अहङ्कार की—
 चढ़ता है सप्तम सोपान पर,
 प्रलय तभी होता है,
 मिलता वह अपने सच्चिदानन्द रूप से ।

लक्ष्मण—तो सृष्टि फिर से किस प्रकार होती है ?

राम—जिनकी इच्छा से संसार में संसरण होता—

चलते फिरते हैं जीव,
 वन्ही की इच्छा फिर सृजती है सृष्टि नई ।
 उनके लिये लाल देखो,
 क्या है अकार्य यहाँ ?
 मुक्त जा हा जाता है
 फिर नहीं वह लौटता ।

बची रहती है जो अनन्त कोंटि सृष्टि की
 प्रकृति करती है क्रीड़ा उसे ले अनन्तकाल ।

अस्तु, है यह अन्य भाव;

सौर ब्रह्माण्ड के है प्रलय पर तुम्हारा प्रश्न ।

सुनां भाई,

जिस प्रकार व्यष्टि एक धरती है सूक्ष्म रूप
 वैसे ही समष्टि का भी

सूक्ष्म भाव होता है ।

रहते आकाश में हैं

प्रकृति के तब सारे बीज ।

और यह भी सत्य है कि,

प्रकृति के तीनों गुण सम तब हो जाते हैं,

सीता—यह है बड़ा जटिल भाव,

भक्ति-कथा कहो नाथ !

राम—भक्ति-योग-कर्म-ज्ञान एक ही हैं

यद्यपि अधिकारियों के निकट भिन्न दीखते हैं ।

एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ—

द्वैतभाव ही है भ्रम ।

तो भी प्रिये,

भ्रम के ही भीतर से

भ्रम के पार जाना है ।

मुनियों ने मनुष्यों के मन की गति

सोच ली थी पहले ही ।

इसीलिये द्वैतभाव-भावुकों में

भक्ति को भावना भरी—

प्रेम के पिपासुओं को

सेवाजन्य प्रेम का

जो अति ही पवित्र है,

उपदेश दिया ।

सेवा से चित्तशुद्धि होती है ।

शुद्ध-चितात्मा में चगता है प्रेमाङ्कर ।

चित्त यदि निर्मल नहीं

तो वह प्रेम व्यर्थ है—

पशुता की ओर है वह खींचता मनुष्यों को ।

सीता—देखो नाथ, आती है नारी एरु ।

राम—बैठो भी, आने दो ।

पञ्चवटी-प्रसङ्ग

(५)

शूर्पनखा—(स्वगत) यहाँ तो ये तीन हैं,
एक से हैं एक सुन्दर ;
साथ एक नारी भी
सुन्दरी सुकुमारी है,
किन्तु क्या है मुझसे भी ?

(हृदय पर पड़ी हुई पुष्प-माळा देखती है

कुछ मुसकिराती हुई)

सुन्दर नरों को तो देखकर यह जान पड़ता,
ऋषि नहीं, ये नहीं हैं तपस्वी। कभी,
कोमलाङ्ग योग्य नहीं कठिन तपस्या के,
निश्चय हैं राजपुत्र

अथवा नररूप धर वन में हैं विचरते सुर ।

श्यामल-सरोज-वन्ति

छीन लेती सहज ही

सञ्चित हृदय का प्रेम—

नारियों का गुप्त धन ।

चाहता जी—

नील-जल-सरोवर पर

प्रेम-सुधा-कौमुदी पी

खिल-खिलकर हँसती हुई

भाग्यवती कुमुदिनी-सी

साँवरे का अधर-मधु पान कर

मुग्ध से बिताऊँ दिन ।

(राम के पाम जाती है)

सुन्दर !

मैं मुग्ध हो गई हूँ देव

अनुपम तुम्हारा रूप ।

जैसी मैं सुन्दरी हूँ.

योग्य ही हो मेरे तुम ।

मचल रहा मानस मम

इच्छा यह पूर्ण करो—

कामिनी की कामना

अपूर्ण नहीं रखते पुनः !

मेरे साथ—मेरे वन

चलो तुम,

बिठाऊँगी स्वर्ग के सिंहासन पर तुम्हें सखे

कुछ भी अप्राप्य नहीं

सर्वसुख भोगोगे पुरुषोत्तम !

स्वर्ग के राजाधिराज तुम होगे

और मैं राजरानी ;

पारिजात-पुष्प के नीचे बैठ सुनोगे तुम

कोमल-कण्ठ-कामिनी की सुधाभरी असावर

भ्रमर-भर-कम्पित यह यूथिका भुकेगी जब—

सुन्दरी, विवाहित हूँ,

देखो, यह पत्नी है ।

जाओ तुम उनके पास,

वे हैं कुमार और सुन्दर भी ।

लक्ष्मण—सुन्दरी, मैं दास हूँ उनका,

और वे हैं महाराज कोशल-पति,

एक क्या, अनेक व्याह कर सकते चाहें तो,

सेवक हूँ उनका मैं

मुझसे सुखाशा आकाश-कुसुम-तुल्य है ।

शूर्पनखा—(राम से) मेरे योग्य तुम्हीं हो ।

राम—देखो तो उन्हें जरा,

कितने वे सुन्दर हैं—हेमकान्ति ।

शूर्पनखा—(लक्ष्मण से) मेरे हृदय-दर्पण में
 प्रेम का प्रतिबिम्ब तब
 कितना सुहावना है—कितना सुदर्शन,
 तुम देख लो !

लक्ष्मण—दूर हट नीच नारी !

शूर्पनखा—(राम से) धिक्क है नराधम तुम्हें,
 वञ्चक कहीं का शठ,
 विमुख किया तूने उसे
 आई जो तेरे पास
 चाव से
 अर्पण करने के लिये जीवन-यौवन नवीन ।
 निश्छल मनोहर श्याम काम-कमनीय देख
 साचा था मैंने,
 तू काम-कला-कोविद
 कोंडें रसिक अवश्य होगा ।
 मैं क्या जानती थी
 यह काम की नहीं है
 किन्तु विष की है श्यामता ?—
 कूट-कूटकर इसमें
 भरा है हलाहल घोर ?
 नीचा या गुलाब जिसे
 निकला छिः जद्गली निर्गन्ध कुमुम ।

तप्त मरुभूमि की
 मृगी का-सा हुआ भ्रम ।
 दगा दिया तूने क्यों
 त्यों ही फल भोगेगा इसका तू शीघ्र ही ।
 दम में दम जब तक है,
 काल-नागिनी-सी मैं लगी रहूँगी घात में ।
 तुझे भी रुलाऊँगी,
 जैसा है रुलाया मुझे ।

—अभी तो रुलाया नहीं,

इच्छा यदि है तो तू

(जदमण को इशारा)

ए—रो अत्र जी खोलकर ।

(नाक-कान काटते हैं)

जागरण

प्रथम विजय थी वह—
भेदकर मायावरण
दुस्तर तिमिर घोर—जडावर्त—
अगणित-तरङ्ग-भङ्ग—
वासनाएँ समल निर्मल—
कर्दममय राशि-राशि
सृष्टाहत जङ्गमता—
नरवर संसार—
मृष्टि-पालन-प्रलय-भूमि—
दुर्दम अज्ञान-राज्य—
मायावृत "मैं" का परिवार—
पारावर-केलि-कौतूहल
हाम्य-प्रेम-क्रोध-भय—
परिवर्तित समय का—

बहु-रूप-रसाश्वाद—

बोर-उन्माद-प्रसत,

इन्द्रियों का बारम्बार वहिरागमन,

स्खलन, पतन, उत्थान—एक

अस्तित्व जीवन का—

महामोह,

प्रतिपद पराजित भी अप्रतिहत बढ़ता रहा;

पहुँचा मैं लक्ष्य पर।

अविचल निज शान्ति में

कान्ति सब खो गई—

छूब गया अहङ्कार

अपने विस्तार में—

टूट गए सीमा-बन्ध—

छूट गया जड़-पिएड—

ग्रहण देश-काल का,

निर्बीज हुआ मैं—

पाया स्वरूप निज,

मुक्ति कूप से हुई,

नीड़स्थ पक्षी की

तम विभावरी गई—

विस्तृत अनन्त पथ

गगन वा मुक्त हुआ;

मुक्त पल्ल उज्वल प्रभात में :
 ज्योतिमय चार्गे ओर
 परिचय सब अपना ही !
 स्थित मैं आनन्द में चिरकाल
 जाल-मुक्त । दानान्द्रुधि
 वीचिरहित । इन्द्रा हृद् मृष्टि की,
 प्रथम तरङ्ग वह आनन्द-मिन्धु में,
 प्रथम कम्पन में सम्पूर्ण बीज मृष्टि के,
 पूर्णता से खुला मैं पूर्ण मृष्टि-शक्ति ले,
 त्रिगुणात्मक रचे रूप.
 विकसित किया मन को,
 बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, पञ्चभूत,
 रूप-रस-गन्ध-स्पर्श.
 शब्दज संसार यह,
 वीचियाँ ही अग्नित शुचि सच्चिदानन्द की ।
 फैला प्रकाश मेरा आदि युग.
 सत्य समुद्भासमान,
 अल्प अज्ञान ज्ञान-राशि में,
 भवर्णालोक शोक हर लेता था—
 देता था हृदय को चिरसञ्चित हृदय का प्रेम,
 अक्लेश, अल्पभेद,
 प्ररफुट गुलाब-सा

कण्टक-संयुक्त भी कोमल-तनु मन्द-गन्ध ।

स्पर्श मधुर अधरों को,

नयनों को दर्शन-सुख ।

उपकरण नहीं थे अनेक,

एक आभरण प्रेम था ।

मन के गगन के

अभिलाप-घन उस समय,

जानते थे वर्षण ही—

उद्गीरण वज्र नहीं ।

वेदना में प्रेम था, अपनापन,

रसना न भोग की,

आकर्षण घोर निज ओर का—

न निर्दय मरोर था ।

अन्त में अनन्त की

प्रथम विभूति वह

मुग्ध नहीं करती थी ।

बौंध कर पाश से

विपथगामी न कभी करती थी पथिक का ।

अपना शरीर, निजता का सर्वस्व मन

वारती थी सेवा में, सत्य-आदर्श की

ज्योति वह दिखाती थी,

सञ्चालित करती थी उसी ओर,

सहज भाषा में
 समझाती थी ऊँचे तत्त्व
 अलङ्कार-लेश-रहित, श्लेष-हीन,
 शून्य विशेषणों से—
 नग्न-नीलिमा-सी व्यक्त
 भाषा सुरक्षित वह वेदों में आज भी—
 मुक्त छन्द,
 सहज प्रकाशन वह मन का—
 निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र ।
 हरित पत्रों से ढके
 श्यामलं छाया के वे
 शान्ति के निविड़ नीड़,
 मलयज सुवास स्वच्छ,
 पुष्प-रेणु-पूरित वे आश्रम-तपोवन,
 शुद्धि सरल सौन्दर्य के अनुपम पावन स्वरूप,
 प्राङ्गण विभूति का—
 बालिका की क्रीड़ा-भूमि—
 कल्पना की धन्य-गोद—
 सभ्यता का प्रथम विकास-स्थल ।
 धवल पताका देवत्व की,
 ज्योतिर्मात्र, अशरीर,
 चिर अधीरता पर

विजय-गर्व से उड़ती हुई
 व्योम-पथ पर,
 “सोऽहम्” का शान्त स्वर
 भरा हुआ प्रतिमुख में,
 “अएवप्युचितम्” विशाल हृदय,
 मुक्त द्वार खुला था
 सदा ही संसार को
 शिक्षा देने के लिए
 ‘तत्त्वमसि’ महाज्ञान ।
 विश्व-विद्यालय के वे
 प्रथम स्तम्भ—विटप-मूल, छायाच्छद,
 शिक्षा उदारता,
 विश्लेषण चरम एकत्व का बहुत्व में—
 परमाणुओं के प्रतिघातों से बचने को
 पूजा-भाव, भेद-समर-नाशक,
 विज्ञान आनन्दप्रद—
 पावन वह वन-भूमि ।

सहज भाषा में
 समझाती थी ऊँचे तत्त्व
 अलङ्कार-लेश-रहित, श्लेष-हीन.
 शून्य विशेषणों से—
 नग्न-नीलिमा-सी व्यक्त
 भाषा सुरक्षित वह वेदों में आज भी—
 मुक्त छन्द,
 सहज प्रकाशन वह मन का—
 निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र ।
 हरित पत्रों से ढके
 श्यामलं छाया के वे
 शान्ति के निविड़ नीड़,
 मलयज सुवास स्वच्छ,
 पुष्प-रेणु-पूरित वे आश्रम-तपोवन,
 शुचि सरल सौन्दर्य के अनुपम पावन स्वरूप,
 प्राङ्गण विभूति का—
 वालिका की क्रीड़ा-भूमि—
 कल्पना की धन्य-गोद—
 सभ्यता का प्रथम विकास-स्थल ।
 धवल पनाका देवत्व की,
 ज्योतिर्मात्र, अशरीर,
 चिर अधीरता पर

जागरण

विजय-गर्व से उड़ती हुई
व्योम-पथ पर,
“सोऽहम्” का शान्त स्वर
भरा हुआ प्रतिमुख में,
“अएवप्युचित्तम्” विशाल हृदय,
सुकु द्वार खुला था
सदा ही संसार को
शिक्षा देने के लिए
“तत्त्वमसि” महाज्ञान ।
विश्व-विद्यालय के वे
प्रथम स्तम्भ—विटप-मूल, छायाच्छद,
शिक्षा उदारता,
विश्लेषण चरम एकत्व का बहुत्व में—
परमाणुओं के प्रतिघातों से बचने को
पूजा-भाव, भेद-समर-नाशक,
विज्ञान आनन्दप्रद—
पावन वह वन-भूमि ।

सहज भाषा में
 समझाती थी ऊँचे तत्त्व
 अलङ्कार-लेश-रहित, श्लेष-हीन,
 शून्य विशेषणों से—
 नग्न-नीलिमा-सी व्यक्त
 भाषा सुरक्षित वह वेदों में आज भी—
 मुक्त छन्द,
 सहज प्रकाशन वह मन का—
 निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र ।
 हरित पत्रों से ढके
 श्यामल छाया के वे
 शान्ति के निविड़ नीड़,
 मलयज सुवास स्वच्छ,
 पुष्प-रेणु-पूरित वे आश्रम-तपोवन,
 शुधि सरल सौन्दर्य के अनुपम पावन स्वरूप,
 प्राङ्गण विभूति का—
 बालिका की क्रीड़ा-भूमि—
 कल्पना की धन्य-गोद—
 सभ्यता का प्रथम विकास-स्थल ।
 धवल पताका देवत्व की,
 ज्योतिर्मात्र, अशरीर,
 चिर अधीरता पर

विजय-गर्व से उड़ती हुई
 व्योम-पथ पर,
 “सोऽहम्” का शान्त स्वर
 भरा हुआ प्रतिमुख में,
 “अएवप्युचितम्” विशाल हृदय,
 मुक्त द्वार खुला था
 सदा ही संसार को
 शिक्षा देने के लिए
 “तत्त्वमसि” महाज्ञान ।
 विश्व-विद्यालय के वे
 प्रथम स्तम्भ—विटप-मूल, छायाच्छद,
 शिक्षा उदारता,
 विश्लेषण चरम एकत्व का बहुत्व में—
 परमाणुओं के प्रतिघातों से बचने को
 पूजा-भाव, भेद-समर-नाशक,
 विज्ञान आनन्दप्रद—
 पावन वह वन-भूमि ।